

*Published by*  
K. Mitra.  
at The Indian Press, Ltd.,  
Allahabad.

*Printed by*  
A. Bose,  
at The Indian Press, Ltd.,  
Benares-Branch.

जो अत्यंत वात्सल्य से 'आदि इतिहास' के अमृतविंदुओं  
को मेरे शैशव-काल ही में हृदयंगम कराकर  
देवलोकगामिनी हुईं

उन्हीं

प्रातःस्मरणीया पूज्य माता श्री ६ गोदावरी बाई

की

पुण्य स्मृति

में

यह क्षुद्र कृति अत्यंत श्रद्धापूर्वक अर्पित है

मदनगोपाल



## संपादक का निवेदन

इस पुस्तक का प्रथम भाग प्रकाशित हुए कई साल हो गये। उसके अनुवाद में मेरा हाथ था। किंतु समयाभाव से मैं दूसरे भाग में अपने मित्र श्री मदनगोपालजी की कोई विशेष सहायता नहीं कर सका। यह कुल अनुवाद उन्हीं का किया हुआ है और उसका उत्तरदायित्व भी उन्हीं का है। मुझे हर्ष है कि यह अनुवाद इतना सुन्दर हुआ है और इस भाग के साथ श्री जी० एच० वैल्स की यह विश्व-विख्यात पुस्तक हिन्दी पाठकों को अपनी मातृभाषा में सुलभ हो गई है। इस पुस्तक में मैं अपना कथन प्रथम भाग की भूमिका में कह चुका हूँ।

श्रीनारायण चतुर्वेदी





## प्राक्कथन

ईस्वी सन् १९३५ में इस पुस्तक का प्रथम भाग प्रकाशित हुआ था। आज दूसरा भाग पाठकों की सेवा में उपस्थित है, और इसके साथ ही लगभग १२ वर्ष पूर्व सुसलिला भागीरथी के तट पर मायावती में प्रारम्भ किया हुआ सत्र समाप्त होता है।

प्रकाशित होने के लगभग ५ वर्ष बाद श्री एच० जी० वैल्स-कृत इस पुस्तक की अँगरेज़ी प्रति सन् १९२७ में स्थानीय म्युनिसिपल लाइब्रेरी में मँगवाई गई। उसी समय मैंने इसको पढ़ा। वैल्स महोदय संसार के ख्यातनामा लेखक हैं और साहित्य-जगत् में वैज्ञानिक लेखक के नाते उनका विशेष स्थान है। उनकी यह पुस्तक यूरोप और अमेरिका में मान की दृष्टि से देखी जाती है और इसके अनेकों संस्करण भी छप चुके हैं।

इतिहास भी एक विज्ञान है और इसका विषय—मानव-समाज—अत्यन्त दुरूह है। पृथ्वी के निर्माण-काल से लेकर आज तक किस प्रकार स्थावर-जङ्गम सृष्टि का विकास एवं उन्नति हुई और किस प्रकार मानव-जाति ने धर्म, संस्कृति एवं विज्ञान में क्रमशः उन्नति कर वर्तमान अवस्था प्राप्त की, इसका ऐसी छोटी सी पुस्तक में अत्यन्त स्पष्ट रूप से वर्णन करना वैल्स-सरीखे साहित्यिक कलाकारों का ही काम है। एक तो अँगरेज़ी न जाननेवाले हिन्दी-भाषा-भाषी मूल-काव्येतिहास के रसास्वादन से वञ्चित हैं; दूसरे हिन्दी में इतिहास-ग्रन्थों की बढ़ी कमी है। पिछले कुछ वर्षों में इस विषय पर कुछ महत्त्वपूर्ण पुस्तकें अवश्य लिखी गई हैं, परन्तु वह अँगुलियों पर गिनी जा सकती हैं। और वह भी केवल भारत-सम्बन्धी ही हैं। विदेश के सम्बन्ध में हमारी भाषा का एत-द्विपयक भण्डार ज़ाली है। इन्हीं कतिपय कारणों से प्रेरित होकर मैंने इसके अनुवाद का प्रयत्न किया था।

अनुवाद-कार्य सरल नहीं है। अपनी शैली को निभाते हुए विदेशीय भावों के स्वकीय भाषा में प्रतिबिम्बित करना कष्ट-साध्य है; फिर परिमार्जित, सरल पदयुक्त, ओज-स्विनी और क्षण-क्षण में विलक्षण अर्थ उत्पन्न करनेवाली वैल्स महोदय की रहस्यमयी काव्य-भाषा का अनुवाद करना अत्यन्त ही दुःसाध्य, प्रतीत हुआ। यहाँ हमारा ध्येय यह रहा है कि पाठान्तर शुद्ध हो; भाषा वासुहाविरा हो; और मूल पुस्तक का ओज यथासंभव सुरक्षित रहे। मार्ग में अड़चनें भी थोड़ी न थीं। कार्य की गुरुता, समय और उचित वातावरण का अभाव और हिन्दी में वैज्ञानिक कोष की कमी, प्रधान बाधाएँ थीं।

सौभाग्य से हिन्दी के यशस्वी लेखक पं० श्रीनारायण चतुर्वेदी ने अपना अमूल्य समय देकर अत्यन्त परिश्रम-पूर्वक यथोचित संशोधन कर ग्रंथ का मानो काया-कल्प ही कर दिया और जिसका फल प्रथम भाग के रूप में पाठकों के सामने कई वर्षों से है। उन्हीं के अनुग्रह एवं प्रयत्न से यह अनुवाद-ग्रंथ उत्तरीय भारत के सर्वोत्तम प्रेस से छुपकर प्रकाशित हो सका। मित्रवर पं० रघुनाथ चिन्तामणि चतुर्वेदी बी० एस्-सी०, एल्-एल० बी० महोदय ने इस भाग की आद्यन्त पाठान्तर-शुद्धि में अथक परिश्रम किया है अतः मैं उनका अत्यन्त अनुग्रहीत हूँ। चतुर्वेदी-युगल के इस अनासक्ति-योग के कारण ही यह अनुवाद अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त कर सका है। बन्धुवर श्री कुञ्जविहारीलाल सेठ, आई० सी० एस०, रेवेन्यू सेक्रेटरी, सी० पी० गवर्नमेन्ट के अदम्य उद्योग के फलस्वरूप महान् लेखक ने भाषान्तर करने की आज्ञा बड़ी उदारता के साथ दी। सुदूर मदरास की तामिल भाषा को छोड़कर किसी अन्य भारतीय भाषा में इसके अनुवाद की आज्ञा अब तक नहीं मिली है। पुस्तक के प्रारम्भ में दिया हुआ श्री वैल्स का चित्र भी श्री सेठजी की कृपा से प्राप्त हुआ है। अपना अमूल्य समय देकर वह इतने प्रयत्नशील न होते तो यह अनुवाद शायद सन्दूक में ही बन्द रहता। मातृ-भाषा इस प्रयत्न के लिए उनके सदा आशीष देगी।

मुरादाबाद ( गुजराती मुहल्ला ),  
 श्रावण शुक्ला, द्वितीया,  
 संवत् १९९६ ।

मदनगोपाल

## विषय-सूची

अध्याय	विषय	पृष्ठ
	...	१
३७	जीसस के उपदेश	१०
३८	ईसाई-धर्म के सिद्धान्तों का विकास	...
३९	वर्तव्यों के आक्रमण द्वारा साम्राज्य का पूर्वीय तथा पश्चिमीय भागों में विभाग	१६
४०	हूण और पश्चिमीय साम्राज्य का अन्त	२२
४१	वैज़ण्टाइन और शाशानीय साम्राज्य	२८
४२	चीन देश के सई और तङ्ग वंश	३४
४३	मुहम्मद और इसलाम	३८
४४	अरबों का स्वर्ण-काल	४३
४५	लैटिनीय क्रिश्चियन राज्यों की उन्नति	४९
४६	धर्मयुद्ध और पोप के उपनिवेशों का समय	५९
४७	उच्छृंखल राजकुमार और महान् धार्मिक मतभेद	७१
४८	मंगोलों की विजय	८२
✓ ४९	यूरोपीय जातियों का बौद्धिक पुनरुत्थान	८८
५०	लैटिन चर्च का सुधार	९८
५१	सम्राट् चार्ल्स पंचम	१०२
✓ ५२	राजनैतिक प्रयोगों के युग, यूरोप में महान् स्वच्छन्द राज्यशासन, पार्लियामेंट और प्रजातंत्र	११३
✓ ५३	प्राजिया और समुद्र पार देशों में नवीन यूरोपीय साम्राज्य	१२४
✓ ५४	अमरिका का स्वातंत्र्य-युद्ध	१३०

अध्याय	विषय	पृष्ठ
५५	फ्रांस में क्रान्ति और राज्य-शासन की पुनःस्थापना ...	१३६
५६	नैपोलियन के अधःपतन के उपरांत यूरोप में विषम शांति	१४५
५७	पदार्थ-ज्ञान की उन्नति ... ..	१५१
✓ ५८	औद्योगिक क्रान्ति ... ..	१६२
✓ ५९	आधुनिक राजनैतिक एवं सामाजिक विचारों का विकास ...	१६७
६०	संयुक्त राज्य की विस्तार-वृद्धि ... ..	१७९
६१	यूरोप में जर्मनी की ऐश्वर्यमय प्रगति ... ..	१८८
६२	स्टीम-पोत और रेलवे द्वारा स्थापित समुद्र-पार का नवीन-साम्राज्य	१९०
६३	एशिया पर यूरोप का आक्रमण और जापान का अभ्युदय	१९६
✓ ६४	१९१४ में ब्रिटिश-साम्राज्य .. ..	२०१
६५	यूरोप का सज्जीकरण युग और १९१४-१८ का महान् युद्ध	२०५
✓ ६६	रूस का नवीन शासन-विधान ... ..	२१०
६७	राजनैतिक और सामाजिक संसार का पुनर्निर्माण ...	२१६





एच० जी० वेल्स

## जीसस के उपदेश

ऑगस्टस सीज़र नामक प्रथम सम्राट् जिस समय रोम में शासन कर रहा था उसी समय क्रिश्चियन-धर्म के मसीहा ( त्राता ) जीसस ने जूडिया में जन्म लिया । इस पुरुष के नाम से ऐसे महान् धर्म का अभ्युदय हुआ जो कालान्तर में समस्त रोमन साम्राज्य का राजधर्म हो गया ।

इतिहास और धर्म को एक दूसरे से पृथक् रखने में प्रायः विशेष सुविधा होती है । बहुसंख्यक ईसाई-जगत् की यह धारणा है कि प्राचीन यहूदी-समाज जिस जगत्पति की उपासना करता था जीसस उसी के अवतार हैं । इतिहास-लेखक ( यदि अपना धर्म सम्यक् रूप से पालन करना चाहे तो ) इस व्याख्या को न तो स्वीकार ही कर सकता है और न अस्वीकार । मानवरूप से आविर्भूत होने के कारण, जीसस को मनुष्यत्व के दृष्टिकोण से देखना ही इतिहासकार के लिए अधिक उचित है ।

टाइवीरियस सीज़र के राज-काल में वे जूडिया में प्रकट हुए । वे पैगम्बर वा ईश्वरीय दूत थे और अपने पूर्वज यहूदी पैगम्बरों की भाँति धर्मोपदेश देते थे । उस समय उनकी अवस्था लगभग तीस वर्ष की होगी । हमको इस बात की कुछ भी जानकारी नहीं है कि इससे पहिले उन्होंने किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया था ।

जीसस के जीवन तथा उपदेशों से परिचय प्राप्त करने के प्रधान नाथन इस समय केवल चार सुसमाचार हैं, और चारों एक ही भाँति से व्यक्ति-विशेष के चित्र को चित्रित करते हैं । इसी से विवश होकर कहना पड़ता है कि यही वह व्यक्ति थे और इनका मनुष्य की कल्पनामात्र होना असम्भव है । श्रयवा यह मनुष्य की कल्पना नहीं हो सकते ।

जिस प्रकार पश्चात्-कालीन बौद्ध-अनुयायियों ने ध्यानात्मक बुद्धदेव की सुन्दर परन्तु अनैसर्गिक और मिथ्या मूर्ति बना बुद्ध के व्यक्तित्व को सत्य से कितनी दूर ले जाकर लुका-छिपा-सा दिया है ठीक उसी प्रकार आधुनिक क्रिश्चियन-कला ने भी आधार-



रखा था। उनकी धारणा थी कि हमारे पूर्वज ऐब्रेहम ( इब्राहीम ) के साथ उस ( ईश ) का ठहराव हो गया है ऐसा कि उसके द्वारा उन्हीं लोगों का हित-साधन होता था। इस समझौते के अनुसार संसार में तज्जातीय पुरुषों ही को महत्ता प्राप्त होती थी। अपने इन विशेषाधिकारों पर जीसस द्वारा प्रहार होते देख उनके हृदय निराशा और क्रोध से भर गये। जीसस ने समझाया कि परमेश्वर सौदा-समझौता नहीं करता; स्वर्गीय राज्य में न तो कोई चाहती जाति है और न किसी को कोई विशेषाधिकार प्राप्त है। सूर्य की भाँति परमात्मा भी किसी व्यक्ति-विशेष पर अनुग्रह नहीं करते। उनको समस्त जीवों से एक-सा ही स्नेह है। संसार के समस्त मनुष्य स्वर्गीय पिता के प्यारे और एक दूसरे के भाई हैं, पुण्यात्मा हों या पापात्मा। स्वजातियों का यश-गायन तथा अन्य धर्मावलम्बियों को सदाचारी होने पर भी हेय वा तुच्छ समझना मनुष्यों का नैसर्गिक स्वभाव है, परन्तु अच्छे सैमेरिटन की दृष्टान्त-कथा में जीसस ने इसकी घोर निन्दा की है और श्रमिकों की दृष्टान्त-कथा में यहूदियों के इस दावे की धज्जियाँ उड़ाई हैं कि उनके ही समाज का परमात्मा पर विशेषाधिकार है। उन्होंने समझाया कि स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने पर परमात्मा प्रत्येक पुरुष की समान-रूप से रक्षा करता है उसके वर्त्ताव में भेद-भाव नहीं है क्योंकि उसकी उदारता अनन्त एवं अपरिमित है। इसके अतिरिक्त जैसा कि गड़े हुए तोड़े की कथा में हमको प्रत्यक्ष दीखता है और 'विधवा की तुच्छ भेट' इत्यादि कथाएँ हमको मानने के लिए विवश करती हैं, वे प्रत्येक व्यक्ति से यथाशक्य सम्पूर्ण त्याग की जिज्ञासा करते थे। स्वर्गीय राज्य में न तो विशेषाधिकार हैं, न रियायत की जाती है और न बहाने चलते हैं।

यहूदियों के घोर वर्गीय पक्षपात की जीसस ने केवल निन्दा ही नहीं की बल्कि उन्होंने तो कुटुम्ब के प्रति अनन्य-भक्ति प्रदर्शित करनेवाली उस जाति के संकीर्ण एवं परिमित कौटुम्बिक मिथ्या गौरव को उखाड़कर स्वकीय ईश्वर-प्रेम की बहिया में बहा दिया। उनके अनुयायियों के लिए समस्त स्वर्गीय राज्य ही कुटुम्ब होना चाहिए था। हमको बताया गया है कि एक समय वे लोगों को उपदेश दे रहे थे कि उनके माता और भाई उनसे वार्त्तालाप करने की इच्छा से बाहर आ खड़े हो गये। इतने में किसी ने उनसे कहा कि आपकी माता और आपके भाई आप से बात करने की नीयत से बाहर खड़े हैं परन्तु उन्होंने नवादा-दाता से यह प्रश्न किया कि मेरी माता कौन है? और मेरा भाई कौन है? और उन्होंने शिष्यों की ओर हाथ फैलाकर उत्तर दिया कि देखो मेरी माता को और मेरी बहन को और मेरी बहन है और वही मेरी माता है।

ईश्वर ही विश्व का विधाता है और सब मनुष्य एक दूसरे के भाई हैं, इन उपदेशों के द्वारा जीसस ने न केवल देश-प्रेम तथा कौटुम्बिक बन्धनों ही की जड़ पर प्रहार किया, अपितु आर्थिक अवस्था-जनित श्रेणि-विभाग, समस्त-वैयक्तिक-सम्पत्ति और विशेषाधिकारों को भी अपने स्पष्ट उपदेशों द्वारा खूब ही धिक्कारा था। समस्त मानव-समाज उक्त राज्य की प्रजा है, उसकी सम्पदा राज्य की मिलकियत है और सम्पूर्ण तन, मन, धन से ईश्वर के आशा-पालन का नाम ही सदाचारमय, जीवन शुद्ध-जीवन है। वैयक्तिक सम्पदा और सख्त तथा विशेषाधिकारों की तो उन्होंने बारम्बार निन्दा की है।



### नज़ारेथ से तिवरियास की सड़क

एक बार वे कहीं जा रहे थे कि राह में उनको कोई मिल गया और बन्दना कर पूछने लगा कि 'अच्छे शिक्षक यह तो बताओ कि मैं किस कार्य से अमर हो सकता हूँ ?' इस पर उन्होंने कहा कि तुम मुझको अच्छा क्यों कहते हो ? अच्छा तो केवल एक ईश्वर ही है। पर-नारी में आसक्ति न करो, बध न करो, चोरी मत करो, मिथ्या नार्त्नी मत दो, धोखा न दो, और अपने माता-पिता का सम्मान करो। इन उपदेशों को क्या तुम जानते हो ? उसने जब उन्हें यह उत्तर दिया कि मैं युवावस्था से ही इन सबका पूर्णतया पालन

कर रहा हूँ तो जीसस ने उसकी ओर प्रेममयी दृष्टि से देखकर कहा कि तुम मे अभी एक न्यूनता और शेष रह गई है। जाओ, अपना सर्वस्व बेचकर निर्धनों को बाँट दो, तुमको स्वर्गीय निधि मिलेगी। 'आओ क्रूस धारणकर मेरे अनुयायी हो जाओ'; यह सुनकर वह दुःखित हो वहाँ से चल दिया क्योंकि उसके पास बहुत अधिक सम्पदा थी।

“और जीसस ने चारो ओर देखकर अपने शिष्यों से कहा; “जिनके पास सम्पदा है उन पुरुषों को ईश्वर के राज्य में पदार्पण करते समय कैसी-कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।” उनकी यह बात सुनकर शिष्य-समुदाय अचम्भे में आ गया। परन्तु जीसस ने उनको फिर समझा कर यो कहा—“बालको ! सम्पदा में विश्वास करनेवाले

पुरुषों का ईश्वर के राज्य में प्रवेश होना बड़ा कठिन है”। “एक ऊँट का सूई के तकुएँ में प्रवेश होना, धनिकों के ईश्वर-राज्य में प्रवेश करने से कहीं अधिक सुगम है”।”

इसके अतिरिक्त इस राज्य-विषयक अद्भुत भविष्य-वाणी करते समय, जो सम्पूर्ण मानव-समाज को समान रूप से ईश्वर से मिलानेवाला था, जीसस कर्मकाण्डीय धर्म सदाचार को जो न्याय और सत्य को सौंठे की वस्तु समझता था बहुत ही अधीर हो गये थे। उनके उपदेशों का अधिक भाग जो लेख-बद्ध हैं, पवित्र जीवन-विधान के अन्ध अनुसरण के विरोध में था। तब फेरीसीज ( यहूदियों का- कर्मकाण्डी पन्थ ) और धर्माचार्यों ( स्काइव ) ने उनसे पृथ्वा—आपका शिष्य-समु-

उपिठ का टावर और जेरुसलेम की दीवार

दाय प्राचीन परिपाटी पर क्यों नहीं चलता ? वरन् बिना हाथ धोये ही गोटी खाता है ? समझा उन्होंने ( उनको ) यह उत्तर दिया—तुम पागलियों के लिए एमाइयास ने दीन ही भविष्यवाणी की है, क्योंकि वे लिख गये हैं कि :—

“यह लोग मुख से मेरी प्रशंसा करते हैं ।

परन्तु इनका हृदय मुझसे बहुत दूर है ।”

“फिर यह मेरी पूजा भी वृथा करते हैं ।

मेरे सिद्धान्तों के स्थान में मनुष्यों के आदेशों का पालन करते हैं” ।

ईश्वरीय आदेशों को एक ओर धर कर पुरुषों की चलाई हुई परम्परा पर चलना तुम लोग ठीक समझते हो और प्याले धोने से वर्त्तन साफ़ करने आदि ऐसे ही ( निरर्थक ) कार्यों में सदा लगे रहते हो और उन्होंने उनसे यह भी कहा—तुम अपनी परम्परा प्रचलित रखने की नीयत से ईश्वरीय आदेशों का त्याग करते हो\* ।”

जीसस ने केवल सामाजिक और नैतिक-क्रान्ति ही की घोषणा नहीं की अपितु उनके उपदेश में अत्यन्त स्पष्ट राजनैतिक भुकाव भी दृष्टिगोचर होता है । इस कथन की पुष्टि में वीसियों अवतरण, उनकी शिक्षा ही से दिये जा सकते हैं । यह ठीक है कि वे अपना राज्य-इहलौकिक न बताते थे और कहते थे कि वह राज-सिंहासनासीन न होकर मनुष्यों के अन्त-स्तल में है । परन्तु इससे यह बात भले प्रकार सिद्ध हो जाती है कि जहाँ जहाँ और जितनी अधिता से मनुष्य-हृदयों में उनके राज्य की स्थापना होगी, उसी परिमाण में बाह्य संसार में भी क्रान्ति होगी और नूतनत्व आयेगा ।

बहुत सम्भव है कि श्रोताओं ने अपनी वाधिरता तथा अन्धेपन के कारण उनके उपदेशों के अन्य भाग न सुने हों, परन्तु संसार में क्रान्ति उत्पन्न करनेवाला दृढ़-निश्चय तो उनके हृदयङ्गम हुए बिना न रहा होगा । उनके विरोधियों की सम्पूर्ण गति और अभियोग चलाने तथा प्राण-दण्ड देने के तरीके ही से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सम-सामयिक भी यह समझते थे कि वह वास्तव में समस्त संकुचित मानव-जीवन को गला और परिवर्तित कर एक वृहत् एवं विशद जीवन स्थापित किया चाहते थे ।

जीसस के इस प्रकार स्पष्टतया कहने पर यदि समस्त धनाढ्य और समृद्धि-शालियों के हृदयों में अद्भुत भय के भावों का सञ्चार हो गया और उनको अपना संसार हाथ से निकलता हुआ देख पड़ा तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ? लोगों के सामाजिक-सेवा-विषयक क्षुद्र-संरक्षणों को वे अलपूर्वक खींचकर, सार्वभौमिक धर्म के प्रकाश में लाकर रख रहे थे । वे एक भयंकर धार्मिक शिकारी की भाँति मनुष्य जाति को ( उसके ) धरातलस्थ-विलों से जिसमें वह आज पर्यन्त सुख से रहती चली आई थी, निकाल बाहर कर रहे थे । उनके राज्य की श्वेत लुका में प्रेम के अतिरिक्त कोई सम्पदा न थी



जेरुसलेम की एक नटुक

कोई विशेषाधिकार न थे । न दर्प था, न असमानता थी, न कोई हेतु वा प्रयोजन था और न कोई पुरस्कार । फिर यदि मानव-समाज इन उपदेशों की ज्योति से चौंधियाकर अन्धा हो उनके विरुद्ध हो गया तो आश्चर्य क्या है ? शिष्यों को क्षमा न कर जब वह इस प्रकाश में खींचते थे तो वह भी इस ज्योति से घबराकर चिल्ला उठते थे ( फिर औरों की तो कथा ही क्या है ) ।

फिर पुरोहितों को अपने और जीसस के विरोध में यह प्रतीत होने लगा कि अब हमारी पुरोहिताई और इस पुरुष के भ्रगड़े में एक का नाश अवश्य होगा, दोनों जीवित नहीं रह सकते तो इसमें आश्चर्य की बात क्या है ? फिर यदि रोमन सैनिकों ने शानातीत, अद्भुत एवं अपनी सामाजिक-व्यवस्था को अव्यवस्थित करनेवाले उपदेशों को सुनकर जङ्गलियों की भाँति अट्टहास कर अपने चित्त को ढाढस दी और उनको लाल कपड़े पहिना उनके शिर पर काँटों का ताज रखकर सीज़र का स्वाँग भरा तो अचरज की कौन बात है ? जीसस के उपदेशों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने से तो अद्भुत एवं भयङ्कर रीति से जीवन बिताना पड़ता, पुराने स्वभाव को छोड़ना होता, इन्द्रियों तथा मन को बश में करने की आवश्यकता होती और अनन्त सुख तथा ऐश्वर्य तक को तिलाञ्जलि देनी पड़ती . . . . . ।

---


## ईसाई-धर्म के सिद्धान्तों का विकास

चारों गॉस्पल्स (सुसमाचारों) में जीसस का वृत्तान्त और उपदेश लिखे हुए हैं। धर्म के नियमों की चर्चा उनमें बहुत ही कम है—नहीं के बराबर है। ऐपिसित्स ऐचयन धर्म के लेख (नामक पुस्तकों में जिनको जीसस के तत्कालीन अनुयायियों ने है क्रिश्चियन-धर्म के नियम विशद रूप में दिये हुए मिलते हैं।

क्रिश्चियन-धर्मीय सिद्धान्तों के प्रयेताओं में सेंटपॉल मुख्य था। उसने न तो जीसस का था और न उनका उपदेश सुना था। पॉल का नाम पहिले सॉल था। उसने, उस (अर्थात्) जीसस के क्रूस पर चढ़ाये जाने के उपरान्त, उनके अल्प शिष्य-समुदाय से अत्यन्त क्रूरता का व्यवहार करने में खूब प्रसिद्धि प्राप्त की थी। तत्पश्चात् सहसा नयन-धर्म में दीक्षा ले उसने अपना नाम बदल कर पॉल रख लिया। वह बड़ा कुशाग्र था और तत्कालीन मत-मतान्तरों में बड़ी गहरी दिलचस्पी लेता था। यहूदी-धर्म, धर्म और एलेक्जेंड्रिया के धर्म का प्रकाण्ड पंडित होने के कारण उसने तदधर्मीय अनेक र एवं व्यवहृत-शब्दावली तक क्रिश्चियन-धर्म में मिला दी है। जीसस के वास्तविक श का स्वर्गीय राज्य के सन्देश को तो उसने तनिक सा भी विस्तृत नहीं किया, भी विशद नहीं बनाया—परन्तु लोगों को यह शिक्षा दी कि जीसस न केवल प्रतिज्ञित हा, यहूदियों के प्रतिज्ञित नेता थे वरन उनकी मृत्यु भी आदिम-सभ्यता के पुराण-नि पशुवलि की भाँति मनुष्य मात्र के उद्धार के निमित्त थी।

अनेक धर्म जब एक ही समय प्रचलित होते हैं तो एक के धार्मिक कृत्य तथा वाक्य गार्ण बहुधा दूसरे के कर्मकाण्डों में मिल जाती हैं। उदाहरणार्थ चीन ही को देखिये, पर यत्तमान-कालीन बौद्ध-मन्दिर पुजारी और तदधर्मीय-कृत्य ला-ओ-त्सि की शिक्षा नेगाने 'ता-ओ' धर्म के समान हैं; परन्तु प्राचीनकाल में इन दोनों धर्मों की मूल-शिक्षा दूसरे से सर्वथा प्रतिकूल प्रायः थी। तब फिर एलेक्जेंड्रिया के धर्म और मित्र-पन्थ के,

न केवल छुटे शिर वाले पुजारी और भक्तों की भेंट, सिंहासन और मोमवत्ती स्तुति और प्रतिमा, प्रत्युत भक्तिमय पदावली, (सूक्त) और दार्शनिक विचार भी, यदि क्रिश्चियन धर्म में खपकर उसका अंग बन गये तो हमारे ( क्रिश्चियन ) धर्म के मूल तत्त्वों की, इन सबके



सेंट पिटर और सेंट पाल की पच्चीकारी की मुनहली मूर्ति । ये दोनों एक सिंहासन की ओर इशारा कर रहे हैं ।

इस प्रकार संमिश्रण से कुछ भी हीनता प्रकट नहीं होती और न किसी सन्देह की गुंजाइश है । इन धर्मों के अतिरिक्त और भी बहुत से छोटे छोटे पन्थ उस समय प्रचलित थे, और




प्रत्येक अपने ही अनुयायियों की संख्या बढ़ाने का प्रयत्न करता था। लोग उस सम्प्रदाय की बड़ी शीघ्रता से धर्म परिवर्तन करते होंगे; गवर्नमेण्ट भी कभी किसी धर्म को अन्धे समझती हांगी और कभी किसी को। क्रिश्चियन धर्म अपने अन्य विरोधी धर्मों को अपेक्षा कहीं अधिक सन्देह की दृष्टि से देखा जाता था क्योंकि यहूदियों की भाँति, क्रिश्चियन धर्मानुयायी ईश्वर रूप सीज़र की पूजा करना अस्वीकार करते थे।

जीसस के क्रान्तिकारी उपदेशों के अतिरिक्त, उपरोक्त हेतु से भी यह धर्म राजसत्तात्मक समझा जाता था।

सन्त पाल ने अपने शिष्यों में यह विचार प्रचलित कर दिया था कि देव, ओसाई की भाँति, जीसस भी मृत्यूपरान्त पुनः उठकर मनुष्यों को अमरत्व प्रदान करेंगे। फिर फलते क्रिश्चियन धर्म की सांघिक शक्ति प्रभु जीसस, और मानवीय जगत्पिता परमात्मा पारस्परिक सम्बन्ध निर्णयात्मक, दुरुह धार्मिक शास्त्रार्थों के कारण छिन्न-भिन्न होने लगे। एरियन ( नामक पन्थ ) की यह शिक्षा थी कि जीसस ईश्वरीय अंश तो था परन्तु वह पिता से पृथक् था और उससे न्यून था।

सैविलियन ( नामक पन्थ ) का यह उपदेश था कि जीसस ( परम ) पिता का ही रूप था। जैसे कोई पुरुष 'पिता' होकर भी कारीगर हो सकता है उसी प्रकार ईश्वर भी ही समय में मसीहा और जगत्पिता है। त्रिमूर्तिवादी इससे भी क्लिष्ट सिद्धान्त का उपदेश देते थे। उनके अनुसार ईश्वर एक होकर भी, पिता, पुत्र और पवित्रात्मा के रूप में त्रयात्मक है। कुछ समय तक तो ऐसा ज्ञात होता था कि एरियन के सिद्धान्त विरोधि पर विजयी होने रहेंगे; परन्तु बहुत भगड़े-टण्टे तथा युद्धों के उपरान्त त्रिमूर्तिवादियों सिद्धान्त समस्त क्रिश्चियन-संसार में सर्वसम्मतित से माननीय ठहराये गये। यह सिद्ध प्रगतिवा विकसित रूप में ऐथनेसियन पन्थ में विद्यमान है।

यहाँ पर हमारा तात्पर्य इन वाद-विवादों की विवेचना करने का नहीं है। वाद-विवाद जीसस के उपदेशों के समान, संसार के इतिहास की गति को शांति न कर सके। जीसस के धैयिक उपदेशों के कारण हमारी जाति के नैतिक जीवन में एक नवीन जीवन का आरम्भ हो गया। इस धर्म का दृढ़तापूर्वक स्वीकार कि ईश्वर जगत्पिता है और सब मनुष्य निर्विवाद रूप से एक ही हैं, और इन दृष्टिकोणों का कि प्रत्येक मनुष्य का शरीर परम पवित्र है और जति-जाति-धर्म-संस्कारों के समान है, मानव-जाति के भावी सामाजिक तथा राजनैतिक जीवन को प्रभावित प्रभावित था। क्रिश्चियन धर्म एवं जीसस की शिक्षा का प्रचार होने के कारण के मनुष्यों में एक दूसरे के प्रति नवीन प्रकार से सम्मान भाव जागृत होने लगा।



ईशुमसीह की ईसाई मत की दीक्षा


कुछ विरोधी समालोचकों का यह आक्षेप है कि सन्त पाल ने दासों को स्वामिभक्त होने और आशा पालन करने का उपदेश दिया है, बहुत सम्भव है कि यह सत्य हो परन्तु हमको यह कदापि न भूलना चाहिए कि गॉस्पल्स (सुसमाचारों) में सुरक्षित जीसस के उपदेश इस बात का घोर विरोध करते हैं कि एक मनुष्य दूसरे को अपने अधीन बनाये गये। और रंगमंच पर 'ग्लैडियेटर' (योद्धाओं के) द्वंद्व युद्ध करने, मनुष्य नामों को कलंकित करने तथा मर्यादा-भंग करनेवाले इसी प्रकार के अन्य कार्यों का तो क्रिश्चियन पन्थ अत्यन्त स्पष्टतया विरोधी था।

रोम साम्राज्य में ईसा के जन्मोपरान्त दो शताब्दी पर्यन्त क्रिश्चियनपन्थ निरन्तर फैलता रहा। नव धर्म में दीक्षित होनेवाला यह जन-समुदाय बालचन्द्रवत् वृद्धि पाकर नवीन नकल्य तथा दृढ़ विचारोंवाली एक नवीन जाति का निर्माण कर रहा था। सम्राट्गण, कभी-कभी धर्म के विरोधी हो जाते थे, कभी सहिष्णुता का वर्ताव करने लगते थे। ईसा की दूसरी तथा तीसरी शताब्दी में इस नवीन धर्म को कुचल डालने के लिए कई बार प्रयत्न भी किये गये और टायो-क्रीटियन नामक सम्राट् के राज-काल में तो (सन् ३०३ में और उसके पश्चात्) ईसाइयों के साथ बड़ी नृशंसता के व्यवहार तथा अत्याचार भी किये गये थे; यहाँ तक कि ईसाई धर्म-मन्दिरों की जायदाद जप्त कर ली गई, बाइबिल तथा अन्य धार्मिक पुस्तकें ज्वल कर जला दी गईं, ईसाइयों के लिए न्यायालय तथा न्यायालयों के द्वार बन्द कर उनको गैर-कानूनी करार दे दिया गया और बहुतों को मृत्यु दण्ड तक दिया गया था। पुस्तकों का नाश विशेषतया ध्यान देने योग्य है। इससे यह पता चलता है कि राज्याधिकारियों को यह बात भली भाँति विदित थी कि लिखित शब्दों में नये धर्म के संगठित करने का अपूर्व बल था। क्रिश्चियन तथा बहूदी दोनों ही धर्म, पुस्तक-धर्म थे। और दोनों ही शिक्षा का प्रचार करते थे। इन दोनों धर्मों का अस्तित्व अधिकतया इसी पर निर्भर था कि इनके अनुयायी अपने धार्मिक मिश्रणों को पढ़ कर समझ सकते थे, इनके पहिले के धर्म मानव-बुद्धि को प्रमाण नहीं मानते थे। इन वर्षरता के युग में—पश्चिमीय यूरोप में आनेवाले इस गण्डवर्ष के समाने में, पठन-पाठन की परम्परा को जागी रखने का नैमित्तिक कारण क्रिश्चियन धर्म ही था।

प्रायःकैलैटियन-भाग इस प्रकार पीड़ित किये जाने पर भी क्रिश्चियन धर्मानुयायी करने में न रुके। और बहुतों ने प्रान्तों में बहुसंख्यक जन-संख्या तथा अधिकारी-वर्गों के ईसाई होने के कारण उम्मा कुछ प्रभाव ही न हुआ। फिर गैलेरियस नामक सम्राट् के मह-योग में ई. सन् ३१० में सहिष्णुता का आदेश जारी कर दिया गया; और सन् ३२४ में तो ईसाइयों का मित्र महान् कान्स्टैण्टायन नामक सम्राट् नमन्त रोम-संगार का एकछत्र

शासक हो गया था, इसने मृत्यु-शय्या पर ईसाई-धर्म में दीक्षा ले प्राण त्यागे थे और अपने जीवन-काल ही में अपने को ईश्वर का अंश न बता कर सैन्य-ध्वज तथा ढालों पर ईसाई-धर्म के चिह्न अंकित करा दिये थे ।

फिर कुछ वर्ष के अनन्तर, ईसाई-धर्म, स्थायी रूप से राज-धर्म हो गया । और अन्य विरोधी दलों का या तो बड़ी शीघ्रता से लोप हो गया या वे भी इसके विराट् उदर में समा गये; और अन्त में महान् थियोडोसियस ने एलेक्जेंड्रिया नगरस्थ ज्यूपिटर सैरापिस की महान् प्रतिमा भी ३६० ईस्वी में तुड़वा डाली । ईसा की पाँचवीं शताब्दी के प्रारम्भ से रोम-साम्राज्य में केवल ईसाइयों ही के धर्म-मन्दिर और पुजारी शेष रह गये ।



पियेसा की घण्टी (दूरदर्शन)

तत्पश्चात् वे आधुनिक बल्गेरिया में उसी भाँति बस गये, जिस भाँति उनसे पहिले, वैंगडल्स नामक वर्वर जाति पैन्नोनिया में बस गई थी। कहने को तो वे सम्राट् की प्रजा थे परंतु वास्तविक बात यह है कि वे विजेता थे।


महान् सम्राट् थियोडोसियस ने ई० सन् ३७९—३९५ तक शासन किया। उस समय तक भी साम्राज्य कम से कम विभाजित नहीं हुआ था। इटैली और पैन्नोनिया के सैन्य-दल तब स्टिलीको नामक वर्वर जातीय सेनानायक के अधीन थे और बालकन प्राय-द्वीप की सेनाओं का एलेरिक नामक गाँथ जातीय वर्वर नायक माना जाता था। चतुर्थ शताब्दी के अन्त में थियोडोसियस का देहान्त हो गया। उसने दो लड़के छोड़े। कान्स्टेन्टिनोपिल में एलेरिक ने एरकेडियस नामक पुत्र का समर्थन किया और इटैली में स्टिलीको ने थ्रीनारियस नामक पुत्र की हिमायत ली। दूसरे शब्दों में एलेरिक और स्टिलीको ही साम्राज्य बाने के लिए एक दूसरे ने युद्ध कर रहे थे। दोनों राजपुत्र तो उनके हाथ में कठपुतलियों के समान थे। युद्ध करने करने

एलेरिक इटली पर चढ़ आया और थोड़े ही समय तक घेरा डालकर उसने रोम को हस्तगत कर लिया ( ई० स० ४१० ) ।

ईसा की पंचम शताब्दी के पूर्वार्द्ध में समस्त यूरोपीय रोम साम्राज्य वर्षर जातीय ( दस्यु ) सेनाओं के आक्रमणों का शिकार बना रहा । तत्कालीन मंसार-दशा का अब इस ज़माने में आँखों के आगे चित्र खींचना बड़ा कठिन है । फ्रांस, स्पेन, इटली और वालकन प्रायद्वीप में उस समय भी पुराने नगर, प्राचीन रोम साम्राज्य के समृद्धिशाली नगर मौजूद थे—उनका अस्तित्व चला जाता था । परन्तु लुप्त हो जाने के कारण, तथा जन-संख्यादि घट जाने से इनका दिन-प्रतिदिन हास हो रहा था । मानव-जीवन भी इन नगरों में अब संदिग्ध, ओछा और घृणित हो गया था, स्थानीय अधिकारीवर्ग अपनी मनमानी चलाते थे । दूरस्थ और दुर्लभ दर्शन सफ़ाट् के नाम से उनके यह प्रतिनिधि, जो जी में आता था, कर डालते थे । धर्म-मंदिरों की भी यही कथा थी । उनका केवल अस्तित्व क़ायम था । वहाँ के पुजारी बहुधा निरक्षर होते थे, पढ़ना-लिखना बहुत कम हो गया था और मानविक तथा आधिदैविक भय का निर्द्वंद्व राज्य था । इतना होने पर भी लुटेरों के दुष्ट हाथों से वची हुई, पुस्तकें, चित्र, तथा मूर्ति आदि अन्य ललित-कला विषयक वस्तुएँ—कला में उन्नति होने के कारण, अब भी जहाँ-तहाँ दृष्टिगोचर हो जाती थीं ।

देहाती जीवन का भी हास हो रहा था । रोम साम्राज्य में सर्वत्र ही—पहिले देँ कहीं अधिक घास उगा आई थी । पुरानी स्वच्छता या सफ़ाई का लोप हो गया था । कोई कोई भूभाग तो युद्धों तथा महामारी के कारण वीरान तक हो गये थे । जङ्गल और राजपथ, डाकुओं के घर से बन गये थे । ऐसे स्थानों पर, वर्षर जातियों ने विना किसी के विरोध के बहुत ही सुगमता से क़ब्ज़ा कर, अपने नायकों को रोमन उपाधि से विभूषित कर शासक बना दिया । अर्द्ध सभ्य वर्षर जातियाँ, नगरों को हस्तगत करने के पश्चात् अर्ध-नस्थ प्रजाओं के साथ असहनीय वर्ताव न कर उनसे सहवास तथा विवाह सम्यन्ध भी कर लेती थीं । और लैटनीय भाषा अपने लहज़े में बोला करती थीं । रोम-साम्राज्य के ब्रिटेन नामक प्रान्त को अधीन करनेवाली ज्यूट एड्रिल्लस और सैक्सन जातियाँ किमान का काम करती थीं । उनके लिए नगरों का अस्तित्व व्यर्थ था । दक्षिणीय ब्रिटेन से उन्होंने रोमन भाषा निकाल बाहर की और उसके स्थान में अपनी ट्यूटोनिक बोली का प्रचार कर दिया । यही बोली अन्त में जाकर अंग्रेज़ी भाषा हो गई ।

विविध जर्मन तथा स्लाव जातियों ने इस अव्यवस्थित साम्राज्य में किन प्रकार लूट मार कर सुखदायक स्थानों को अधिगत किया यह, हमारे लिए इस छोटी सी पुस्तक में बताना असम्भव है । वहाँ पर केवल वैडल्स नामक वर्षर जाति ही का वृत्त दिया जाता



इस भवन में 'मन्मथसिंह' का मन्मथ का नाम का नाम

है। पाठक इसी से और जातियों का भी कुछ अन्दाज़ा लगा लेंगे। पूर्वीय जर्मनी में आने के समय से ही इस जाति का इतिहास प्रारम्भ होता है। हम बता चुके हैं कि पैन्नोनिया में यह किस प्रकार बसे थे। वहाँ से यह लोग ४२५ ई० के लगभग मध्यस्थ देशों को पारकर स्पेन चले गये। वहाँ इन्होंने दक्षिणीय रूस के विसगौथ तथा अन्य जर्मन जातियों के बहुत से डब्लूक तथा राजाओं के राज्य देखे। गैन्सैरिक के नेतृत्व में वैंडल्स वहाँ में समुद्र की राह उत्तरीय अफ्रीका को चले गये (४२९) और वहाँ जाकर उन्होंने कार्थेज विजय कर (४३९) जहाज़ी वेड़ा तैयार किया। संपूर्ण समुद्र पर विजय पाकर इस जाति ने ई० ४५५ में रोम को हस्तगत कर खूब ही लूटा। ५० वर्ष पूर्व एलेरिक ने भी इस नगर को वेहद लूटा था। उस क्षति को यह नगर अभी तक पूरा न कर पाया था कि दूसरी विपत्ति ने आ घेरा। रोम की लूट के पश्चात् यह जाति सिसली, कार्सिका, सार्डिनिया और पश्चिमीय मैडिटरेनियन के अन्य बहुत से द्वीपों की अधिपति बन बैठी। इन लोगों का सामुद्रिक राज्य-विस्तार आदि वास्तव में लगभग सात सौ वर्ष पहिले के कार्थेज-राज्य ही के समान था। ई० सन् ४७७ में यह जाति उन्नति की पराकाष्ठा पर पहुँच गई। इन मुठ्ठी भर विजेताओं ने यद्यपि समस्त देशों पर अपना आधिपत्य जमा लिया था तथापि, अगली शताब्दी ही में यह सब स्थान, जस्टिनियन प्रथम के राज्यत्व-काल में कांस्टेण्टिनोपिल के साम्राज्य की क्षणिक ज्योति में सहसा विलीन हो गये।

अन्य वर्बर-जातियों की जीवन-संग्राम-कथा भी वैंडल्स ही के समान है। परन्तु अब यूरोपीय-संसार में मंगोल, हूण या तातार नामक सर्वथा विभिन्न जाति का पदार्पण हो रहा था जो इन सब आततायियों से कहीं अधिक वलिष्ठ थी। इस पीत वर्ण जाति के समान किसी अन्य कुर्तौली और कुशल जाति से पश्चिमीय संसार को इससे प्रथम कभी मुक्ताविला करना न पड़ा था।



## हूण और पश्चिमीय साम्राज्य का अन्त

विजयी मंगोलों ने जिन समय यूरोप में पदार्पण किया, तब से मानव-इतिहास में एक नये युग का प्रारम्भ हुआ समझना चाहिए। ईसवी मनु ने पूर्व की अन्तिम शताब्दी तक नॉर्ड और मंगोल जातियों में घनिष्ठ सम्पर्क नहीं हुआ था। यह ठीक है कि मंगोलियन जाति की लैप्लैन् नामक एक शाखा उत्तरीय वनों के परे, लापलैंड के हिमाच्छादित भू-भागों में जाकर बस गई थी, परन्तु उन्होंने हमारे इतिहास के मुख्य प्रवाह में कोई प्रभाव-जनक भाग नहीं लिया। पश्चिमीय संसार के रंग-मंच पर, आर्य, सैमेटिक, तथा अन्य आदिम इगम ( Brunet ) जातियों के सहस्रो वर्ष तक अभिनय होने रहे और इनमें सुदूर पूर्व की रहनेवाली मंगोलियन जाति अथवा दक्षिणीय कृष्ण जातियों ने कभी कोई भाग नहीं लिया। हर्षीय अथवा युरोपियन जाति द्वारा मिश्र-विजय तो उन नियम का अपवाद मात्र था।


संभवतया दो प्रधान हेतुओं के कारण ही जंगली मंगोल जाति पश्चिम की ओर आक्रमण हुई थी। एक कारण तो चीन-साम्राज्य की मुख्यवृद्धि, उसकी उत्तरीय सीमावृद्धि और आन्तरिक सामन्तशाही शासनकाल में तद्देशीय जन-संख्या की अभिवृद्धि था और दूसरा कारण जल-वायु का क्रमिक परिवर्तन था अर्थात् कम वर्षा के कारण अल्प भूमि और अल्प जल की भी अभाव हो गया था या अधिक वर्षा के कारण शुष्क पठारों (Steppes) पर भी पशुओं के चराने के लिए पाने योग्य घास नहीं थी और सम्भवतया यह दोनों-जल तथा वायु सम्बन्धी क्रमिक परिवर्तन भिन्न भिन्न देशों में होने पर भी, इन जाति को पश्चिम की ओर आक्रमण करने में हिम्मी प्रेरण से इनके कारण सुविधा हो गई। इन दो कारणों के अति-संगत, वेस सम्भवतः ही आर्क्टिक हीमला, आन्त्यिक हान और जन संख्या का उत्तरीयार कम होने की इस युग के आरम्भ में सम्भवतः सुविधा उत्पन्न करनेवाला तीसरा महाव्यापी कारण था। यह-हाइ-टार्लिय मंगोलजातियों के आलापों और तदनन्तर मैदिक-साम्राज्य के अन्त में आये लो-टार्लिय लोगों ही से जलवायु का परिवर्तन सम्भूत हुआ था। उपर्युक्त

कारणों से शत्रुओं को साम्राज्य में बलपूर्वक घुसने का अवसर हाथ आ गया। पूर्व की ओर से खदेड़ हो रही थी, पश्चिम में हास हो रहा था और रास्ता खुला हुआ था। अन्त में, फिर घुसने के लिए अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता ही क्या थी।

हूण लोग, यूरोपीय रूस की पूर्वीय सीमा पर ईसा की प्रथम शताब्दी में ही जा पहुँचे थे, परन्तु वहाँ के पठारों (Steppes) में इन अश्वारोहियों का प्राबल्य ईसा

की चौथी अथवा पाँचवीं शताब्दी से पूर्व नहीं हुआ। पाँचवीं शताब्दी में हूणों का बोलबाला रहा। हूणों का इटली में प्रथम पदार्पण सम्राट् ओनोरियस के अधिपति 'स्टिलिको' नामक बर्बर नेता के बतन-भोगी सैनिकों के रूप में हुआ था। फिर उन्होंने वैटल्स जातीय बर्बरों के रिक्त स्थान—समूचे पैन्नीनिया—पर शीघ्र ही अपना कब्जा जमा लिया।

हूण जाति का 'एटिल्ला' नामक एक महान् सेना-नायक पाँचवीं शताब्दी के



बर्बरों जाति के सरदार का मस्तक ( ब्रिटिश म्यूजियम में )

[द्वितीय चरण में हुआ था जिसको शक्ति का हमको अस्पष्ट एवं आशावर्द्धक आभास मात्र है। इसका शासन हूणों तक ही परिमित न था; बरन् एक राशिवत् करद जर्मन-जातियाँ भी इसके अधिपत्य में थी। इसका साम्राज्य-विस्तार राइन नदी से लेकर मध्य एशिया के

संमित था। उन समय मानव-जीवन सर्वत्र ही संकटमय हो रहा था और केवल निज राष्ट्रवत्त द्वारा वैयक्तिक सम्पदा की रक्षा होती थी। स्थान स्थान पर गड़ बनने लगे और सड़के लगरव होने लगीं। छठीं शताब्दी के अन्त्युदय के समय समस्त पश्चिमीय मंनार में पारम्परिक विभाग और वैदिक अंधकार का एकलुत्र राज्य हो रहा था। ऐसे समय, यदि ईसाई माधु और पादरी न होते तो लैटिन भाषा का अस्तित्व ही संसार से सदा के लिए लीं हो जाता।

यहाँ पर प्रश्न उठता है कि रोम-साम्राज्य की उन्नति का कारण क्या था और क्यों उसका इस प्रकार सर्वथा विनाश हुआ? उन्नति का कारण था नागरिकता का भाव जिं जिनमें समस्त जनता एक ही भाव-मूत्र में गुंयी रहती थी। प्रजातन्त्र के समस्त उन्नति-काल में और साम्राज्य के प्रथम दिनों में रोमन नागरिकता का सजग भाव रखनेवाले ऐसे पुराने की संख्या पर्याप्त थी जो रोम की नागरिकता को अधिकारवत् (अमूल्य) और भर्षवत् (परिवर्त कर्षव) समझनदे शीव कानून में अपनी अधिकार-विषयक गहरी आस्था रखने के कारण रोम के नाम पर सब कुछ निह्यावर करने को तैयार थे। न्याय के अदृशः मानने और मनवाने के कारण न्याय-परक और महान् शक्तिशाली साम्राज्य के लर में रोम की प्रतिष्ठा सीमान्त प्रदेशों में दूर दूर तक फैल गई थी। परन्तु ऐश्वर्य तथा शान प्रथा की उन्नति एवं वृद्धि के कारण प्लूनिक्-युद्धारंभ के समय ने ही इस नागरिक भाव की सड़ भीतर ही भीतर पीली होनी प्रारंभ हो गई। परन्तान् काल में 'सर्वसंरचना' का पीली परन्तु नागरिकता के भावों का सर्वथा लीं हो गया था।

लैटिनीय साम्राज्य का पाँचवीं शताब्दी में अन्त हो जाने पर भी उसमें एक ऐसी नवीन तथा सर्वथा भिन्न वस्तु उत्पन्न हो गई थी जिसने उसके ( अर्थात् साम्राज्य के ) रोम तथा प्राचीन परम्परा से खूब ही लाभ उठाया और यह था कैथोलिक चर्च का लैटिन-भाषी अर्द्ध भाग । साम्राज्य का तो अन्त तक हो गया परन्तु यह पदार्थ ( कैथोलिक चर्च ) जीवित रहा, कारण यह कि लोगों की इच्छा-शक्ति एवं मन में इसके द्वारा प्रभाव उत्पन्न होता था । इसमें पुस्तकों, शिल्पों और धर्म-प्रचारकों की पूरी व्यवस्था थी जो न्याय एवं सैन्यबल से भी कहीं अधिक दृढ़ थी । समस्त चतुर्थ एवं पञ्चम शताब्दी में जहाँ एक ओर साम्राज्य का हास हो रहा था वहाँ दूसरी ओर क्रिश्चियन धर्म, सम्पूर्ण यूरोप में सार्वभौमिक आधिपत्य जमाता जाता था । साम्राज्य के वरुं विजेताओं पर भी, इस धर्म ने विजय प्राप्त की थी । रोम पर चढ़ाई करने का जब एरल्ला ने विचार किया तो वहाँ के पैट्रियार्क ( प्रधान पादरी ) ने अपने नैतिक तथा मानसिक बल से उसको ऐसा पीछे हटाया कि सैन्यबल द्वारा भी वैसा होना सम्भव न था ।

रोम का प्रधान पादरी, जिसको अब पोप कहते थे, अपने को समस्त क्रिश्चियन धर्म का परमाचार्य कहने लगा था । सम्राटों का अब अन्त हो जाने के कारण, उसने उनकी राजकीय उपाधि धारण कर समस्त अधिकार भी हथिया लिये । सम्राट् की पौण्ड्रिक्स मैक्सिमस-( रोम-राज्य का परम-यज्ञाचार्य )-नामक अत्यन्त प्राचीन-उपाधि भी उसने अब धारण कर ली ।


## वैज़ण्टाइन और शाशानीय साम्राज्य

रोम-साम्राज्य के गृहयुद्धों के कारण प्राच्यार्द्ध ने प्रतीच्यार्द्ध से कहीं अधिक राज-  
 मत्तम भावनाशक्ति प्रदर्शित की थी। प्राथमिक रोमन बल ईसा की पाँचवीं शताब्दी  
 तक जिन देश दुर्गमों और कठिनाइयों के कारण संयुक्तता नष्ट-भ्रष्ट हो मिट्टी में मिल  
 गया, इनको उस भाग ने भले प्रकार सहन कर लिया। यह ठीक है कि एरिल्ला ने  
 महाद्वितीयमिथस 'द्वितीय' को स्वयं भ्रमकाया, कष्ट दिये और कुस्तुनुनिया की दीवारों  
 तक लक्ष्मण देश की छाड़ कर डाली थी, परन्तु इतने पर भी यह नगर पूरुतया सुरक्षित  
 रहा। इसी प्रकार स्पेयिन जाति ने भी, नील नदी की राह आकर, केवल उत्तरीय मिस्र  
 की ही कुछ लूटा और मिस्र का निचला भाग और एलेक्ज़ेंड्रिया पूर्ववत् समृद्धिशाली बने  
 रहे। इसके अतिरिक्त एशिया माइनर का अधिकांश भी साम्राज्य का अंश बना रहा और  
 भारतीयों के समीप पुनः पुनः आक्रमण करने पर भी उसको हस्तगत न कर सके।

ईसा की छठी शताब्दी में, जो पश्चिमीय जगत् के लिए समयुक्तता अंधकार युग

प्लेटो के समय से स्थापित, लगभग सहस्र वर्ष प्राचीन ऐथेस के दार्शनिक विद्यालय का भी क़तई वन्द कर दिया ।

ईसा की तृतीय शताब्दी से फारिस-साम्राज्य, वैज़ण्टाइन साम्राज्य का निरन्तर प्रतिद्वंद्वी रहा । यही दोनो एशिया माइनर ( आधुनिक एशियाई टर्की ), भर्गिया और मिस्र की अशान्ति और हास के कारण थे । इन भू-भागों की सभ्यता, ईसा की प्रथम शताब्दी में कहीं अधिक बढ़ी चढ़ी थी । धन-धान्य तथा जन-सख्या किर्मी वात में भी यह घटे हुए न थे; परन्तु निरन्तर सैन्यचालन, क़त्ले आम, लूट तथा



सोफिया ; कुस्तुन्तुनिया का गिरजा ( अब मस्जिद )

युद्ध के कर के कारण यह क़य तक न थकते, अन्त में उजाड़ नगरों तथा उधर-उधर देहात में बसे हुए किसानों के अतिरिक्त इन देशों में कुछ भी शेष न रहा । परन्तु ऐसी शोचनीय स्थिति, अवनति एवं अराजकता का राज्य होने पर भी—शेष जगत की अयोध्या मिस्र देश के निचले भाग की हानि कुछ न्यून ही हुई । कास्टेंसिन्नापुल की


## बैज़गटाइन और शाशानीय साम्राज्य

रोम-साम्राज्य के यूनानी भाषा-भाषी प्राच्यार्द्ध ने प्रतीच्यार्द्ध से कहीं अधिक राज-नैतिक धारणाशक्ति प्रदर्शित की थी। प्राथमिक रोमन वल ईसा की पाँचवीं शताब्दी के जिन दैव-दुर्घिपाकों और कठिनाइयों के कारण संपूर्णतया नष्ट-भ्रष्ट हो मिट्टी में मिल गया, उनको इस भाग ने भले प्रकार सहन कर लिया। यह ठीक है कि एरिल्ला ने सप्राट् थियोडोसियस 'द्वितीय' को खूब धमकाया, कष्ट दिये और कुस्तुनतुनिया की दीवारों तक लूटकर देश की छाई कर डाली थी, परन्तु इतने पर भी यह नगर पूर्णतया सुरक्षित रहा। इसी प्रकार न्यूवियन जाति ने भी, नील नदी की राह आकर, केवल उत्तरीय मिस्र को ही खूब लूटा और मिस्र का निचला भाग और एलेक्जेंड्रिया पूर्ववत् समृद्धिशाली बने रहे। इसके अतिरिक्त एशिया माइनर का अधिकांश भी साम्राज्य का अंश बना रहा और शाशानीय पार्सिक पुनः पुनः आक्रमण करने पर भी उसको हस्तगत न कर सके।

ईसा की छठी शताब्दी में, जो पश्चिमीय जगत् के लिए सम्पूर्णतया अंधकार युग था, यूनानी शक्ति का वास्तव में कहीं अधिक पुनरुत्थान हुआ। यहाँ के सम्राट् जस्टिनियन 'प्रथम' ( ५२७-५६५ ) एक तो वैसे ही स्वयं अत्यन्त शक्तिशाली एवं महती आकांक्षा और अभिलाषा रखनेवाले पुरुष थे, उस पर अपनी अनुरूप सम्राज्ञी थियोडोरा से (उनका) पाणि-ग्रहण हो जाने पर तो मानों सुवर्ण में सुहागा मिल गया। नटी के रूप में जीवन प्रारम्भ करनेवाली यह ललना-ललाम योग्यता में अपने पतिदेव के समकक्ष थी। जस्टिनियन ने न केवल वैंडल्स तथा गौथ्स जातीय बर्बरों से उत्तरीय अफ्रीका तथा इटली का अधिक भू-भाग छीना प्रत्युत दक्षिणीय स्पेन भी अपने हस्तगत कर लिया था। जल एवं स्थल सम्बन्धी युद्धों तक ही उसकी शक्ति परिमित न थी, वरन उसने विश्वविद्यालय भी स्थापित किये, कांस्टेण्टिनोपिल में सेंट सोफिया का महान् गिरजाघर भी निर्माण कराया, और धारायुक्त रोम-न्याय-विधान की रचना की। परन्तु यह कहना अनुचित न होगा कि अपने विश्व-विद्यालय के प्रतिस्पर्धी का नाम-निशान तक मिटाने के लिए सम्राट् ने प्रसिद्ध दार्शनिक

प्लेटो के समय से स्थापित, लगभग सहस्र वर्ष प्राचीन ऐथेस के दार्शनिक विद्यालय को भी वृत्तई बन्द कर दिया ।

ईसा की तृतीय शताब्दी से फारिस-साम्राज्य, वैज़ण्टाइन साम्राज्य का निरन्तर प्रतिद्वंद्वी रहा । यही दोनों एशिया माइनर ( आधुनिक एशियाई टर्की ) की सीमाओं और मिस्र की अशान्ति और हास के कारण थे । इन भू-भागों की सभ्यता, ईसा की प्रथम शताब्दी में कहीं अधिक बड़ी चढ़ी थी । धन-धान्य तथा जन-संख्या किर्मा बात में भी यह घटे हुए न थे; परन्तु निरन्तर सैन्यचालन, क्रल्ले आम, लूट तथा



सोफ़िया : कुस्तुन्तुनिया का गिरजा ( अब मस्जिद )

युद्ध के कर के कारण यह कब तक न थकते, अन्त में उजाड़ नगरों तथा डबल-उधर देहात में बसे हुए किसानों के अतिरिक्त इन देशों में कुछ भी शेष न रहा । परन्तु ऐसी शोचनीय स्थिति, अवनति एवं अराजकता का राज्य होने पर भी—शेष जगत की अशेषा मिस्र देश के निचले भाग की हानि कुछ न्यून ही हुई । कास्टोण्टिनोपिल की



भाँति एलेक्जेंड्रिया में भी पूर्वीय तथा पश्चिमीय संसार के मध्य उत्तरोत्तर क्षीण होनेवाले व्यापार का सिलसिला कुछ न कुछ बना ही रहा ।

दिन पर दिन हास होनेवाले इन दोनों साम्राज्यों में विज्ञान तथा राजनैतिक दर्शन तो पारस्परिक युद्धों के कारण अब मानों मृतप्राय हो गये थे । असीम श्रद्धा एवं भक्ति के साथ ऐथेंस के दार्शनिकों ने अतीत के महान् साहित्य को, जय तक उसका दमन न हुआ, अवश्य सुरक्षित रखा परन्तु इन ग्रन्थों में दिये हुए वाक्यानुसार गवेषणा तथा स्पष्टोक्ति करनेवाली मनुष्य-श्रेणी—अनियंत्रित विचारशैली का अनुसरण करनेवाले साहसी स्वतंत्र भद्रजन, संसार में नहीं रह गये थे । यह ठीक है कि सामाजिक तथा राजनैतिक अराजकता के कारण ही बहुत अंशों में इस श्रेणी के मनुष्यों का अस्तित्व लुप्त हुआ था ; परन्तु इसके अतिरिक्त मानवबुद्धि के इस प्रकार असर तथा रोगग्रस्त होने का इस युग में एक अन्य कारण भी था । फारिस तथा वैंजेण्टियन, दोनों ही देशों में इस समय असहिष्णुता का दौर दौरा था; दोनों ही ऐसी नवीन शैली के धार्मिक साम्राज्य थे कि वहाँ मानव मनोवेग के स्वतंत्ररूप में गवेषणा करने में भी अट्टुचने होती थी ।

इसमें सन्देह नहीं कि संसार के सब प्राचीन साम्राज्यों का रूप धार्मिक था, और वह देवता अथवा देव-तुल्य राजाओं की पूजा ही पर केन्द्रित थे, इसी नियमानुसार एलेक्जेंडर देवताओं की श्रेणी में जा घुसा और इसी तरह सीज़र-राजाओं की भी देव-सम पूजा होने लगी; यहाँ तक कि उनके नाम पर मन्दिर तथा बलिस्थान निर्माण होने लगे । इन मन्दिरों में सीज़र देव के सम्मुख वेदी पर सुगन्धित द्रव्य जलाना ही तक रोमराज्य के प्रति भक्ति प्रदर्शन का एक मात्र तरीका या, कसौटी रह गया था । परन्तु प्राचीन धर्मों का प्रधान धर्म तथा कर्म भी तो यही था—मानव मस्तिष्क की ओर तब उनका अभिप्राण न था अर्थात् विचार नियंत्रण करना उनकी न्यायोचित सीमा के बाहर था । देवताओं की वन्दना करने तथा बलि देने के उपरांत प्रत्येक मनुष्य न केवल विचार करने प्रत्युत तत्सम्बन्धी चर्चा करने में पूरा स्वतंत्र था । परन्तु इन नव धर्मों की ओर उनमें भी विशेषतया क्रिश्चियन पन्थ की गति अंतःकरण की ओर थी; बाह्याचरण के अतिरिक्त यह धर्म अन्तरात्मक वृत्ति की भी आवश्यकता समझते थे । इन बातों का नैसर्गिक-तया यह फल हुआ कि श्रद्धेय पदार्थों के तथ्यार्थ के सम्बन्ध में घोर वाद-विवाद उत्पन्न हो गये । इन नवीन धर्मों का आधार था विश्वास । कुछ बातों पर विश्वास करना इनके अनुयायियों के लिए अत्यन्त आवश्यक था । ऐसी कट्टर धर्मपरायणता का अभ्युदय जगत् में इसी समय हुआ, जो न केवल अपने अनुयायियों के कार्यों का प्रत्युत उनके कथन तथा विश्वासों को भी धार्मिक नियम-विशेष के भीतर कठोरता से नियन्त्रित करती थी ।

धर्म-विरुद्ध विचारों को न केवल दूसरों पर प्रकट करना बरन् अपने मन में रखना भी अथ वौद्धिक न्यूनता न समझा जाकर नैतिक पाप समझा जाने लगा कि जिसके हृदयङ्गम करने से आत्मा का सदा के लिए अधःपतन था ।



सोक़्रिया का बहुत ही भव्य छात का काम

ईसा की तृतीय शताब्दी में शाशानीय वंश की स्थापना करनेवाले अरदेशियर 'प्रथम', और चतुर्थ शताब्दी में रोम-साम्राज्य का पुनर्निर्माण करनेवाले महान् कॉन्स्टेंटाइन

दोनों महान् नृपतियों ने सहायता प्राप्त करने की नीयत से इन्हीं धार्मिक संस्थाओं की ओर अपनी दृष्टि फेरी; क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि यही ऐसे नवीन साधन थे कि जिनके द्वारा मनुष्य की इच्छावृत्तियों का नियंत्रण करके उनके उपयोगी बनाया जा सकता है और चतुर्थ शताब्दी के समाप्त होने से पूर्व ही दोनों साम्राज्यों में स्पष्टवादिता एवं धार्मिक नियमों में नवीनता उत्पन्न करना दंडनीय था। अरदेशियर ने फ़ारस के पुरोहित तथा मंदिर संपन्न प्राचीनधर्म के, जिसमें वेदी पर पवित्र अग्नि जलाई जाती थी, अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए अधिक उपयुक्त देख राजधर्म बना डाला और 'जरथुष्ट्र' के अनुयायी, तृतीय शताब्दी के समाप्त होते न होते, क्रिश्चियन धर्मावलंबियों को भाँति भाँति की पीड़ा भी देने लगे थे। २७७ ई० में तो मानीकियन नामक धर्म के संस्थापक मानी के क्रूस पर चढ़ाकर उसकी खाल में भूसा भरवा दिया गया था। उधर कांस्टेंटिनोपिल में भी परधर्माश्रयी क्रिश्चियनों को पीड़ित किया जा रहा था। एक और मानीकियन (manichaen) सम्प्रदाय के विचार क्रिश्चियन धर्म को दूषित कर रहे थे और उनके दूर करने का घोरतम प्रयत्न किया जा रहा था और दूसरी ओर जरथुष्ट्रीय-धार्मिक पवित्र विचारों में क्रिश्चियन धर्म का समावेश हो रहा था। समस्त विचार संदेहात्मक हो गये थे। (इस प्रकार) इस समय जब कि ऐसी असहिष्णुता का दृष्टिकोण था—विज्ञान-सूर्य का, जिसमें शान्त-चित्त द्वारा अप्रतिहत रूप से विचार करने की सर्वोपरि आवश्यकता होती है, सम्पूर्ण-ग्रहण सा लग गया था।

उन दिनों वैज्ञानिकों के जन-साधारण का जीवन युद्ध, कट्टर-अध्यात्मवाद और साधारण मानवीय दुराचारों ही से परिपूर्ण था। देखने में तो वह सुन्दर एवं अद्भुत प्रतीत होता था परन्तु माधुर्य प्रकाश का वहाँ नितान्त अभाव था। उत्तरीय वर्वर जातियों के आक्रमणों से छुटकारा पाने पर वैज्ञानिक और पारसीक साम्राज्य आपस के शुष्क विचार एवं नाशकारी युद्धों द्वारा एशिया माइनर तथा सीरिया के भू-भागों का सत्यानाश किया करते थे। इसमें सन्देह नहीं कि वर्वर जातियाँ भी इतनी प्रवर्त थीं कि इन दोनों साम्राज्यों की सामूहिक शक्ति भी उनके कठिनता से हरा श्रीलाभ कर सकती थी। तुर्क अथवा तातार इतिहास के रंग-मंच पर कभी एक और कभी दूसरे राज्य के मित्र के रूप में सर्वप्रथम इसी समय प्रकट हुए। छठी शताब्दी में जस्टिनियन और खुसरो 'प्रथम' एक दूसरे के प्रधान प्रतिद्वन्द्वी थे और सातवीं शताब्दी के प्रारम्भ में राजा-धिराज हेराक्लियस को 'खुसरो द्वितीय' का ५८० ई० में सामना करना पड़ा था।

आदि में हेराक्लियस के सिंहासनारूढ़ होने तक (६१० ई०) खुसरो नदी की वहिया की भाँति सब कुछ ही बहाकर ले गया—किसी के भी पैर उसके सामने न टिके;

एशिया माइनर के सर्वोच्च भाग में स्थित चैलसिडुन नामक स्थान में जा पहुँचीं, और ६१९ में उसने मिस्र देश को भी हस्तगत कर लिया। इसके पश्चात् हेराक्लियस ने जो लौटकर धावा बोला है तो चैलसिडुन में फ़ारस की फ़ौज होते हुए भी 'नित्रेव' नामक स्थान में खुसरो की सेना के पैर तुरी तरह से उखड़ गये (६२७)। फिर अगले ही वर्ष ६२८ ई० में कैकुवाद नामक पुत्र ने मिहान्सन-च्युत कर खुसरो (द्वितीय) का वध कर डाला और अन्त में दोनों साम्राज्यों ने थककर आपस में एक शस्थार्थ सन्धि भी कर ली।

वैज़यण्टाइन और फ़ारस का अन्तिम युद्ध हो जाने पर भी इन निरर्थक परन्तु दीर्घ-कालीन कलहों का सदा के लिए अन्त करनेवाले निकटस्थ मरु-भूमि के उठते हुए तत्कालीन तुक्रान का उस समय शायद किसी ने स्वप्न में भी विचार न किया होगा।

सम्राट् हेराक्लियस अभी सीरिया प्रदेश में शान्ति स्थापित कर ही रहे थे कि सीमा-स्थित दमिश्क के दक्षिणीय पार्श्व के वोस्तरा नामक स्थान में एक सँदेश भेजा गया। वह अरबी में लिखा हुआ था जो मरु-स्थली की एक दुर्बोध सैमेटिक भाषा है। यदि वह सम्राट् के पास वास्तव में पहुँच गया था तो दुभाषिये ने उसका आशय उनको अवश्य ही समझाया होगा। उस पत्र को एक व्यक्ति ने भेजा था जो अपने को ईश्वरीय दूत मुहम्मद कहते थे। इस पत्र में सम्राट् को एक ही मन्त्र परमेश्वर को स्वीकार करने और उसकी सेवा करने का आदेश था। सम्राट् ने उनका क्या उत्तर दिया इसका कोई उल्लेख नहीं है।

टैसीफ़ोन नामक नगर में इसी प्रकार का एक सन्देश सम्राट् कैकुवाद के पास भी भेजा गया था परन्तु उन्होंने भुँ भुल्लाकर उस पत्र के टुक-टुक कर दूत को निकाल दिया।

उस समय ऐसा प्रतीत हुआ था कि यह मुहम्मद वददुआं के मदीना धर्म और मरु-स्थली के मदीना नामक छोटे और अप्रसिद्ध नगर में उनका प्रधानाधान था। यह एक नवीन धर्म का उपदेश देने थे जिसमें केवल एक सत्य परमेश्वर पर विश्वास करने का उपदेश दिया जाता था।


(पारसीक साम्राज्य से अपने दूत के लौटाये जाने पर) उन्होंने कहा "हे प्रभु! कैकुवाद से छीनकर उसके राज्य के भी इसी प्रकार टुकड़े-टुकड़े कर डाल।"

## चीन देश के सई और तङ्ग वंश

पाँचवीं और छठी, सातवीं और आठवीं शताब्दियों में, मंगोल जाति का निरन्तर प्रवाह पश्चिम की ही ओर रहा। एटिल्ला के हूण-समुदाय इस मंगोल अभिगमन के पूर्व चिह्न थे। इस प्रवाह के कारण मंगोलों के दल के दल फिनलैण्ड, इस्थोनिया और हंगेरी प्रदेशों में आकर बस गये और तुर्की भाषा से मिलती-जुलती भाषा बोलनेवाली इनकी सन्तान वहाँ आज तक बसी हुई है। वैसे तो बल्गेरिया-निवासी भी तुर्क हैं परन्तु उन्होंने आर्य-भाषा को अपना लिया है। आर्य जाति ने अनेक शताब्दी पूर्व जो व्यवहार ईजियन तथा सैमेटिक सभ्यता के साथ किया था वैसे ही मंगोल जाति अब यूरोप फ़ारिस तथा भारतवर्ष में आर्य-सभ्यता के साथ कर रही थी।

तुर्क (लोग) मध्य-एशिया में—जहाँ अब पश्चिमीय तुर्किस्तान है—डटकर जा बसे थे और फ़ारस ने भी इस जाति के ऊँचे पदों और अच्छे वेतन पर सैनिकों का पर्याप्त संख्या में रख छोड़ा था। वहाँ की जनता में खूब घुल-मिल जाने के कारण प्राचीन पार्थ (Parthian) नामक जाति का तो इतिहास में उस समय नाम तक न मिलता था। मध्यएशिया के इतिहास में भी घूमने-फिरनेवाली आर्य जाति का नाम तक शेष न रहा था और उनका स्थान भी अब मंगोलों ने ले लिया था। कहना न होगा कि तुर्क ही इस समय कास्पियन समुद्र से लेकर चीन-पर्यन्त समस्त एशिया महाद्वीप के स्वामी हो गये थे।

जिस महामारी के कारण, ईसा की द्वितीय शताब्दी के अन्त में, रोम-साम्राज्य चकनाचूर हो गया था उसी ने चीन के 'हान'-वंश को भी जोड़ित न रहने दिया। विध्वंस करके ही उसका पीछा छोड़ा। इसके पश्चात् विच्छेद तथा हूण जाति के आक्रमणों का समय आया जिससे चीन देश, यूरोप की अपेक्षा कहीं अधिक शीघ्रता और




चीन के तंग-वंश के युग की मिट्टी की मूर्तियाँ

## चीन देश के सई और तङ्ग वंश

पाँचवीं और छठी, सातवीं और आठवीं शताब्दियों में, मंगोल जाति का निरन्तर प्रवाह पश्चिम की ही ओर रहा। एटिल्ला के हूण-समुदाय इस मंगोल अभिगमन के पूर्व चिह्न थे। इस प्रवाह के कारण मंगोलों के दल के दल किनलैण्ड, इस्थोनिया और हंगेरी प्रदेशों में आकर बस गये और तुर्की भाषा से मिलती-जुलती भाषा बोलनेवाली इनकी सन्तान वहाँ आज तक बसी हुई है। वैसे तो बल्गेरिया-निवासी भी तुर्क हैं परन्तु उन्होंने आर्य-भाषा को अपना लिया है। आर्य जाति ने अनेक शताब्दी पूर्व जो व्यवहार ईजियन तथा सैमेटिक सभ्यता के साथ किया था वैसे ही मंगोल जाति अब यूरोप फ़ारिस तथा भारतवर्ष में आर्य-सभ्यता के साथ कर रही थी।

तुर्क ( लोग ) मध्य-एशिया में—जहाँ अब पश्चिमीय तुर्किस्तान है—डटकर जा बसे थे और फ़ारस ने भी इस जाति के ऊँचे पदों और अच्छे वेतन पर सैनिकों को पर्याप्त संख्या में रख छोड़ा था। वहाँ की जनता में खूब घुल-मिल जाने के कारण प्राचीन पार्थ ( Parthian ) नामक जाति का तो इतिहास में उस समय नाम तक न मिलता था। मध्यएशिया के इतिहास में भी घूमने-फिरनेवाली आर्य जाति का नाम तक शेष न रहा था और उनका स्थान भी अब मंगोलों ने ले लिया था। कहना न होगा कि तुर्क ही इस समय कास्पियन समुद्र से लेकर चीन-पट्यन्त समस्त एशिया महाद्वीप के स्वामी हो गये थे।

जिस महामारी के कारण, ईसा की द्वितीय शताब्दी के अन्त में, रोम-साम्राज्य चकनाचूर हो गया था उसी ने चीन के 'हान'-वंश को भी जीवित न रहने दिया। विध्वंस करके ही उसका पीछा छोड़ा। इसके पश्चात् विच्छेद तथा हूण जाति के आक्रमणों का समय आया जिससे चीन देश, यूरोप की अपेक्षा कहीं अधिक शीघ्रता और



चीन के तंग-वंश के युग की मिट्टी की मूर्तियाँ



दृढ़ता से विश्रान्त होकर उठ बैठा। छठी शताब्दी के समाप्त होने से प्रथम ही समस्त चीन देश सई-वंश की अधीनता में पुनः सुसंगठित हो गया था और हेराक्लियस के समय तक वहाँ पर उस वंश के स्थान में अधिकाधिक ऋद्धि-सिद्धि का युग स्थापित करनेवाले ऐश्वर्यशाली तंग-वंश की छत्र-छाया हो गई थी।

ईसा की सातवीं, आठवीं तथा नवीं शताब्दियों में चीन संसार का सबसे अधिक सुरक्षित एवं सभ्य देश था। उसकी उत्तरीय सीमा तो हान-वंश ने पहिले ही विस्तृत कर दी थी। अब सई और तंग-वंशीय सम्राटों ने दक्षिण की ओर भी एतद्देशीय सभ्यता का प्रचार करना प्रारम्भ कर दिया; इस प्रकार चीन ने अपना आधुनिक विस्तृत रूप इस समय प्राप्त किया। मध्यएशिया में इस देश का विस्तार और भी अधिक हो गया था। वहाँ की राजस्व देनेवाली तुर्क जातियों को सम्मिलित कर लेने पर तो अन्त में इसकी सीमा बढ़कर फ़ारस तथा कास्पियन समुद्र तक जा पहुँची थी।

इस प्रकार जाग्रत होनेवाला 'नवीन चीन' हान-वंशीय सम्राटों के, 'प्राचीन चीन' से कहीं अधिक भिन्न था। देश में एक नवीन एवं अधिक शक्तिशाली साहित्य का प्रादुर्भाव हो गया था—अर्थात् कविता के महत् पुनरुत्थान के साथ ही साथ बौद्ध-धर्म के कारण धार्मिक एवं दार्शनिक विचारों में क्रान्ति उत्पन्न हो गई थी। कला-कौशल, हस्त-नैपुण्य तथा जीवन-सम्बन्धी सुविधाओं में भी अब पहिले से कहीं अधिक उन्नति हो चली थी। चाय पीना इसी समय प्रारम्भ हुआ। कागज़ और लकड़ी के छापेखाने भी इसी समय आविष्कृत किये गये। जिन शताब्दियों में यूरोप तथा पश्चिमीय एशिया की दुर्बल प्रजा मिट्टी के घरोंदों, छोटे छोटे क़सबों और डाकुओं की गड़ियों में जीवन काट रही थी उस समय इस देश की लाखों आत्माएँ शान्ति के साथ सुचारु रूप से अपना जीवन निर्वाह कर रही थीं। मस्तिष्क पर धार्मिक द्वेष का भूत सवार होने के कारण पाश्चात्यों के हृदय जब क्लुषित हो रहे थे तब चीन के लोग राग-द्वेष छोड़, सहिष्णुता से उदार-हृदय हो, शान्तिपूर्वक इन्हीं प्रश्नों पर गूढ़ चिन्तन कर रहे थे।

हेराक्लियस ने निन्वे नामक स्थान पर जिस वर्ष विजय प्राप्त की थी उसी वर्ष, अर्थात् ६२७ ई० में, तंग-वंशीय प्राथमिक शासकों में से एक ताइत्संग नामक नृपति चीन के राज-सिंहासन पर बैठा। फ़ारस के पार्श्वभाग में भी मैत्री के इच्छुक होने के कारण यवनराज हेराक्लियस ने इन चीनी नरनाथ के दरबार में अपना एक दूत भेजा। और ई० स० ६३५ में स्वयं फ़ारस देश से क्रिश्चियन-धर्म-प्रचारकों का एक समूह भी इनकी सेवा में आ उपस्थित हुआ। सम्राट् ताइत्संग ने उनके धार्मिक अभिभाषणों का ध्यानपूर्वक सुना और तत्पश्चात् उनके धार्मिक ग्रंथ बाइबिल के चीनी अनुवाद की

परीक्षा कर, इस नवीन धर्म को हृदयगम्य समझ (उनके) गिरजाघर तथा मठ दोनों ही के निर्माण करने की आज्ञा दे दी।

मुहम्मद (पैगम्बर) के दूत भी ई० स० ६२८ में इनकी सेवा में आये थे। यह दूत-समाज सुदूर अरब देश से चलकर भारत के तट पर होता हुआ चीन के कैण्टन नामक नगर में व्यापारी-पोत द्वारा उतरा था। परन्तु हेराक्लियस और कैकुवाद की भाँति वर्ताव न कर नृपति ताइत्संग ने इससे बड़ी शिष्टता का व्यवहार किया और न केवल इनके धार्मिक सिद्धान्तों को ही रुचिपूर्वक सुना वरन् कैण्टन नगर में एक मसजिद निर्माण करने में भी इनको सहायता दी। यह मसजिद इस समय भी मौजूद है और दुनिया में सबसे पुरानी गिनी जाती है।

---

## मुहम्मद और इसलाम

सातवीं शताब्दी के प्रारम्भ में संसार का सिंहावलोकन कर कोई भी ऐतिहासिक विद्यार्थी यदि यह कहता कि कुछ ही शताब्दियों के पश्चात् समस्त यूरोप और एशिया में मंगोल जाति की विजय-पताका फहराने लगेगी तो उसका यह कथन न्याय्य समझा जाता । उस समय पश्चिमीय यूरोप में न तो शान्ति थी और न परस्पर की प्रीति ही । वैज़ण्टाइन और पारसीक साम्राज्य प्रकाश्य रूप से एक दूसरे के विनाश पर तुले हुए थे; रहा भारत सो उसका भी आपस की फूट के कारण हास हो गया था । चीन ही एक ऐसा देश था जहाँ उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही थी । वहाँ की जन-संख्या भी शायद उस समय समस्त यूरोप से अधिक होगी और उस पर तुरा यह था कि दिन पर दिन अधिक बल प्राप्त करनेवाली मध्य-एशिया की तुर्की जातियाँ भी चीन ही के इशारे पर नाचती थीं । यह भविष्यवाणी सम्पूर्णतया असंगत तो फिर भी न होती क्योंकि तेरहवीं शताब्दी में एक ऐसा समय अवश्य आनेवाला था कि जब डेन्यूब नद से लेकर प्रशान्त समुद्र पर्यन्त समस्त अन्तर्गत प्रदेशों पर एक ही मंगोल शासक का एकछत्र शासन हो गया था । वैज़ण्टाइन, फ़ारस, मिस्र और भारत के अधिक भूभागों पर शासन करना तुर्कों के भाग्य में वैसे ही वदा हुआ सा था ।

पश्चिम यूरोपीय लैटिन-भाषी अंश के पुनः बल प्राप्त करने की सामर्थ्य का हमारे भविष्यवक्ता महाशय कुछ न्यून ही सा अंदाज़ा लगाते; और अरबदेशीय मरुभूमि की प्रतिच्छिन्न शक्तियों को नगण्य मानने की भूल भी अवश्य करते । वह ( अरब ) देश तो उनको इधर-उधर घूमने-फिरने और आपस में युद्ध करनेवाली छोटी छोटी जातियों का आश्रय-स्थान सा—जैसा वह सदा से था—दिखाई पड़ता था । इसके अतिरिक्त एक सहस्र से अधिक वर्ष वीत जाने पर भी सैमेटिक जाति ने अभी तक किसी नवीन साम्राज्य की नींव नहीं डाल पाई थी ।

इसी बद्ध जाति का प्रकाश अब एक शताब्दी सरीखे अल्प काल के लिए महसा प्रज्वलित हो उठा। स्पेन से लेकर चीन की सीमा-पर्यंत सर्वत्र ही इन लोगों की भाषा और सत्ता फैल गई। इस जाति ने संसार का एक नवीन संस्कृति प्रदान की और इन लोगों में उत्पन्न होनेवाला धर्म आज-पर्यंत संसार की अत्यंत जीवन-सम्पन्न शक्तियों में समझा जाता है।

इस अरब ज्वाला को प्रज्वलित करनेवाले व्यक्ति—मुहम्मद—मक्का नामक नगर के एक धनाढ्य पुरुष की विधवा के युवा पति के रूप से इतिहास में सर्वप्रथम पदार्पण करने हैं। चालीस वर्ष की अवस्था तक इन्होंने कोई भी ऐसा कृत्य नहीं किया था जिससे संसार में इनकी प्रसिद्धि होती। परन्तु ऐसा मालूम पड़ता है कि धार्मिक वादानुवाद इनको अत्यन्त रुचिकर लगते थे। मक्का उस समय मूर्त्तिपूजकों का प्रधान अड्डा हो रहा था और काबा नामक काले पत्थर की वहाँ विशेष रूप से पूजा की जाती थी। अरब देश में उसकी अत्यन्त प्रसिद्धि थी और वह धार्मिक यात्राओं का केन्द्र था। देश में यहूदियों की संख्या भी पर्याप्त थी। वास्तव में अरब का दक्षिणीय भू-भाग तो यहूदी-धर्म का ही अनुयायी था और सीरिया ( नामक प्रान्त ) में ईसाइयों के गिरजाघर भी बने हुए थे।

लगभग चालीस वर्ष की अवस्था हो जाने पर मुहम्मद में भी, बारह सौ वर्ष पूर्ववर्त्ती यहूदी पैगम्बरों के समान, धीरे धीरे पैगम्बरी के लक्षण प्रस्फुटित होने लगे। सबसे प्रथम उन्होंने अपनी भार्या के 'एक सत्य परमात्मा का अस्तित्व' बताया और ( उनसे ) यह कहा कि धर्माधर्म आचरण के फलाफल प्रसाद तथा दंड हैं। कहना न होगा कि उनके विचारों पर यहूदी तथा किश्चियन धर्म की गहरी छाप पड़ी हुई थी। विश्वास लानेवाला एक लघु-संख्यक शिष्य-समुदाय भी अब उनके चारों ओर एकत्रित हो गया और प्रचलित मूर्त्तिपूजा के विरुद्ध अपने ही नगर में वह फिर धीरे धीरे उपदेश भी देने लगे। नगर-निवासी मुहम्मद साहब के इन उपदेशों से असन्तुष्ट हो उनका घोर विरोध करते थे; क्योंकि मक्का का ऐश्वर्य तो प्रधानतया काबा की धार्मिक यात्रा पर ही निर्भर था। परन्तु वह अब पहिले की अपेक्षा कहीं अधिक साहस एवं स्पष्टता से उपदेश देते थे और कहते थे कि "मैं ही परमेश्वर का प्रिय और अन्तिम दूत (पैगम्बर) हूँ। धार्मिक त्रुटियों को दूर करने के लिए ही मेरा प्रादुर्भाव हुआ है। पैत्राहम और याशू मसीह नेरे पूर्ववर्त्ती ईश्वरीय दूत थे। ईश्वरेच्छा के प्रकटीकरण में जो त्रुटियाँ रह गई थीं उन्हीं को दूर करने और पूर्ण रीति से प्रकट करने के लिए ही परमात्मा ने मुझको चुना है।"

उन्होंने ऐसे पद्य एकत्रित किये जिनको वह कहते थे कि ईश्वरीय दूत ( प्रारिज्ञता , द्वारा उनको प्राप्त हुए हैं और उन्हींने एक अद्भुत दृश्य भी देखा था जिनमें वह



नमाज़ ( मरु-भूमि में )

आकाशमार्ग द्वारा ईश्वर के निकट ले जाये गये थे और वहाँ पर उनके सासारिक मिशन ( ध्येय वा कार्य-क्रम ) की सम्पूर्ण शिक्षा मिली थी।

ज्यो ज्यो उपदेश प्रवल होते गये त्यो त्यो उनके नगर-निवासियों का विरोध भी तीव्र होता गया; यहाँ तक कि अन्त में उन्होंने मुहम्मद ( साहब ) के प्राणायपहरण करने का षड्यंत्र भी रच डाला। परन्तु अपने मित्र एवं विश्वासपात्र शिष्य अब्बकर के साथ मुहम्मद मदीना नामक मित्र नगर में बचकर चले गये। वहाँ के निवासियों ने इनके धार्मिक तत्त्वों को स्वीकार कर लिया था। इस पर मक्का और मदीना के बीच लड़ाई छिड़ गई जिसकी समाप्ति सन्धि द्वारा हुई और ( उसकी शर्तों के अनुसार ) मक्का निवासियों को भी अब 'एक सत्य परमात्मा' की पूजा करना और

मुहम्मद को ईश्वरीय दूत मानना पड़ा। परन्तु प्राचीन मूर्ति-पूजकों की भाँति नवीन धर्मानुयायियों के लिए मक्का की धार्मिक यात्रा फिर भी अनिवार्य रक्खी गई। निष्कर्ष यह निकला कि यात्रियों के आवागमन में कमी न करते हुए भी मुहम्मद ने मक्का में एक सत्य परमात्मा की पूजा प्रचलित कर दी। हेराक्लियस, ताईत्संग, कैकुवाद आदि संसार के अन्य नरनाथों के निकट अपने दूत भेजने के एक वर्ष पश्चात् ६२९ में मुहम्मद ने स्वामी बनकर मक्का में पुनः प्रवेश किया।

इसके पश्चात् मुहम्मद अपनी मृत्यु-पर्यन्त अर्थात् ६३२ तक निरन्तर चार वर्ष पर्यन्त वृद्धे हुए अरब प्रदेश में अपना बल बढ़ाते रहे। वृद्धावस्था में उन्होंने अपने कई विवाह भी किये। आधुनिक विचार-दृष्टि से उनका जीवन, अन्ततोगत्वा, प्रशंसा के योग्य नहीं समझा जायगा। इस मनुष्य में दम्भ, लोभ, चातुर्य और आत्मछल के मिश्रण के साथ ही साथ वास्तविक धार्मिक उद्देश भी था\*। आदेशों और व्याख्याओं की कुरान नामक एक पुस्तक भी इन्होंने लिखवाई थी जिसके ये ईश्वर द्वारा भेजी हुई कहा करते थे। साहित्यिक अथवा दार्शनिक दृष्टि से कुरान कदापि ईश्वर-कृत ग्रंथ (जैसा कि कहा जाता है) होने योग्य नहीं है।

मुहम्मद साहब के चरित्र और लेखों की प्रकाश्य त्रुटियों का लिहाज़ करने के बाद भी यह मानना पड़ेगा कि अरब में उनके द्वारा प्रचारित इस्लाम में फिर भी अत्यन्त बल और स्फूर्ति-प्रदायिनी शक्ति पाई जाती है। इसका एक कारण इस धर्म का कट्टर एक्सेक्शन्वाद और ईश्वरीय पितृत्व एवं शासन में दृढ़ सरल विश्वास तथा कर्मकाण्ड-विषयक जटिलताओं का अभाव है। दूसरा कारण बलिदान करानेवाले पुरोहितों और मंदिरों से धर्मपूर्ण पार्थक्य और स्वातंत्र्य है; पैगम्बरीय धर्म होने के कारण अनुयायियों के अधिरमय बलिदान करने की ओर पुनः पतन की सम्भावना शेष नहीं रह जाती। कुरान में मक्का की यात्रा-विषयक कर्मकाण्ड इस प्रकार सीमित कर लिखा गया है कि उसके संबंध में कोई वाद-विवाद भविष्य में नहीं हो सकता, यहाँ तक कि मृत्यु के बाद अपनी देवोपम पूजा न होने के विषय में

\* भाषान्तर होने के कारण हमने ये वाक्य ज्यों के त्यों लिख दिये हैं; परन्तु हम इनसे सहमत नहीं हैं। पैगम्बर साहब का जीवन कैसा था यह जानने के लिए हिन्दी पाठकों को मलक गुलाम सरवरज़ा रचित जनाय मुहम्मद रसूलल्लाह का जीवन-चरित पढ़ना चाहिए। इस पुस्तक में एक विद्वान् और श्रद्धालु मुसलमान के दृष्टिकोण से लिखा हुआ पैगम्बर साहब का जीवनचरित्र मिलेगा।

भो मुहम्मद साहब ने पूरा विधान कर दिया है, और रंग, स्थिति तथा मूल में पार्थक्य एवं भिन्नता होते हुए भी ईश्वर के समक्ष समस्त इसलाम-धर्मानुयायियों की समानता और सम्पूर्णतया भ्रातृभाव पर आग्रह तीसरा बलदायक कारण है ।

इन्हीं कारणों से मानवीय कृत्यों में इसलाम अत्यन्त बलशाली सिद्ध हुआ । कहा जाता है कि मुहम्मद की अपेक्षा उनका मित्र और सहायक अबूबकर ही इसलाम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था । यदि चलवृत्तियुक्त मुहम्मद का आचरण पूर्वकालीन इसलाम-धर्मरूपी शरीर का मन और विचार-तरंग था, तो अबूबकर को उसकी आत्मा तथा इच्छा-शक्ति मानना पड़ेगा । मुहम्मद का चित्त दोलायमान होने पर अबूबकर ही उनको सान्त्वना देकर दृढ़ करते थे और उनकी मृत्यु के बाद खलीफ़ा नियत होते ही अबूबकर ने पर्वतों तक को हिला देनेवाली श्रद्धा के साथ केवल ३०००-४००० अरब सैन्य के बल पर मुहम्मद द्वारा मदीने से ६२८ में पृथ्वी के शासकों के भेजे हुए पत्रों के आधार पर समस्त संसार को अल्लाह के भंडे के नीचे लाने के लिए स्वच्छ हृदय से सरलतापूर्वक योजना प्रारम्भ कर दी ।

---

## अरबों का स्वर्ण-काल


मनुष्य के सारे इतिहास की अब अत्यन्त आश्चर्यदायक विजय-कथा प्रारम्भ होती है । बैज़ण्टाइन राज्य के सैन्यदल का तो ६३४ में यर्मूक ( जार्डन की सहायक नदी ) के युद्ध में विध्वंस कर दिया गया, और राजाधिराज हेराक्लियस फ़ारस के निरन्तर युद्धों तथा जलोदर रोग के कारण इतने शक्तिहीन हो गये थे कि सीरिया, दमिश्क, पालमीरा, एगिप्टोस, जेरुसलम आदि उनके अन्य नव-विजित स्थान प्रायः बिना युद्ध किये हुए ही मुसलमानों के हस्तगत हो गये और वहाँ की जनता भी अधिक संख्या में मुहम्मदीय मतावलम्बनी बन गई । इसके पश्चात् मुसलमानों ने पूर्व की ओर मुख मोड़ा । इस समय फ़ारस में रुस्तम नामक एक अत्यन्त चतुर सेनानायक था; और वहाँ की अतुल सैन्य में हस्तियल भी पर्याप्त संख्या में था। परन्तु यह सब कुछ होते हुए भी क़ादेसिया नामक स्थान में ( ६३७ ) अरबों के साथ तीन दिन युद्ध करने के उपरान्त फ़ारस-सैन्यदल को छिन्न-भिन्न हो मैदान छोड़कर भागते ही बन पड़ा ।

तदनन्तर मुसलमान समस्त फ़ारस पर विजयी हो गये और मुसलिम-साम्राज्य पश्चिमी तुर्किस्तान में होता हुआ उत्तरोत्तर पूर्व की ओर चीन की सीमा तक जा पहुँचा । मिस्र देश भी प्रायः बिना सामना किये हुए ही इन नव-विजेताओं के हस्तगत हो गया जिन्होंने कुरान को समस्त विद्याओं का भण्डार मानने के अन्धविश्वास के कारण ऐलेक्ज़ैंड्रिया के पुस्तकालय की पुस्तक-लेखन-कला के अन्तिम चिह्न तक समूल नष्ट कर दिये । विजय-वाढ़ उत्तरीय अफ़्रीका के तट पर होती हुई जियराल्टर के जलग्रीव तथा स्पेन तक फैल गई । अरबों ने ७१० में स्पेन पर धावा बोला; ७२० में उनके सैन्यदल पिरैनीज़ पर्वतमाला पर जा पहुँचे और ७३२ में उनका भंडा फ़्रांस के मध्य में गड़ गया था । परन्तु वहाँ पहुँचने पर पायोरियर्स के युद्ध में पराजित हो उनके सदा के लिए पुनः पिरैनीज़ पर्वतमाला





अरबों में राजनैतिक योग्यता अल्प थी, और राजनीति का अनुभव तो उन्हें नाम के भी न था। अतएव स्पेन से लेकर चीन-पर्यन्त विस्तृत और दमिश्कनगरस्थ राजधानीवाले इस बृहत् साम्राज्य के भाग्य में शीघ्र ही छिन्न-भिन्न होना बदा-सा था। धार्मिक सिद्धान्त-विषयक भेद-भावों ने प्रारम्भ ही से इसकी एकता की जड़ खोखली कर दी थी। परन्तु हमारा अभिप्राय तो यहाँ पर केवल मानव-मस्तिष्क एवं हमारी जाति के भाग्य पर इसका प्रभाव मात्र वर्णन करना है, साम्राज्य के राजनैतिक विच्छेद की कथा बखान करना नहीं है।



जेरुसलम में उमर की मस्जिद का दृश्य

अरबों की शानज्योति सहस्र वर्ष पूर्वोक्त यूनानियों की अपेक्षा कहीं अधिक शीघ्रता से नाटक-वत् स्पष्ट एवं प्रभावोत्पादक हो संसार के एक छोर से दूसरे छोर तक फैल गई थी। चीन देश के पश्चिम और—प्रायः समस्त जगत् में—बौद्धिक स्फूर्ति, प्राचीन विचारों का हास तथा नवीन विचारों का विकास इस समय असाधारण रूप में हो रहा था। भारत में

इस नवोत्तेजित अरब-मस्तिष्क का सम्पर्क मानी, ज़रथुष्ट्र तथा क्राइस्ट के धार्मिक सिद्धान्तों के अतिरिक्त यूनानी वैज्ञानिक साहित्य से भी हुआ, जो मूल-भाषा यूनानी के अलावा सीरिया की भाषाओं में अनुवाद हो जाने के कारण भी सुरक्षित था। मिस्र देश में भी उसके यूनानी शिक्षा ही उपलब्ध हुई। विचारवाद अथवा वस्तु-विशेष पर विविध दृष्टि-कोण एवं दशाओं में गहन मानसिक विचार एवं वादाविवाद करने की यहूदी परिपाटी ते साधारणतया सर्वत्र, और विशेषतया स्पेन में, उसका परिचय हुआ। मध्य-एशिया में उसकी चीनी सभ्यता के भौतिक लाभ तथा बौद्ध-धर्म दृष्टिगोचर हुए। इन्हीं चीनियों से अरबों ने कागज़ बनाना सीखा जिसके कारण छपी हुई पुस्तकों का मिलना सम्भव हुआ। अन्त में भारतीय दर्शन एवं गणित का ज्ञान भी इन लोगों ने प्राप्त किया।

फिर तो आद्यकालीन धार्मिक असहिष्णुता और अपने सर्वज्ञता के विचार—जिनके कारण केवल कुरान ही समस्त जगत् की एकमात्र पुस्तक समझी जाती थी—अत्यन्त शीघ्रता से कर्पूरवत् उड़ गये। और इसी कारण शिक्षा भी अरब विजेताओं की पदानुगामिनी होकर सर्वत्र ही फैल गई; यहाँ तक कि आठवीं शताब्दी में अरब-सभ्यता का अंगीकार करनेवाले समस्त जगत् में शिक्षा-सम्बन्धी संस्थाओं की स्थापना हो चुकी थी। और नवीं शताब्दी में तो स्पेन देश के कुर्दवा नामक नगर के मदरसों की विद्वन्मण्डली काहिरा, बग़दाद, बुखारा और समरकन्द के पण्डितों से पत्र-द्वारा ज्ञान-विनिमय करती थी। यहूदी समाज का मस्तिष्क अरबों से अत्यन्त शीघ्रता एवं सुगमता-पूर्वक मिल गया और कुछ काल तक तो यह दोनों जातियाँ मिलकर अरबी ही के माध्यम-द्वारा कार्य करती रहीं। बुद्धि-बन्धन-द्वारा बँधे हुए अरब-भाषा-भाषी संसार की विरादरी का अस्तित्व, अरबों के राजनैतिक रूप से दुर्बल एवं छिन्न-भिन्न होने के बहुत काल पश्चात् तक विद्यमान रहा; और तेरहवीं शताब्दी पर्यन्त इसके द्वारा अनल्प फल भी प्रकट होते रहे।

इस प्रकार वास्तविक घटनाओं और सत्य के एकत्रित करने तथा उनकी आलोचना करने की यूनानियों द्वारा प्रारम्भ की हुई प्राचीन परिपाटी सैमेटिक संसार की अद्भुत जाग्रति के कारण पुनः फैल गई। ऐरिस्टॉटल द्वारा बोया हुआ बीज और ऐलेक्ज़ैंड्रिया का अद्भुत पदार्थ-संग्रहालय (म्यूज़ियम विद्यामन्दिर)—दोनों ही—जो इतने अधिक काल से उपेक्षित एवं अक्रिय-शील हो रहे थे, अब पुनः बढ़कर फल देने लगे। गणित, वैद्यक और भौतिक विज्ञान में खूब ही उन्नति हुई। रोमजातीय भद्दे अङ्कों को—अरबी अङ्कों ने जिनको हम आज-पर्यन्त बरतते हैं—स्थान-च्युत कर दिया। शून्य का चिह्न (०) भी सर्वप्रथम इसी समय व्यवहृत हुआ। 'ऐलजेब्रा' नामक अँगरेज़ी भाषा का शब्द (जिसका बीजगणित के लिए प्रयोग होता है) स्वयं अरबी भाषा का है। यही दशा कैमिस्ट्री (रसायन-

शास्त्र) नामक शब्द की है। एलगोल, एलडेवारान और वैबूटेस इत्यादि ताग्रक-समूहों के नाम अरबों द्वारा आकाश-विजय के चिह्न रूप से अब तक सुरक्षित हैं। इन्हीं के दर्शन-शास्त्र ने फ्रांस, इटैली तथा समस्त क्रिश्चियन जगत् के मध्यकालीन दर्शनों की बाया पलट कर दी।



कैरो की मस्जिद का दृश्य

अरब में, वैज्ञानिक प्रयोग करनेवालों को 'कीमियागर' कहते थे। और उन समय तक इनमें इतनी वर्धता भरी हुई थी कि वे अपनी नमस्त प्रयोग-विधियों तथा उनके फलों को यथासम्भव गुप्त रखते थे। आविष्कारों तथा प्रयोगों की सरलता द्वारा निजी लाभ और मानव-जीवन पर उनके कितने विशद एवं व्यापक प्रभाव पड़ने की सम्भावना है यह बात इनकी समझ में प्रारंभ ही से आ गई थी। धातुशोधन तथा कला-कौशल-सम्बन्धी अन्य बहुत से अत्यन्त लाभदायक निर्माण-कार्यों का ज्ञान इनको

हो गया था । धातु-मिश्रण, रंग-निर्माण, भाप के द्वारा अर्क खींचने का तरीका, टिंकचर, सुगन्धित द्रव्य, ऐनक इत्यादि अन्य बहुत सी वस्तुओं के आविष्कार भी इन्होंने सफलतापूर्वक कर डाले । परन्तु जिन दो पदार्थों की इनको खोज थी वे फिर भी न मिल सके । इन दो पदार्थों में एक तो था पारस अर्थात् धातुओं को परिवर्तित करने का साधन और दूसरा था जीवन-दायक रस अथवा अमृत या विशेष प्रकार का रस जिसके पान करने पर आयु एवं सामर्थ्य बढ़ जाने के कारण मनुष्यजीवन के अनन्त काल तक बने रहने की सम्भावना हो जाती । अरवों की यह दुरुह एवं कष्टप्रद प्रयोग-विधि क्रिश्चियन जगत् में भी फैल गई । और कौतूहलजनक होने के कारण इस प्रकार की गवेषणाओं का यथेष्ट प्रचार भी हो गया । फिर ज्यों ज्यों समय बीतता गया त्यों त्यों, परन्तु अत्यन्त धीरे धीरे, इन रासायनिकों का कार्यक्रम भी समाज में अधिकाधिक प्रचलित होने लगा । और दूसरों का सहयोग प्राप्त करने तथा अपने प्रयोगों की दूसरों के प्रयोगों से तुलना करने की तथा पारस्परिक विचार-विनिमय की आवश्यकता इन्हें मालूम पड़ने लगी । इस प्रकार शनैः शनैः अज्ञात रूप से ( एक ऐसा समय भी आ गया जब ) अन्तिम कीमियागर सर्वप्रथम वैज्ञानिक आविष्कारक हो गया ।

प्राचीन कीमियागर चले तो थे खोज करने निकट धातुओं को सुवर्ण में परिवर्तित करनेवाले पत्थर की तथा अमरत्व प्रदान करनेवाले अमृतरस की, परन्तु उनके स्थान में—आधुनिक-विज्ञान सरीखी एक ऐसी विद्या उनके हाथ आ गई कि जिसके द्वारा मनुष्य को अपने भाग्य तथा विश्व के तत्त्वों पर एक न एक दिन अवश्य ही अपरिमित शक्ति प्राप्त हो जायगी ।

## लैटिनीय क्रिश्चियन राज्यों की उन्नति

यह बात अवश्य ही ध्यान में रखने योग्य है कि सातवीं और आठवीं शताब्दी में आर्यों का प्रभुत्व सिकुड़कर अत्यन्त अल्प भू-भाग में रह गया था। चीन के पश्चिम ओरवाले समस्त सभ्य-संसार पर, एक सहस्र वर्ष पहले, आर्यभाषाभाषी जातियों ही की विजय-पताका फहरा रही थी; परन्तु इस समय मंगोल जाति यूरोप में हंगेरी प्रदेश तक घुस आई थी और नैज़रटाइन राज्य के एशिया माइनर नामक आधुनिक प्रान्त के अतिरिक्त समस्त एशिया, अफ्रीका और प्रायः समूचा स्पेन भी आर्यों के शासन से निकल गया था। बृहत् यूनानी साम्राज्य भी तब, सिकुड़कर, कांस्टेन्टिनोपिल के चारों ओर के कतिपय स्थानों तक ही परिमित रह गया था। और क्रिश्चियन धर्मावलम्बी रोमन पुरोहितों की केवल रोमन भाषा ही उस समय रोमन जगत् की अतीत स्मृति जीवित रखने का एकमात्र साधन थी। इस अवनत कथा के प्रत्यक्षतया विरुद्ध, दूसरी ओर सैमेटिक-जातीय प्राचीन परम्परा सहस्रवर्षीय अन्धकार युग के पश्चात् तुच्छ एवं पराधीन दशा से निकलकर पुनः उन्नत पथ की ओर अग्रसर हो रही थी।

परन्तु नॉर्डिक (Nordic) जातियों की जीवन-शक्ति इस समय तक समाप्त नहीं हुई थी। मध्य और उत्तरपश्चिमीय यूरोप में परिमित तथा निजी सामाजिक एवं दूषित राजनैतिक विचारों में निमग्न होते हुए भी ये जातियाँ अब शनैः शनैः परन्तु दृढता-पूर्वक, अज्ञात रूप से एक ऐसी शक्ति की पुनःप्राप्ति के लिए अग्रसर हो रही थीं कि जो उस शक्ति की अपेक्षा, जिसका उन्होंने पहले उपभोग किया था, कहीं अधिक विस्तृत थी।

छठी शताब्दी के प्रारंभ में शक्तिशाली केन्द्रस्थ शासन का पश्चिमीय यूरोप में किस प्रकार सर्वथा लोप हो गया था इसका उल्लेख हम अभी कर चुके हैं। वहाँ पर, तब एकलुत्र शासन के स्थान में अनेक स्थानीय नेता स्थान स्थान में अपने बल-बूते पर शासक बन बैठे थे; परन्तु ऐसी घोर अव्यवस्था अधिक काल तक चलनेवाली न थी और इसी अराजकता में जार्गारदारी (Feudalism) नामक एक ऐसी सहयोग-विधि और पास्परिक साहाय्य करने की राह का प्रादुर्भाव हुआ जिसके चिह्न यूरोपीय जीवन में आज पर्यन्त पाये जाते हैं। जार्गारदारी

की प्रथा एक प्रकार से हमारे समाज का शक्ति-संबद्ध घनीकरण था। अकेला मनुष्य अपने को अरक्षित देख—थोड़ी बहुत निजी स्वतंत्रता खोकर भी—उसके बदले में सहायता और आश्रय पाने के लिए सर्वत्र ही उतारू हो गया; ऐसे ही व्यक्ति ने बलशाली मनुष्य को अपना संरक्षक अथवा प्रभु बना उसको कर देना एवं युद्ध-सेवा अर्थात् उसकी अधीनता में युद्ध करना स्वीकार कर लिया; इसके बदले में निजी संपत्ति पर उसका अधिकार स्थिर किया गया। यह प्रभु भी अपने से अधिक बड़े स्वामी का संरक्षण पाकर या आश्रित होकर रहता था। नगरों को भी इसी प्रकार फ्यूडल विधि से (जागीरदारी-प्रधानुसार) आश्रय-दाता के सहारे रहने में अधिक सुभीता हुआ और मठों तथा गिरजा-घरों की संपत्ति भी इसी बन्धन में ग्रथित हो गई। यह बात भी निःसन्देह कही जा सकती है कि बहुत स्थानों में इसके विपरीत भी आचरण हुआ अर्थात् वहाँ दीन-दुखियों के आश्रय टटोलने से पूर्व ही उनको अधीनता स्वीकार करने का बड़ों की ओर से आदेश किया गया। इस प्रकार यह प्रथा अवनतोन्मुख तथा उन्नतोन्मुख गति से सहसा प्रचलित हो सूच्याकार शिखर (Pyramid) की भाँति वर्धित हुई। जैसे तो इसमें स्थानीय विभिन्नताएँ भी खूब दृष्टिगोचर होती थीं और प्रारम्भिक दशा में उत्पात और वैयक्तिक युद्ध तथा भगड़े-टंटे भी बहुत चलते रहते थे; परन्तु फिर धीरे धीरे सुव्यवस्था और शांति बढ़ते रहने के कारण न्याय का नवीन राज्य भी स्थापित हो गया। सूच्याकार शिखर (Pyramid) की उन्नति होने पर इनमें से कुछ एक तो राज्य की परिभाषा में गिने जाने योग्य हो गये। आधुनिक फ्रांस तथा नैदरलैंड (वेल्जियम और हालैंड) में क्लोविस द्वारा स्थापित किया हुआ फ्रैंकिश राज्य छठी शताब्दी के प्रारम्भ तक ही अस्तित्व में आ गया था और फिर शीघ्र ही गौथ्स, लम्बार्ड तथा विसिगौथ्स-जातीय राज्यों की भी स्थापना हो गई।

पिरैनीज़ पर्वतमाला पार करने के पश्चात् ७२० ई० में जब मुसलमान आगे बढ़े तो उन्होंने उपरोक्त फ्रैंक अथवा फ्रैंकिश राज्य चार्ल्स मारटल के वास्तविक शासन में पाया जो क्लोविस नामक सम्राट् के हीन वंशधरों के महल का दारोगा था। और इसी चार्ल्स मारटल के हाथों पोयटीयर्स के युद्ध में (७२२) मुसलमान सेना बुरी तरह पराजित हुई। यूरोप के उस भाग का, जो आल्प्स पर्वत के उत्तर में पिरैनीज़ से हंगरी तक फैला हुआ था, चार्ल्स मारटल ही वास्तव में सर्वोच्च शासक था और उसकी अधीनता में फ्रैंच, लैटिन तथा हाई (High) एवं लो (Low) जर्मनभाषाभाषी बहुत से छोटे छोटे शासक शासन करते थे। उसके पुत्र पैपिन ने क्लोविस के वंशधरों को संपूर्ण-तया ममात कर, राज्य एवं राज्योंपाधि तक हड़प ली और पौत्र शार्लमेन ने राज्यारम्भ के समय (७६८ में) अपने को इतने बड़े साम्राज्य का स्वामी पाया कि 'लैटिन-सम्राट्' की

प्राचीन उपाधि को पुनः प्रचलित करने की भावनाएँ उसके चित्त में उत्पन्न हो गईं, और अन्त में इटैली के उत्तरीय भाग को जीतकर यह सम्राट् रोम का स्वामी बन ही गया।


यूरोप के इतिहास को जातीय ऐतिहासिकों की दृष्टि से न देखकर संसारेतिहास-रूपी अधिक व्यापक द्रितिज से देखने पर हम अधिक स्पष्टता एवं सरलता से समझ सकते हैं कि लैटिनीय रोम-साम्राज्य की यह प्राचीन परम्परा (अर्थात् उपाधि-धारण-सम्बन्धी प्रथा) यूरोप के लिए कितनी अधिक उन्नतिवाधक और सत्यानाशिनी थी। इस काल्पनिक सर्वोच्च पदवी को ग्रहण करने की लालसा में यूरोपीय शक्तियों का—एक सहस्र वर्ष से भी कहीं अधिक काल पर्यन्त—दुःखदायक घोर पारस्परिक कलहों के कारण यों ही निरर्थक अपव्यय होता रहा। इस समय की कुछ एक शांत न होनेवाली प्रतिद्वन्द्विताओं को हम सिलसिलेवार बता भी सकते हैं। इनके कारण यूरोप के बुद्धिमानों की दशा भी पागलों की सी हो गई थी—उन्हें मानों सनक सवार हो गई थी। शार्लमेन (महान् चार्ल्स) प्रमुख सफल शासकों के मन में सौझ बनने की लालसा एक उद्वाहक शक्ति का कार्य कर रही थी। शार्लमेन के साम्राज्य में विभिन्न अंशाय वर्चरतायुक्त बहुत-सी दुरूह जर्मन रियासतें सम्मिलित थीं। राइन नदी के पश्चिम और की इन जर्मन जातियों ने लैटिन भाषा द्वारा प्रभावित वोलियाँ वोलनी सीख लीं और अन्त में इन सबके मिलकर एक हो जाने पर आधुनिक फ्रेंच कहलानेवाली भाषा का प्रादुर्भाव हुआ। राइन नदी के पूर्वस्थ, उपरोक्त जर्मन जातियों ने अपनी बोली को न त्यागा। इसी हेतु वर्चर विजेताओं के इन दो विभागों में परस्पर वार्तालाप करने को कठिनाई के कारण फूट सुगमता से पड़ गई। और इस फूट को शार्लमेन की मृत्यु के उपरान्त समस्त राज्य को राजपुत्रों में विभाजित करने की प्राचीन फ्रेंच परिपाटी ने और भी स्वाभाविक रूप दे दिया। यूरोपीय तत्कालीन इतिहास का एक दृश्य तो है शार्लमेन के समय से और उसके उपरांत सम्राट् और उसके वंशधरों का; दूसरा दृश्य है राजाओं, राजपुत्रों, ड्यूकों, विशपों और यूरोपीय नगरों की संशयात्मक प्रभुत्व-प्राप्ति के वर्णन का; और इन सब के साथ ही साथ फ्रेंच तथा जर्मन भाषा-भाषियों के बढ़ते हुए विद्वेष का मिश्रण भी उसमें पाया जाता है। कहने को तो 'सम्राट्' पद के लिए सदा नियमानुसार चुनाव होता रहा; परन्तु वास्तव में प्रत्येक सम्राट्-पदाभिलाषी पुरुष के हृदय में लड़-भगड़कर किसी प्रकार स्थानान्तरित एवं हीनप्राय रोम पर आधिपत्य कर वहाँ अपना राज्याभिषेक कराने की अभिलाषा ही सर्वोच्च विद्यमान रहती थी।

यूरोपीय राजनैतिक जगत् में अराजकता उत्पन्न करनेवाला एक अन्य हेतु था—रोमन चर्च अर्थात् किश्चियन सम्प्रदाय-विशेष का यह दृढ़ निश्चय कि रोम के पोप के



अतिरिक्त अन्य सांसारिक राजपुत्र को वह वास्तविक सम्राट् ही नहीं मान सकता। पौन्टि-फैक्स मैक्सिमस अर्थात् सर्वोच्च पारलौकिक अधिपति तो वह पहले से ही था; दिन प्रतिदिन हास होनेवाला (अर्थात् रोम) व्यावहारिक रूप से उसके अधीन था। कमी केवल सैन्यदल की थी; परन्तु उसके स्थान में सुव्यवस्थित रूप से समस्त लैटिन जगत् में घोर आन्दोलन करनेवाले पुरोहितों की पर्याप्त संख्या पोप के अधीन थी। मानव-शरीरों पर कोई अधिकार न होते हुए भी जनता के विचारानुसार नरक तथा स्वर्ग का चावी तो उसी के हाथों में थी और इस भाँति मानवात्माओं पर वह गहरा प्रभाव डाल सकता था। फलतः मध्यकालीन राजपुत्र जिस समय अपने प्रतिस्पर्धियों की समता करने, नीचा दिखाने और सर्वोच्च पद प्राप्त करने के दाँव-पेच कर रहे थे उसी समय रोम के पोप साहस, कौशल और कभी कभी क्षीणता से किश्चिनयन संसार के महाप्रभु के नाते इन समस्त राजपुत्रों को अपने अधीन करने के कपट-प्रबन्ध में व्यग्र थे। (पोपों के लिए क्षीण शब्द का प्रयोग इसलिए किया कि इस पद पर बहुधा वृद्ध पुरुष ही नियुक्त किये जाते थे और औसत लगाने पर एक पोप का राज्य दो वर्ष से अधिक नहीं होता।)

परन्तु यूरोपीय अराजकता का दृश्य राजपुत्रों के पारस्परिक द्वेष तथा सम्राट् और पोप की कलह-कथाओं से ही समाप्त नहीं हो जाता। काँस्टेन्टिनोपिल में अभी तक ग्रीक-भाषी सम्राट् मौजूद था जो यह दावा करता था कि समस्त यूरोप मेरे अधीन है। जब शार्लमेन ने साम्राज्य के पुनरुत्थान का प्रयत्न किया तो वह केवल लैटिनीय भाग का ही पुनरुत्थान सफलतापूर्वक कर सका। लैटिनीय और ग्रीक साम्राज्य में प्रतिद्वंद्विता का भाव तो नैसर्गिकतया वैसे ही सुगमता से बढ़ जाना चाहिए था। उसमें फिर इज्जील के ग्रीक तथा लैटिन पाठान्तर माननेवाले भिन्न भिन्न किश्चिनयन संप्रदायों की पारस्परिक प्रतियोगिता ने तो मानों जलती हुई अग्नि में घी का काम किया (दोनों साम्राज्यों में इस कारण और भी सुगमता से घोर विद्वेष फैल गया)। रोम के पोप तो क्राइस्ट के पट्ट शिष्य सेंट (महात्मा) पीटर के उत्तराधिकारी के नाते अपने को सर्वत्र ही समस्त किश्चिनयन समुदाय का प्रमुख घोषित करते थे, पर काँस्टेन्टिनोपिल के सम्राट् और कुलपति (Patriarch) दोनों ही उनका यह दावा मानना न चाहते थे। इस बीच में, हीली ट्रिनटी अर्थात् पवित्र त्रिमूर्ति के सिद्धांत-विषयक एक अतीव सूक्ष्म मतभेद पर दीर्घकालीन वादविवाद के पश्चात् १०५४ में दोनों का सम्बन्ध-विच्छेद हो गया। इस समय ने ग्रीक और लैटिन धर्म संप्रदाय सम्पूर्णतया पृथक् होकर एक दूसरे के स्पष्ट विरोधी बन गये। मध्यकालीन राज्यों को मथित कर क्षति पहुँचानेवाले उपरोक्त हेतुओं में इन मतभेद को भी एक अन्य हेतु मानकर सम्मिलित करना चाहिए।



चार्लो मेग्नी का स्टैचू (पेरिस में नोट्रेडेम के नामने)



होने से बाल बाल ही बचा था। ईंगलिस्तान नवीं शताब्दी के पूर्व भाग में 'लो-जर्मन' नामक क्रिश्चियन धर्मावलंबीय जाति का देश था और महान् चार्ल्स का शिष्य एवं आश्रित 'एगवर्ट' वहाँ का राजा था। इसके उत्तराधिकारी महान् एल्फ्रेड नामक राजा से (८८६ में) उत्तरीय पुरुषों ने आधा राज्य छीनने के पश्चात् कैन्यूट की अध्यक्षता में (१०१६) समस्त देश ही अपने हस्तगत कर लिया। इसी प्रकार 'गैंगर' उपाधिधारी रॉल्फ नामक व्यक्ति की अध्यक्षता में इन्हीं उत्तरीय पुरुषों के एक अन्य समुदाय ने फ्रांस का उत्तरीय भाग जा दवाया जो पीछे से नार्मण्डी के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

कैन्यूट का शासन न केवल ईंगलैंड वरन् समस्त नॉरवे और डेनमार्क तक फैला हुआ था, परन्तु उसकी मृत्यु के उपरान्त यह क्षणिक साम्राज्य वंश जातियों में प्रचलित उत्तराधिकारियों की राज्य-विभाजन-प्रथा-रूपी राजनैतिक दुर्बलता के कारण शीघ्र ही छिन्न-भिन्न हो गया। उत्तरीय लोगों के इस क्षणिक ऐक्य के इस चिरस्थायी हो जाने पर क्या क्या घटनाएँ घटित होतीं, इसके चिंतनमात्र से हृदय अनुरंजित होने लगता है। वे एक अत्यन्त शूर तथा शक्तिशाली जाति के लोग थे। पतवारों द्वारा खेये जानेवाले अपने एक खन के जहाजों में बैठकर ही वे आइसलैंड और ग्रीनलैंड तक जा पहुँचे थे। यूरोप की इसी जाति ने अमेरिका की भूमि में सर्वप्रथम पदार्पण किया था। कालांतर में इन्हीं साहसी नॉर्मन जातीय पुरुषों ने सिसली नामक द्वीप को 'मूरों' (सारासेन-मुसलमानों) से छीन लिया और रोम नगर को खूब लूटा। कैन्यूट का राज्य ही वृद्धि पाकर या अमेरिका से रूस पर्यन्त फैलकर इन समुद्रवलप्रधान उत्तरीय जातियों को किस प्रकार शक्तिशालिनी बना देता, इसके ध्यान-मात्र से चित्त विस्मित हो उठता है।

जर्मन और लैटिन सभ्यतानुयायी अन्य यूरोपीय जातियों के पूर्व की ओर 'स्लाव' कबीलों तथा तुर्क जातियों का जमघट था, परन्तु इनमें मग या हंगेरियन कहलानेवाली जाति विशेषतया उल्लेखयोग्य है जो समस्त आठवीं और नवीं शताब्दी पर्यन्त पश्चिम ही की ओर अग्रसर हो रही थी। शार्लमेन (महान् चार्ल्स) ने तो इनका वेग कुछ काल पर्यन्त अवश्य रोका परन्तु उसकी मृत्यु के उपरान्त आधुनिक हंगेरी प्रदेश में बसकर इन लोगों ने सजातीय पूर्वपुरुष हूणों की भाँति यूरोप के सुव्यवस्थित भू-खण्डों पर प्रत्येक वर्ष ग्रीष्म ऋतु में आक्रमण कर लूट मार करना प्रारम्भ कर दिया था। ९३८ में तो ये लोग जर्मन देश में होते हुए फ्रांस में जा पहुँचे और फिर वहाँ से नगरों को जलाने और प्रजा के लूटते-खसोटते आल्प्स पर्वत-माला को पार कर उत्तरीय इटैली की राह अपने देश को लौट गये।

अन्तिम शत्रु-समूह मुसलमान-समुदाय था जो दक्षिण दिशा की ओर से रोम-साम्राज्य के चिह्न तक चूँछित करने का प्रयत्न कर रहा था। कहना चाहिए कि इन लोगों ने भी समुद्रों पर अपना पूर्ण अधिकार सा जमा रक्खा था; केवल उत्तरीय पुरुष—अर्थात् कृष्ण समुद्र की उत्तरीय रूसी जाति और पश्चिमोत्तरीय पुरुष ही—जलबल में इनके उग्र प्रतिद्वंद्वी थे।

इन अधिक शक्तिशाली एवं प्रथमाक्रमणकारी जातियों, अज्ञात शक्तियों तथा विविध अनिरूपित आपदाओं से परिचेष्टित होते हुए शार्लमेन तथा उसकी मृत्यु के उपरान्त अन्य यशस्काम आत्माओं ने, पवित्र रोम-साम्राज्य के नाम से पश्चिमीय साम्राज्य के पुनरुत्थान-रूपी नाटक के अभिनय करने का निष्फल प्रयत्न किया था। इधर तो शार्लमेन के पश्चात् पश्चिमीय यूरोप के राजनैतिक जीवन पर उपरोक्त प्रयत्न-रूपी भूत की सनक सवार हुई और उधर पूर्व में रोम-साम्राज्य के यूनानदेशस्थ अर्ध भाग की शक्ति का दिन-प्रतिदिन हास होने लगा, यहाँ तक कि अन्त में दूषित व्यापारप्रधान कुस्तुनुनिया नगर तथा उसके चारों ओर की कतिपय वर्गमील भूमि के अतिरिक्त उस साम्राज्य के अधीन कुछ भी शेष न रहा। शार्लमेन के समय से लेकर अगले सहस्र वर्ष पर्यन्त यूरोप महाद्वीप राजनैतिक दृष्टि से परम्परागामी एवं कल्पनाहीन बना रहा।

शार्लमेन का नाम अत्यन्त व्यापक होते हुए भी यूरोपीय इतिहास में उसका व्यक्तित्व अतीव अस्पष्टतया दृष्टिगोचर होता है। लिखने और पढ़ने में स्वयं असमर्थ होने पर भी सम्राट् के हृदय में विद्वानों के प्रति अत्यन्त श्रद्धा और भक्ति थी; भोजन के समय किसी पुस्तक का उच्च स्वर से पाठ सुनना उसको बहुत रुचता था, धार्मिक वाद-विवाद से भी उसे प्रेम था। शिशिर ऋतु में आइ-ला-शापेल तथा मेयन्स नगर के वास्तव-स्थान में सम्राट् विद्वानों की गोष्ठी में बैठकर उनके पारस्परिक वार्तालाप ही से तद्विषयक बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त कर लेते थे और ग्रीष्म ऋतु के आगमन पर, उनका स्नानदेशीय मुसलमानों, स्लाव, मग और प्रतिमा-पूजक अवशेष जर्मन जातियों से पुनः युद्ध ठन जाता था। यह बात संदिग्ध है कि रोम्युलस आगस्टस के पश्चात् सीज़र बनने की अभिलाषा उनके हृदय में उत्तरी इटैली अधीन करने से प्रथम, स्वयं उत्पन्न हुई अथवा पोप लियो तृतीय ने मुम्बाई जॉ लैटिनीय क्रिश्चियन सम्प्रदाय का कुस्तुनुनिया से विच्छेद कराने का इच्छुक था।

कारण यह कि भावी सम्राट् को राजमुकुट पोप द्वारा समर्पित हुआ या नहीं इसका नर्था गुप्त रखने के लिए रोम नगर में इस समय अत्यन्त असाधारण युक्तियों से काम लिया गया था। अन्त में मन् ८०० के क्रिन्मन (अर्थात् २५ दिसम्बर) को रोम नगर के

प्रसिद्ध गिरजा सेंट पीटर में इस दर्शक विजेता को प्रार्थना करते समय पोप ने महत्सा राज-मुकुट पहिराने में सफलता प्राप्त की। राजमुकुट लाया गया और शार्लमेन के मस्तक पर रखकर पोप ने उसको सीज़र तथा अगस्टस के नाम से सम्बोधित किया। जनता ने भी इस कृति पर सहर्ष करतलध्वनि की। शार्लमेन को यह कार्यप्रणाली न रुची और पराजय-सदृश यह घटना उसके हृदय में सदा शल्य की भाँति खलती रही यहाँ तक कि अपने पुत्र के लिए इस सम्बन्ध में वह अत्यन्त सावधानता से सर्वथा-पूर्ण उपदेश भी छोड़ गया था कि वह पोप को अपने मस्तक पर राजमुकुट धरने का अवकाश ही न दे, वरन स्वयं राज-मुकुट ग्रहण कर अपने हाथों से मस्तक पर धारण कर ले। इसका फल यह हुआ कि सम्राट् पद के पुनर्जाँवित होते ही पोप और सम्राट् के मध्य श्रेष्ठता के प्रश्न पर शताब्दियों तक चलनेवाला कलह उत्पन्न हो गया। परन्तु पिता की आज्ञा न मानकर शार्लमेन का पुत्र, जो पवित्र लुई के नाम से विख्यात हुआ, स्वयमेव सम्पूर्णतया पोप का वशवर्त्ता हो गया।

पवित्र लुई के देहावसान पर शार्लमेन का साम्राज्य छिन्न-भिन्न, और फ्रेंचभाषी तथा जर्मनभाषी फ्रैंक जातियों का पारस्परिक भेद और भी अधिक हो गया। इसके पश्चात् सैक्सनजातीय अॉटो, सम्राट् पद पर प्रतिष्ठित हुआ। वह हैनरी का पुत्र था जिसका उपनाम 'फ़ाउलर' था। जर्मनदेशीय राजकुमारों तथा पादरियों ने उसको अपनी सभा में (९१९ में) जर्मन देश का राजा निर्वाचित किया था। अॉटो ने रोम पर आक्रमण किया और ९६२ ई० में सम्राट् पद पर उसका अभिषेक किया गया। ग्यारहवीं शताब्दी के पूर्व भाग में इस सैक्सन वंश का अन्त हो जाने पर अन्य जर्मन शासकगण इनके स्थान में आ डटे। फ्रेंच (वोली) वोलनेवाले पश्चिमीय सामन्त राजपुत्रों तथा सरदारों ने कार्लोविजियन वंश-अर्थात् शार्लमेन के वंशजों—का अन्त हो जाने पर भी इन जर्मन सम्राटों की अधीनता कभी स्वीकार न की और न ब्रिटेन का कोई भू-भाग ही कभी इस पवित्र रोम-साम्राज्य का अंश बना। नार्मण्डी के ड्यूक, फ्रांस के राजा तथा अन्य कतिपय लुद्र जागीरदार शासकगण इसके बाहर ही रहे।

फ्रांस, ९८७ ई० में, शार्लमेन के वंशजों के हाथ से निकलकर ह्यूकैपेट की अधीनता में आ गया और इसी व्यक्ति के वंशधर वहाँ अठारहवीं शताब्दी पर्यन्त राज्य करते रहे। परन्तु ह्यूकैपेट के समय में फ्रांस के राजा का हुकूमत पैरिस नगर तथा उसके चारों ओर के कुछ भू-भाग तक ही परिमित थी।

हेराल्ड हैड्राडा नामक राजा की अध्यक्षता में नारवे के उत्तरीय पुरुषों ने और नार्मण्डी के ड्यूक की अधीनता में लैटिन सभ्यतानुयायी उत्तरीय पुरुषों ने इंग्लैंड पर, प्रायः एक ही समय, आक्रमण किया (१०६६ ई०)। प्रथम आक्रमणकारियों को तो

इंग्लैंड के राजा हैराल्ड ने स्टेम-फोर्ड-ब्रिज नामक स्थान में पराजित किया परन्तु द्वितीय शत्रु का हेस्टिंग्स नामक स्थान में सामना करने पर वह स्वयं मारा गया और अँगरेज़ सेना को हार माननी पड़ी। नार्मन जाति द्वारा इस प्रकार विजित होने पर इंग्लैंड का स्कैंडेनेविया, रूस तथा ट्यूटन देशों से संपर्क न रहा और फ्रांस से मैत्री तथा शत्रुता का गाढ़ सम्बन्ध स्थापित हुआ। और अगली चार शताब्दियों तक अँगरेज़ लोग फ्रांसीसी जागीरदार राजकुमारों के पारस्परिक झगड़ों में फँसकर फ्रांस के मैदानों में नष्ट-भ्रष्ट होते रहे।

## धर्मयुद्ध और पोप के उपनिवेशों का समय

यह मनोहर वार्ता भी स्मरण रखने योग्य है कि शार्लमेन और खलीफा हारूँउल-रशीद—अलिफ़लैला में वर्णित हारूँरशीद—एक दूसरे के समसामयिक थे। इसके लेख-वद्ध प्रमाण मिलते हैं कि खलीफा ने बग़दाद से—जहाँ दमिश्क से हटाकर मुसलमान साम्राज्य की राजधानी स्थापित की गई थी—दूतों द्वारा एक सुन्दर डेरा, जल-घटिका, हाथी और पवित्र समाधि अर्थात् ईसा मसीह की कब्र की कुंजियाँ यूरोपीय सम्राट् के दरवार में उपहार-रूप से भिजवाई थीं। अन्तिम उपहार तो केव त्रैजुनएटाइन तथा 'नर्वान' पवित्र रोम-साम्राज्य को कान पकड़कर चुनौती देते हुए इस श्लाघनीय अभिप्राय से भेजा गया था कि उनको ज्ञात हो जाय कि जैसलम के क्रिश्चियन धर्मावलम्बी वास्तव में किसके आश्रित हैं।

इन उपहारों से हमको स्मरण हो आता है कि नवीं शताब्दी में यूरोप महाद्वीप जिस समय पारस्परिक युद्ध तथा लूट-खसोट-रूपी समुद्र-तरंग में प्लावित हो रहा था, उसी समय मिस्र और मैसोपोटामिया तक विस्तृत सभ्य श्रव्य साम्राज्य की - जिसके सामने यूरोप की समस्त सभ्यता नगण्य थी—दिन प्रतिदिन पुष्पोद्यानवत् श्री-वृद्धि हो रही थी। साहित्य और विज्ञान वहाँ पर श्रव्य भी जीवित थे; कला-कौशल की उत्तरोत्तर उन्नति हो रही थी और मनुष्यों के मस्तिष्क भय तथा अन्ध-विश्वास से विहीन थे। स्पेन और उत्तरीय अफ्रीका में भी जहाँ मुसलमान-साम्राज्य दिन-प्रतिदिन राजनैतिक श्राजकता के गड़हे में धँसता जाता था, मानसिक जीवन अत्यन्त ही प्रवल एवं दृढ़ था। इन समस्त शताब्दियों में जब समस्त यूरोप पर अन्धकार का गहरी घटा छा रही थी, श्रव्य और यद्दी जातियाँ ऐरिस्ट्रैटिल नामक प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक के ग्रंथों का अध्ययन एवं उनपर वादाविवाद कर रही थीं। और इस प्रकार इन लोगों के द्वारा भौतिक विज्ञान तथा दर्शन शास्त्र के उपेक्षित बीजों की रक्षा हुई।



खलीफा के राज्य के पूर्वोत्तर कोण में बहुत सी तुर्क जातियाँ निवास करती थीं। दक्षिणवासी प्रयत्नशील और उत्तम मस्तिष्कवाले अरबों, तथा पारसियों की अपेक्षा इन लोगों का विश्वास इस्लाम धर्म में, जिसको इन्होंने स्वीकृत कर लिया था, कहीं अधिक सरल एवं उग्र था। दशवीं शताब्दी में एक और तो यह तुर्क जातियाँ प्रबल शक्ति-शालिनी हो रही थीं और दूसरी ओर अरबों का बल विभक्त एवं क्षीण हो रहा था। चौदह शताब्दी पूर्व बैविलोन साम्राज्य में जो स्थान मेद नामक जाति का था वही अब खलीफा के शासनकाल में इन तुर्कों ने प्राप्त कर लिया। ग्यारहवीं शताब्दी में मलजुक तुर्कों के एक कबीले ने मैसोपोटामिया में घुसकर खलीफा का नाममात्र का स्वामी परन्तु वास्तव में बन्दी और अपने हाथ की कठपुतली बना लिया। फिर, आर्मीनिया विजयोपरान्त इन्होंने एशिया माइनर नामक प्रदेश में जाकर जैज़एटाइन साम्राज्य के अवशेषों का अन्त कर डाला; और १०७१ में मेलासगर्द के युद्ध में जैज़एटाइन राज्य की सेना संपूर्णतया दलित हो गई और तुर्कों ने इस प्रबल वेग से धावा बोला कि एशिया में जैज़एटाइन राज्यसत्ता का चिह्न तक शेष न रहा। फिर निशिया (Nicaea) नामक दुर्ग को कुस्तुनतुनिया से छीनकर वे लोग स्वयं कुस्तुनतुनिया को हस्तगत करने में कटिबद्ध हो गये।

जैज़एटाइन सम्राट् 'सतम माइकेल' इस समय अत्यन्त भयभीत हो रहा था। एक ओर तो वह दुराज्जो नामक स्थान को अधिकृत करनेवाले नार्मन जाति के एक समुदाय से घोर युद्ध में घिरा हुआ था और दूसरी ओर उसके डैन्यूव पर आक्रमण करनेवाली पेंटशेनेग नामक एक भयङ्कर तुर्की जाति से मुक्ताविला लेना पड़ रहा था। सम्राट् ने विवश हो सभी से सहायता की याचना की परन्तु यह बात स्मरण रखने योग्य है कि 'पश्चिमीय सम्राट्' के सम्मुख हाथ न फैलाकर उसने लैटिनीय क्रिश्चियन सम्प्रदाय के प्रमुख - रोम के पोप—से ही इस सम्बन्ध में साहाय्य की प्रार्थना की थी। और पोप सतम ग्रैगरी तथा उसके उत्तराधिकारी ऐलैक्सिसस कामनेनस एवं 'द्वितीय-अरबन से तो उसने अत्यन्त ही आग्रह किया था।

यूनानी और लैटिन क्रिश्चियन संप्रदायों में पारस्परिक भेद हुए अभी पूरे पच्चीस वर्ष न हुए थे। तत्कालीन वादाविवाद को लोग इस समय तक न भूले थे। जनता के चित्त में उसकी स्मृति अब भी हरी थी। जैज़एटाइन अथवा जैज़एटाइन साम्राज्य पर यह आपदा गिरी देख पोप ने अवश्य ही अपने चित्त में विरोधी यूनानियों के हृदयों पर लैटिनीय सम्प्रदाय की महत्ता का सिक्का बैठाने का इसको एक अच्छा अवसर समझा। इसके अतिरिक्त इस घटना से पोप को दो समस्याओं के सुलभाने का अवसर भी प्राप्त


हुआ जो पश्चिमीय क्रिश्चियन साम्राज्य को अत्यन्त ही पीड़ित कर रही थी। इनमें प्रथम समस्या थी—वैयक्तिक युक्त युद्ध करने की प्रणाली जिससे सामाजिक व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो रही थी और द्वितीय समस्या थी—लो जर्मन तथा क्रिश्चियन धर्म में दीक्षित उत्तरीय पुरुषों ( Northmen ) और उनमें भी विशेषतया फ्रैंक और नार्मन जाति की असीम युद्ध-शक्ति। इनको मुलभाने के लिए अब जेरुसलम के तुर्कों विजेताओं के विरुद्ध धार्मिक युद्ध—अर्थात् क्रूसेड्स और क्रिश्चियन लोगों के वैयक्तिक युद्धों में क्षणिक अथवा अस्थायी संधि की घोषणा कर दी गई। पवित्रसमाधि अर्थात् ईसा मसीह की कब्र को नास्तिकों से छीनकर अपने अधीन करना इस युद्ध का उद्देश्य था। पीटरनामक एक यति ने समस्त फ्रांस और जर्मनी में घूमकर इसका अत्यन्त विशद और सार्वलौकिक विधि से खूब ही प्रचार किया। मोटे मोटे बख पहिरे, नंगे पैर गदहे पर सवार हो, एक भारी क्रूस (Cross) वहन किये हुए यह व्यक्ति गली, हाट, गिरजाघर-सभी स्थानों में सर्वसाधारण के सम्मुख उद्वेगजनक भाषण देता था। वह क्रिश्चियन यात्रियों के साथ तुर्कों के निर्दय व्यवहार की भर्त्सना करता और पवित्र समाधि पर क्रिश्चियनाभिभिन्न मतावलंबियों के अधिकार को लज्जा-जनक बताकर धिक्कारता था। शताब्दियों से दिये जा रहे खीष्टधर्मीय उपदेशों का प्रतिफल भी अब व्यावहारिक रूप से व्यक्त हो गया। उत्साह की तुल्य तरङ्ग ने समस्त पश्चिमीय संसार को प्लावित करके लोक-सम्मत क्रिश्चियन धर्म ( Popular Christendom ) की धारा प्रवाहित कर दी।



एक्लेटर केचेडल में धार्मिक युद्ध में काम आये व्यक्तियों की समाधि

एक, केवल एक भाव के कारण जनसाधारण में इस प्रकार इतना विशद और विस्तृत क्षोभ उत्पन्न हो जाना भी हमारी अर्थात् मानवजाति की इतिहास-गाथा में एक नवीन बात थी। रोम, चीन अथवा भारत के पूर्वतिहासों में भी इसके सदृश कोई घटना दृष्टिगोचर

नहीं होती। वैविलोन राज के वन्दित्व से छुटकारा पाने के उपरान्त प्राचीन काल में यहूदियों ने ऐसे छोटे छोटे आन्दोलन अग्रश्य किये थे और आगे चलकर इसलाम ने भी साधिक भावों को उत्साहित करने की क्षमता दिखाई। इन प्रगतियों का सम्बन्ध उन नवीन



कैरो का दृश्य

पार एव मिथ्या विज्ञान ही था; प्राचीन धर्म मन्दिरों, दीक्षित-पुजारियों तथा रहस्यमय बलिदानों पर अवलम्बित था और भय-प्रदर्शन द्वारा जनसाधारण पर दासवत् शासन करता था। नवीन रीति से धर्म-प्रचार द्वारा ही जनता में वास्तविक मनुष्यत्व आया है।

भावों में है जो धर्मोपदेश द्वारा प्रसारित संप्रदाय की वृद्धि में उत्पन्न होने हैं। यहूदी पैगम्बर (ईश्वरीय दूत यीशु मसीह तथा उनके शिष्य-वर्ग मानी और मुहम्मद सभी मनुष्यात्माओं को व्यक्तिगत रूपसे प्रोत्साहन देने-वाले थे। यही महापुरुष मनुष्यात्मा को व्यक्तिगत रूप से ईश्वर के सम्मुख लाये। इससे प्रथम धर्म, आत्मा का विषय न होकर बहुत करके केवल ऐन्द्रजालिक व्या-

प्रथम क्रूसेड अथवा धर्मयुद्ध के उपदेश द्वारा ही, यूरोपीय इतिहास में जनसाधारण के सर्वप्रथम प्रोत्साहन मिला था। उसके आधुनिक प्रजातन्त्रवाद का जन्मदाता कहना तो अत्युक्ति है; परन्तु यह बात निःमद्कोच लिखी जा सकती है कि प्रजातन्त्रवाद का भली भाँति उन्मथन उसी समय हुआ। हम शीघ्र ही देखेंगे कि इन्हीं उच्चैजनाओं के द्वारा विप्लवकारी घोर सामाजिक एवं धार्मिक समस्याएँ भविष्य में पुनः उत्पन्न हो गईं।

जनसाधारण के इस प्रथम प्रोत्साहन का तब निस्सन्देह अत्यन्त ही करण एवं शोचनीय विधि से अन्त हुआ। जनसाधारण के समूह के समूह, जिनका सेनाएँ न कहकर भीड़-भाड़ कहना ही अधिक उचित होगा, फ्रांस, रूढ़ान और मध्य यूरोप से वे सरोसामान, बिना किसी नायक की प्रतीक्षा किये हुए—पवित्र समाधि का पुनरुद्धार करने के लिए यों ही पूर्व दिशा की ओर चल पड़े। यह था जन-साधारण का क्रूसेड अथवा धार्मिक युद्ध। दो बड़े बड़े जनसमूह भूल से हंगेरी में चले गये और वहाँ हाल ही में क्रिश्चियन धर्म-दीक्षित मग जातियों पर नास्तिकों के धोखे में अत्याचार करते हुए स्वयं मारे गये। इन्हीं के सदृश सम्भ्रान्तचित्त तृतीय जनसमूह रूढ़ानलैंड में यहूदी-जनसंहारोपरान्त पूर्व दिशा की ओर जाता हुआ हंगेरी में माग गया। इनके अतिरिक्त यति पीटर की अध्यक्षता में दो बड़े बड़े जनसमूहों का भी कान्स्टेंटिनोपिल में पहुँचने के पश्चात्—वास्फोरस का जल-ग्रीव पार करने के अनन्तर सलजूक तुर्कों द्वारा—पराजय न होकर कहना चाहिए कि संहार ही हुआ। इस प्रकार जनता द्वारा प्रोत्साहित यूरोपीय जनसाधारण की प्रगति का प्रारम्भ तथा अन्त हुआ।


अगले वर्ष (१०९७) नार्मन जाति के नेतृत्व में और उन्हीं के सदृश भावोद्भावित वास्तविक सैन्यदल ने पुनः वास्फोरस पार किया। भूभावात के समान नीशिया पर आक्रमण कर, चौदह शताब्दी पूर्व महान एलेक्जेंडर जिस पथ से गया था उसी का अनुसरण करते हुए ये लोग ऐन्टीओक की ओर चल दिये। एक वर्ष तक इस नगर का मुहासिरा करने के पश्चात् जून १०९९ को ईसाई सैन्यदल जेरुसलम जा धमका। एक मास के मुहासिरे के अनन्तर प्रबल आक्रमण द्वारा यह नगर हस्तगत किया गया। जनसंहार लोमहर्षक था। अश्वारोहियों के चलने पर घोड़ों की टाँगों द्वारा नटुकों में रक्तधाराएँ विस्कालित होती थीं। रात्रि होते होते पन्द्रह जुलाई को यह धार्मिक सैनिक लड़ते-भिड़ते पवित्र समाधि वाले गिरजाघर में जा पहुँचे। और वहाँ विरोधियों का सर्वथा शमन कर, रक्तरोब्जित धके-माँदे और “हर्पातिरेक से आँसू बहाते हुए” ये लोग घुटने टेककर प्रार्थना में लवलीन हो गये।

प्राचीन लैटिन और ग्रीक विद्वेषाग्नि पुनः शीघ्रतया भड़क उठी। धार्मिक सैनिक (Crusaders) लैटिनीय चर्च के अनुयायी थे। जेरुसलम के कुलपति (Patriarch) ने इन विजयी लैटिन लोगों की अधीनता में अपने को तुर्कों के समय से कहीं अधिक बुरी दशा में पाया। धार्मिक सैनिकों ने इस समय अपने को—वैज़एटाइन और तुर्क—दो शत्रुओं के मध्य पाया और दोनों से ही उनको सामना करना पड़ रहा था। वैज़एटाइन साम्राज्य का एशिया माइनर के अधिक भूभाग पर श्रव पुनः अधिकार हो गया और लैटिन राजकुमारों के पाम केवल जेरुसलम और कुछ एक छोटी राजधानियाँ शेष रह गईं जिनमें सीरिया प्रान्त का ऐडेसा विशेषतया उल्लेखनीय है। यह यूरोपीय नेता तुर्क

और ग्रीक जातियों के मध्य 'घर की भाँति' थे (घर उस यंत्र को कहते हैं जो दो पिंटों के संघर्ष को रोकता है)। उपरोक्त स्थानों पर लैटिनीय राजकुमारों का अधिकार संशय-ग्रस्त था और ११४४ में 'ऐडेसा मुसलमानों के हस्तगत हो गया जिसके कारण ईसाइयों ने द्वितीय निष्फल धार्मिक युद्ध तुर्कों के विरुद्ध बोल दिया। इसके द्वारा वे अर्थात् क्रिश्चियन जातियाँ ऐडेसा का तो पुनरुद्धार न कर सकीं परन्तु ऐन्टिओक हस्तान्तरित होने से अवश्य रुक गया।

ई० स० ११६९ में इसलाम की समस्त शक्ति

सेंट मार्क के घोड़े, वेनिस  
मिस्र-विजेता सलाहउद्दीन नामक एक कुर्द जातीय साहसी योद्धा की अधीनता में केन्द्रीभूत हुई। इस वीर पुरुष ने ईसाइयों के विरुद्ध धार्मिक युद्ध (जहाद) घोषित कर




११८७ में जेरुसलम पर पुनः अधिकार कर लिया। यही तृतीय क्रसेड का कारण था, परंतु यह (तृतीय धार्मिक युद्ध) जेरुसलम का पुनरुद्धार न कर सका। लैटिन-सम्प्रदाय ने चतुर्थ क्रसेड (१२०२-१२०४) खुल्लमखुल्ला ग्रीक साम्राज्य के विरुद्ध किया था। उसमें तुर्कों से नाम मात्र को भी युद्ध न छिड़ा। वेनिस नगर से उसका प्रारंभ हुआ था और उसी ने १२०४ में कांस्टेंटिनोपिल को अधिकृत कर लिया। महान् प्रतिभाशाली एवं व्यापारिक नगर वेनिस ही इस साहसी कृत्य में अग्रणी था और वैज़रगटाइन साम्राज्य की बहुत अधिक तट-भूमि तथा द्वीपसमूह वेनिस-निवासियों के अधिकार में आ गये और 'लैटिनीय सम्राट्' (फ्लैंडर्स-निवासी वाल्डविन) को कांस्टेंटिनोपिल के सिंहासन पर बैठाकर 'लैटिन' और 'ग्रीक' सम्प्रदायों (चर्च) का पुनः एकीकरण घोषित कर दिया गया। इन सम्राटों ने १२०४ से १२६१ तक कांस्टेंटिनोपिल में शासन किया। तत्पश्चात् ग्रीक लोगों ने रोम के आधिपत्य से अपना पीछा छुड़ा लिया।

दसवीं शताब्दी में जिस प्रकार उत्तरीय पुरुषों (Northmen) और ग्यारहवीं शताब्दी में सलज़ुक नामक तुर्क जाति का उत्कर्ष हुआ था उसी प्रकार बारहवीं शताब्दी से तेरहवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों तक पोपों का उन्नत काल रहा (इस समय इन्होंने स्वयं ही ऐश्वर्य भोग किये)। इससे प्रथम अथवा उसके पश्चात्—पोपों का शासन—सम्मिलित क्रिश्चियन संसार पर इससे अधिक वास्तविक एवं व्यावहारिक रूप में कभी स्थापित न हुआ।

उन शताब्दियों में सरल क्रिश्चियन धर्म यूरोप के बहुत अधिक भूभाग में वास्तविक एवं विशद रूप से विस्तृत था। स्वयं रोम की स्थिति कई बार तामसिक एवं गहिल रही थी। दसवीं शताब्दी के ग्यारहवें तथा बारहवें 'जौहन' नामक पोपों के जीवन का अच्छा कहनेवाला शायद ही कोई लेखक मिल सके; वह तो धीर नारकी थे। परन्तु लैटिनीय-क्रिश्चियन राज्य-रूपी देह का हृदय-प्रदेश फिर भी उस समय तक सरलोत्साह एवं श्रद्धा से परिपूरित था और साधारण पुरोहितों (पादरियों) तथा मठाधिवासी नर-नारियों के जीवन प्रायः सर्वत्र ही शुद्ध और आदर्श रहे। इन (सात्त्विक) जीवनों द्वारा उत्पादित प्रचुर श्रद्धारूपा सम्पत्ति ही क्रिश्चियन चर्च (पंथ) के चल का आधार थी। प्राचीन काल के प्रसिद्ध पोपों में महान् ग्रैगरी अर्थात् ग्रैगरी प्रथम (५९०—६०१) और शार्न मेन को सांज़र बनाने के लिए आमन्त्रित कर उसकी उच्छ्वा के विरुद्ध मुकुट पट्टिगर्नवाले 'तृतीय लियो' (७९५—८१६) के नाम विशेषतया उल्लेखनीय हैं। बारहवीं शताब्दी के अन्तिम भाग में हिल्डेब्राड नाम का अत्यन्त महान् राजनीतिज्ञ पादरी उत्पन्न हुआ था जिसने सतम ग्रैगरी (१०७३-१०८५) के नाम से पोप पद पर प्रतिष्ठित हो अपनी जीवन

प्राचीन लैटिन और ग्रीक विद्वेषाग्नि पुनः शीघ्रतया भड़क उठी। धार्मिक सैनिक (Crusaders) लैटिनीय चर्च के अनुयायी थे। जेरुसलम के कुलपति (Patriarch) ने इन विजयी लैटिन लोगों की अधीनता में अपने को तुर्कों के समय से कहीं अधिक बुरी दशा में पाया। धार्मिक सैनिकों ने इस समय अपने को—वैज़ण्टाइन और तुर्क—दो शत्रुओं के मध्य पाया और दोनों से ही उनके सामना करना पड़ रहा था। वैज़ण्टाइन साम्राज्य का एशिया माइनर के अधिक भूभाग पर अब पुनः अधिकार हो गया और लैटिन राजकुमारों के पास केवल जेरुसलम और कुछ एक छोटी राजधानियाँ शेष रह गईं जिनमें सीरिया प्रान्त का ऐडेसा विशेषतया उल्लेखनीय है। यह यूरोपीय नेता तुर्क



सेंट मार्क के घोड़े, वेनिस

मिस्त्र-विजेता सलाहउद्दीन नामक एक कुर्द जातीय साहसी योद्धा की अधीनता में केन्द्रीभूत हुई। इस वीर पुरुष ने ईसाइयों के विरुद्ध धार्मिक युद्ध (जहाद) घोषित कर

और ग्रीक जातियों के मध्य 'घर की भाँति थे (वक्र उस यंत्र को कहते हैं जो दो पिंडों के संघर्ष को रोकता है)। उपरोक्त स्थानों पर लैटिनीय राजकुमारों का अधिकार संशयग्रस्त था और ११४४ में 'ऐडेसा' मुसलमानों के हस्तगत हो गया जिसके कारण ईसाइयों ने द्वितीय निष्फल धार्मिक युद्ध तुर्कों के विरुद्ध बोल दिया। इसके द्वारा वे अर्थात् क्रिश्चियन जातियाँ ऐडेसा का तो पुनरुद्धार न कर सकीं परन्तु ऐन्टिओक हस्तान्तरित होने से अवश्य बच गया।

ई० स० ११६९ में

इस्लाम की समस्त शक्ति


११८७ में जेरुसलम पर पुनः अधिकार कर लिया। यही तृतीय क्रसेड का कारण था, परन्तु यह (तृतीय धार्मिक युद्ध) जेरुसलम का पुनरुद्धार न कर सका। लैटिन-सम्प्रदाय ने चतुर्थ क्रूसेड (१२०२-१२०४) खुल्लमखुल्ला ग्रीक साम्राज्य के विरुद्ध किया था। उसमें तुर्कों से नाम मात्र को भी युद्ध न छिड़ा। वेनिस नगर से उसका प्रारंभ हुआ था और उसी ने १२०४ में कांस्टेंटिनोपिल को अधिकृत कर लिया। महान् प्रतिभाशाली एवं व्यापारिक नगर वेनिस ही इस साहसी कृत्य में अग्रणी था और वैज़एटाइन साम्राज्य की बहुत अधिक तट-भूमि तथा द्वीपसमूह वेनिस-निवासियों के अधिकार में आ गये और 'लैटिनीय सम्राट्' ( फ्लैंडर्स-निवासी वाल्डविन ) के कांस्टेंटिनोपिल के सिंहासन पर बैठकर 'लैटिन' और 'ग्रीक' सम्प्रदायों ( चर्च ) का पुनः एकीकरण घोषित कर दिया गया। इन सम्राटों ने १२०४ से १२६१ तक कांस्टेंटिनोपिल में शासन किया। तत्पश्चात् ग्रीक लोगों ने रोम के आधिपत्य से अपना पीछा छुड़ा लिया।

दसवीं शताब्दी में जिस प्रकार उत्तरीय पुरुषों ( Northmen ) और ग्यारहवीं शताब्दी में सलजूक नामक तुर्क जाति का उत्कर्ष हुआ था उसी प्रकार बारहवीं शताब्दी से तेरहवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों तक पोपों का उन्नत काल रहा ( इस समय इन्होंने खूब ही ऐश्वर्य भोग किये )। इससे प्रथम अथवा इसके पश्चात्—पोपों का शासन—सम्मिलित क्रिश्चियन संसार पर इससे अधिक वास्तविक एवं व्यावहारिक रूप में कर्मा स्थापित न हुआ।

उन शताब्दियों में सरल क्रिश्चियन धर्म यूरोप के बहुत अधिक भूभाग में वास्तविक एवं विशद रूप से विस्तृत था। स्वयं रोम की स्थिति कई बार तामसिक एवं गहित रही थी। दसवीं शताब्दी के ग्यारहवें तथा बारहवें 'जौहन' नामक पोपों के जीवन के अच्युत कहनेवाला शायद ही कोई लेखक मिल सके; वह तो घोर नारकी थे। परन्तु लैटिनीय-क्रिश्चियन राज्य-रूपी देह का हृदय-प्रदेश फिर भी उस समय तक सरलोत्साह एवं श्रद्धा से परिपूरित था और साधारण पुरोहितों ( पादरियों ) तथा मठाधिवासी नर-नारियों के जीवन प्रायः सर्वत्र ही शुद्ध और आदर्श रहे। इन ( सात्विक ) जीवनों द्वारा उत्पादित प्रचुर श्रद्धारूपी सम्पत्ति ही क्रिश्चियन चर्च ( पंथ ) के बल का आधार थी। प्राचीन काल के प्रसिद्ध पोपों में महान् ग्रैगरी अर्थात् ग्रैगरी प्रथम ( ५९०—६०४ ) और शार्ल-मेन को सीज़र बनाने के लिए आमन्त्रित कर उसकी इच्छा के विरुद्ध मुकुट पहिरानेवाले 'तृतीय लियो' ( ७९५—८१६ ) के नाम विशेषतया उल्लेखनीय हैं। ग्यारहवीं शताब्दी के अन्तिम भाग में हिल्डेब्रांड नाम का अत्यन्त महान् राजनीतिज्ञ पादरी उत्पन्न हुआ था जिसने सतम ग्रैगरी ( १०७३-१०८५ ) के



प्राचीन लैटिन और ग्रीक विद्वेषाग्नि पुनः शीघ्रतया भट्क उठी। धार्मिक सैनिक (Crusaders) लैटिनीय चर्च के अनुयायी थे। जेरुसलम के कुलपति (Patriarch) ने इन विजयी लैटिन लोगों की अधीनता में अपने को तुर्कों के समय से कहीं अधिक बुरी दशा में पाया। धार्मिक सैनिकों ने इस समय अपने को—वैज़ग्टाइन और तुर्क—दो शत्रुओं के मध्य पाया और दोनों से ही उनको सामना करना पड़ रहा था। वैज़ग्टाइन साम्राज्य का एशिया माइनर के अधिक भूभाग पर अब पुनः अधिकार हो गया और लैटिन राजकुमारों के पास केवल जेरुसलम और कुछ एक छोटी राजधानियाँ शेष रह गईं जिनमें सीरिया प्रान्त का ऐडेसा विशेषतया उल्लेखनीय है। यह यूरोपीय नेता तुर्क



सेट मार्क के घोड़े, वेनिस

मिश्र विजेता सलाहउद्दीन नामक एक कुर्द जातीय साहसी योद्धा की अधीनता में केन्द्रीभूत हुई। इस वीर पुरुष ने ईसाइयों के विरुद्ध धार्मिक युद्ध (जहाद) घोषित कर

और ग्रीक जातियों के मध्य ध्वंस की भाँति थे (वफर उस यंत्र को कहते हैं जो दो पिंडों के संघर्ष को रोकता है)। उपरोक्त स्थानों पर लैटिनीय राजकुमारों का अधिकार संशयग्रस्त था और ११४४ में ऐडेसा मुसलमानों के हस्तगत हो गया जिसके कारण ईसाइयों ने द्वितीय निष्फल धार्मिक युद्ध तुर्कों के विरुद्ध बोल दिया। इसके द्वारा वे अर्थात् क्रिश्चियन जातियाँ ऐडेसा का तो पुनरुद्धार न कर सकी परन्तु ऐन्टिओक हस्तान्तरित होने से अवश्य रुक गया।


ई० स० ११६९ में

इस्लाम की समस्त शक्ति

११८७ में जेरुसलम पर पुनः अधिकार कर लिया। यही तृतीय क्रसेड का कारण था, परन्तु यह (तृतीय धार्मिक युद्ध) जेरुसलम का पुनरुद्धार न कर सका। लैटिन-सम्प्रदाय ने चतुर्थ क्रूसेड (१२०२-१२०४) खुल्लमखुल्ला ग्रीक साम्राज्य के विरुद्ध किया था। उसमें तुर्कों से नाम मात्र को भी युद्ध न छिड़ा। वेनिस नगर से उसका प्रारंभ हुआ था और उसी ने १२०४ में काँस्टेंटिनोपिल को अधिकृत कर लिया। महान् प्रतिभाशाली एवं व्यापारिक नगर वेनिस ही इस साहसी कृत्य में अग्रणी था और वैज़एटाइन साम्राज्य की बहुत अधिक तट-भूमि तथा द्वीपसमूह वेनिस-निवासियों के अधिकार में आ गये और 'लैटिनीय सम्राट्' (फ्लैंडर्स-निवासी वाल्डविन) को काँस्टेंटिनोपिल के सिंहासन पर बैठाकर 'लैटिन' और 'ग्रीक' सम्प्रदायों (चर्च) का पुनः एकीकरण घोषित कर दिया गया। इन सम्राटों ने १२०४ से १२६१ तक काँस्टेंटिनोपिल में शासन किया। तत्पश्चात् ग्रीक लोगों ने रोम के आधिपत्य से अपना पीछा हटा लिया।

दसवीं शताब्दी में जिस प्रकार उत्तरीय पुरुषों (Northmen) और ग्यारहवीं शताब्दी में सलजूक नामक तुर्क जाति का उत्कर्ष हुआ था उसी प्रकार बारहवीं शताब्दी से तेरहवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों तक पोपों का उन्नत काल रहा (इस समय इन्होंने खूब ही ऐश्वर्य भोग किये)। इससे प्रथम अथवा इसके पश्चात्—पोपों का शासन—सम्मिलित क्रिश्चियन संसार पर इससे अधिक वास्तविक एवं व्यावहारिक रूप में कर्मा स्थापित न हुआ।

उन शताब्दियों में सरल क्रिश्चियन धर्म यूरोप के बहुत अधिक भूभाग में वास्तविक एवं विशद रूप से विस्तृत था। स्वयं रोम की स्थिति कई बार तामसिक एवं गदित रही थी। दसवीं शताब्दी के ग्यारहवें तथा बारहवें 'जौहन' नामक पोपों के जीवन के अच्छा कहनेवाला शायद ही कोई लेखक मिल सके; वह तो बार बार नारकी थे। परन्तु लैटिनीय-क्रिश्चियन राज्य-रूपी देह का हृदय-प्रदेश फिर भी उस समय तक सरलोत्साह एवं श्रद्धा से परिपूरित था और साधारण पुरोहितों (पादरियों) तथा मठाधिवासी नर-नारियों के जीवन प्रायः सर्वत्र ही शुद्ध और आदर्श रहे। इन (सात्त्विक) जीवनों द्वारा उत्पादित प्रचुर श्रद्धारूपी सम्पत्ति ही क्रिश्चियन चर्च (पंथ) के बल का आधार थी। प्राचीन काल के प्रसिद्ध पोपों में महान् ग्रैगरी अर्थात् ग्रैगरी प्रथम (५९०—६०४) और शार्ल-मेन को सीज़र बनाने के लिए आमन्त्रित कर उसकी इच्छा के विरुद्ध मुकुट पहिनेवाले 'तृतीय लियो' (७९५—८१६) के नाम विशेषतया उल्लेखनीय हैं। ग्यारहवीं शताब्दी के अन्तिम भाग में हिल्डेब्रांड नाम का अत्यन्त महान् राजनीतिज्ञ पादरी उत्पन्न हुआ था जिसने सप्तम ग्रैगरी (१०७३-१०८५) के नाम से पोप पद पर प्रतिष्ठित हो अपनी जीवन-




लीला समाप्त की। उसके अनन्तर एक और (नगरण) पाप हुआ और उसके पश्चात् द्वितीय अरवन' नामक पाप के समय में ही (१०८७-१०९९) प्रथम धार्मिक युद्ध प्रारम्भ हुआ। इन्हीं दोनों अर्थात् ग्रैगरी सप्तम और अरवन द्वितीय नामक व्यक्तियों ने पापों की महत्ता का एक ऐसा युग प्रवर्तित कर दिया था कि उन्होंने सम्राटों पर भी अपना प्रभुत्व जमा लिया। दलमेरिया से आयरलैण्ड तक और नारवे से सिसली और जेरुसलम तक सब स्थानों में पाप ही सर्वोत्तम हो रहे थे—सर्वत्र इन्हीं की तृतीयांशता थी। इस सप्तम ग्रैगरी ने चतुर्थ हैनरी नामक सम्राट् को कैनेसा नामक स्थान में आने और अपने प्रासाद के चौक में शोक-सूचक वस्त्र पहिर वर्क पर तीन दिन और तीन रात्रि पर्यन्त नंगे पैर खड़े हो अपने कृत्य का पश्चात्ताप और उस पर क्षमा-याचना करने के लिए विवश कर दिया था। और ११७६ में सम्राट् फ्रैंडरिक अर्थात् फ्रैंडरिक बार-बरोसा ने वेनिस नगर में पाप तृतीय एलेकज़ेंडर के सम्मुख घुटने टेककर प्रभु-भक्ति की शपथ ली थी।

ग्यारहवीं शताब्दी में जन-साधारण की इच्छाशक्ति और उनका आत्म-विश्वास क्रिश्चियन चर्च के महान् बल का आधार था। परन्तु वह नैतिक प्रतिष्ठा, जो उस आधार का मूल थी, स्थिर न रह सकी। चौदहवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों ही में पाप का यह बल—प्रत्यन्तया—बाधपवत् वायु-विलीन हो गया था। परन्तु प्रश्न यह है कि क्रिश्चियन धर्मावलम्बी जन-साधारण का वह सरल श्रद्धाभाव क्योंकर नष्ट हुआ, जिसके कारण जनता को उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए सामूहिक सहायता देनी बन्द करनी पड़ी।

चर्च द्वारा द्रव्य-सञ्चय ही इस दुर्दशा का प्रधान हेतु था। द्रव्य-सञ्चय के तीन कारण थे। चर्च की अन्य पुरुषों के समान मृत्यु नहीं होती थी; बहुत से सन्तान-हीन पुरुष मृत्यु के समय अपनी भू-सम्पत्ति चर्च ही को दान कर जाते थे; अग्राध क्रमा करानेवाले पापियों को इस प्रकार दान देने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता था। इन नीति का अनुसरण करने के कारण बहुत से यूरोपीय देशों की तो चौथाई भूमि तक चर्च की जागीर हो गई थी। सम्पदा-प्राप्ति पर लोभ भी उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है\*। तेरहवीं शताब्दी के प्रारम्भ होते न होते प्रायः सर्वत्र ही यह कहते हुए सुना जाता था कि पुरोहित अथवा पादरी भद्र नहीं हैं, उनके धन-सम्पत्ति तथा उत्तर-दान की लालसा लगी रहती है।

\* गोस्वामी तुलसीदासजी ने कहा भी है—

‘जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई ।’



अलमूरा में प्राङ्गण

लीला समाप्त की। उसके अनन्तर एक और ( नगण्य ) पोप हुआ और उसके पश्चात् 'द्वितीय अरवन' नामक पोप के समय में ही ( १०८७-१०९९ ) प्रथम धार्मिक युद्ध प्रारम्भ हुआ। इन्हीं दोनों, अर्थात् ग्रैगरी सप्तम और अरवन द्वितीय नामक व्यक्तियों ने पोपों की महत्ता का एक ऐसा युग प्रवर्तित कर दिया था कि उन्होंने सभ्रात्यों पर भी अपना प्रभुत्व जमा लिया। बलगेरिया से आयरलैण्ड तक और नारवे से मिसली और जेरुसलम तक सब स्थानों में पोप ही सर्वेसर्वा हो रहे थे—सर्वत्र इन्हीं की तृप्ति बोलती थी। इस सप्तम ग्रैगरी ने चतुर्थ हैनरी नामक सम्राट् को कैनेमा नामक स्थान में आने और अपने प्रासाद के चौक में शोक-सूचक वस्त्र पहिर बर्क पर तीन दिन और तीन रात्रि पर्यन्त नंगे पैर खड़े हो अपने कृत्य का पश्चात्ताप और उस पर धमा-वाचना करने के लिए विवश कर दिया था। और ११७६ में सम्राट् फ्रैंडरिक अर्थान् फ्रैंडरिक वार-वरोसा ने वेनिस नगर में पोप तृतीय एलेक्ज़ेंडर के सम्मुख घुटने टेककर प्रभु-भक्ति की शपथ ली थी।

ग्यारहवीं शताब्दी में जन-साधारण की इच्छाशक्ति और उनका आत्म-विश्वास क्रिश्चियन चर्च के महान् बल का आधार था। परन्तु वह नैतिक प्रतिष्ठा, जो उस आधार का मूल थी, स्थिर न रह सकी। चौदहवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों ही में पोप का यह बल—प्रत्यक्षतया—वाष्पवत् वायु-विलीन हो गया था। परन्तु प्रश्न यह है कि क्रिश्चियन धर्मावलम्बी जन-साधारण का वह सरल श्रद्धाभाव क्योंकर नष्ट हुआ, जिसके कारण जनता को उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए सामूहिक सहायता देनी बन्द करनी पड़ी।

चर्च द्वारा द्रव्य-सञ्चय ही इस दुर्दशा का प्रधान हेतु था। द्रव्य-सञ्चय के तीन कारण थे। चर्च की अन्य पुरुषों के समान मृत्यु नहीं होती थी: बहुत से सन्तान-हीन पुरुष मृत्यु के समय अपनी भू-सम्पत्ति चर्च ही को दान कर जाते थे; अथवा जमा करानेवाले पापियों को इस प्रकार दान देने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता था। इस नीति का अनुसरण करने के कारण बहुत से यूरोपीय देशों की तो चर्चाई भूमि तक चर्च की जागीर हो गई थी। सम्पदा-प्राप्ति पर लोभ भी उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। तेरहवीं शताब्दी के प्रारम्भ होते न होते प्रायः सर्वत्र ही यह कहते हुए सुना जाता था कि पुरोहित अथवा पादरी भद्र नहीं हैं, उनके धन-सम्पत्ति तथा उत्तर-दान की लालना लगी रहती है।

॥ गोस्वामी तुलसीदासजी ने कहा भी है—

‘जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई ।’

राजा तथा राजकुमार सभी इस विच्छेद से अप्रसन्न थे; क्योंकि उनकी राज्य-भूमि सैन्य द्वारा साहाय्य करनेवाले सामन्तों के काम में न आकर मठों तथा उनमें रहनेवाले भिन्दु-भिन्दुणियों ही का भरण-पोषण करती थी। कहने को तो यह भूमि राज्य का भाग थी, परन्तु वास्तव में इस पर विदेशियों ही का अधिकार था। पोप सप्तम ग्रैगरी के समय से प्रथम ही पोप तथा राजकुमारों के मध्य विशप (स्थानीय बड़े पादरी) की नियुक्ति के अधिकार-विषयक प्रश्न पर—जिसको 'इनवैस्टिचर' (Investiture) कहते हैं—खूब झगड़ा चल चुका था। यह मान लेने पर कि पोप ही को इस पद पर नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है और राजाओं को नहीं, न केवल प्रजागण के आत्मिक नियन्त्रण करने, वरन् राज्य के अधिक भूभाग पर शासन करने का अधिकार भी राजाओं के हाथ से निकला जाता था। इसके अतिरिक्त पादरियों का तो यह दावा था कि कोई राजकीय टैक्स कर भी उन पर नहीं बाँधा जा सकता। समस्त कर वे सीधे रोम को देते थे। यही नहीं, प्रत्युत अन्य राजकीय करों के अतिरिक्त चर्च अथ जन-साधारण की सम्पदा का दशमांश भी, प्रत्येक पुरुष से कर के रूप में लेने का अधिकार जमा रहा था।

ग्यारहवीं शताब्दी में प्रत्येक लैटिनीय क्रिश्चियन राज्य का इतिहास पोप तथा राजाओं के इहविषयक द्वंद्व-युद्धों की कथाओं से भरा पड़ा है। ये युद्ध पोप के नियुक्ति-विषयक अधिकार के संबंध में होते थे और इनमें प्रायः पोप ही सदा विजयी रहे। पोप का एक दावा यह भी था कि राजाओं का बहिष्कार, प्रजागण की उनकी अधीनता से मुक्ति और उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार भी हमको प्राप्त है। यही नहीं, वे यहाँ तक कहते थे कि किसी जाति को शाप द्वारा बहिष्कृत करने की ज़मता भी हममें है। ऐसा हो जाने पर जातकर्म, नामकरण, प्रायश्चित्त तथा तपस्या के अतिरिक्त पादरी सब धार्मिक कृत्य बंद कर देते थे। इसका मतलब यह हुआ कि फिर न तो पादरियों द्वारा साधारण प्रार्थना ही होती थी, न जनता के विवाहादिक हो सकते थे और न प्राणान्त होने पर शव ही पृथ्वी में गाड़ा जा सकता था। इन्हीं दो अस्त्रांकुशों की सहायता से बारहवीं शताब्दी के पोप, राजकुमारों तथा उद्धत जनसाधारण रूपी हस्तियों के गर्व को खर्व करने में समर्थ हुए थे। पोप के इन अस्त्रों में अमोघ शक्ति थी। ऐसे असीम बल का प्रयोग असाधारण अवसरों पर ही करना उचित है। परंतु पोपों ने क्या तो अवसर और क्या अनवसर, प्रत्येक समय इनका इतना अधिक उपयोग अथवा यों कहिए कि दुरुपयोग किया कि इनकी समस्त शक्ति कुंठित हो गई। बारहवीं शताब्दी के अंतिम तीस वर्षों में स्काटलैंड, फ्रांस और इंगलैंड इन तीनों देशों को क्रम से पोप ने बहिष्कृत किया था। इसके अतिरिक्त विरोधी राजाओं के विरुद्ध धार्मिक युद्ध घोषित करने का प्रलोभन भी पोप संवरण न कर

सके, जिसके कारण धार्मिक युद्धों में भाग लेनेवाले भावों ही का जनता में चिह्न तक शेष न रहा ।

इन भगड़ों-टंटों को राजकुमारों तक ही परिमित रखकर रोम का चर्च यदि जनसाधारण का मन अपने वश में कर लेता तो भी समस्त क्रिश्चियन राष्ट्रों पर उसका प्रभुत्व सदैव के लिए स्थापित हो जाना संभव था । परंतु पोप के ये असीम अधिकार साधारण पादरियों के जीवन-आचरण में पूर्ण औद्धत्य के साथ प्रतिबिंबित होते थे । ग्यारहवीं शताब्दी से पहले रोमन संप्रदाय के विवाहित पादरी हो सकते थे, जनता के साथ इस प्रकार का गाढ़ संबंध होने के कारण वह वास्तव में उन्हीं के अंश थे । पोप सप्तम ग्रेगरी ने ही उनको अविवाहित रहने के लिए बाध्य किया । और रोम से उनका घनिष्ठ संबंध स्थापित करने के लिए उसने सांसारिक पुरुषों से गाढ़ स्नेह त्यक्त कराकर चर्च और सांसारिक पुरुषों के मध्य महान् पृथक्त्व की खाई खोद दी । चर्च के अपने-निजी-न्यायालय थे जिनमें न केवल पुरोहितों के, प्रत्युत मठाधिवासी पुरुष, विद्यार्थी, धर्म-सैनिक, विधवा, अनाथ और असहायों के समस्त मुआमले और बसीयत, विवाह शपथ, एवं नास्तिकता, ईश्वर-निंदा और इंद्रजाल संबंधी समस्त अभियोग सुने जाते थे । किसी सांसारिक पुरुष का पादरी से झगड़ा होने पर उस मुकदमे के सुनने का अधिकार भी केवल उपरोक्त न्यायाधीश को प्राप्त था । संधि तथा युद्ध के भार भी साधारण (सांसारिक) मनुष्यों को उठाने पड़ते थे । पादरी उनसे भी सर्वथा मुक्त थे । इन सब असमानताओं के होते हुए यदि पादरियों के विरुद्ध क्रिश्चियन जगत् में ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि दिन पर दिन प्रचंड होती गई तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ?

ऐसा प्रतीत होता है कि रोम ने यह कमी अनुभव ही नहीं किया कि जन-साधारण के आत्मिक विश्वास पर ही उसकी शक्तियाँ अवलम्बित हैं । धार्मिक उत्साह से सहायता लेने के स्थान में चर्च ने उसके विरुद्ध युद्ध किया और शुद्ध शक्ति चिन्ता तथा पथभ्रष्ट सम्मतियों पर सिद्धान्तमय कट्टर धर्मवाद की लड़ाई लाने की प्रारम्भ कर दी । नैतिक आचार-विचारों में हस्तक्षेप करने पर समस्त जनता चर्च से सहमत थी; परन्तु धार्मिक सिद्धान्तों के विषय में ऐसा न था । वाल्डो नामक व्यक्ति ने जब फ्रांस के दक्षिण भाग में केवल जीसस पर ही विश्वास करने तथा उसके सरल जीवन को अनुसरण करने का जनता को उपदेश देना प्रारम्भ किया तो पोप इनोसेंट तृतीय ने वाल्डेंसैस अर्थात् वाल्डो के अनुयायियों के प्रति, धर्म-युद्ध का आदेश दे दिया और उनके अग्नि, खड्ग, बलात्कार तथा अन्य गहिरे क्रूरताओं द्वारा दमन करने की अनुमति दे दी । इसी प्रकार ऐसीनी के महात्मा ( सेंट ) फ्रांसिस ने जब ( १२०१—१२२६ ) जीसस के अनुरूप लोक-सेवा करते



हुए दरिद्र-जीवन व्यतीत करने का लोगों को उपदेश देना प्रारम्भ किया तो उनके फ्रैंसिस-केन कहलानेवाले अनुयायियों के समुदाय के समुदाय को पांडित कर अथवा शाप दे, वन्दीग्रह में डालकर तितर-बितर कर दिया गया। सन् १३१८ में, मासेँल्स नामक नगर में इनके चार अनुयायियों को जीवितावस्था ही में अग्नि-समर्पित कर दिया गया था। पोप की जहाँ एक और ऐसी दमन-नीति चल रही थी वहाँ दूसरी और सेंट (महात्मा) डोमिनिक (११७०—१२२१) द्वारा स्थापित डोमिनिकिन्स नामक उनके घोर एवं कट्टर सिद्धान्तवादी पन्थानुयायियों को पोप इनोसेंट तृतीय की पूरी सहायता मिल रही थी। और इन्हीं के बल भरोसे पर 'इनक्विज़िशन' नामक एक संस्था बनाकर खड़ी कर दी गई जहाँ ईश्वर-निंदा का आखेट और स्वतन्त्र विचारवालों को सन्तान्तित किया जाता था।

इस प्रकार के न्यायाधिक दावों, मिथ्याधिकारों और अनुचित असहिष्णुता द्वारा ही चर्च ने जन-साधारण की अप्रतिहत श्रद्धा को, जिसके कारण उसको इतना बल प्राप्त था, नष्ट-भ्रष्ट कर समूल उखाड़ दिया। चर्च के इतिहास की कथा पढ़ने पर पता लगता है कि बाह्य शत्रुओं के अपर्याप्त होते हुए भी आन्तरिक क्षय के कारण इसका सर्वथा विनाश हुआ था।

## उच्छृंखल राजकुमार और महान् धार्मिक मतभेद

समस्त क्रिश्चियन-धर्मावलंबियों पर आधिपत्य प्राप्त करने की इच्छा से जो प्रयत्न रोम के चर्च ने किये, उनमें पोपनिर्वाचन-विधि एक महान् दुर्बलता थी ।

यदि पोप वास्तव में अपनी प्रबल एवं स्पष्ट आकांक्षाओं को पूरा करने के इच्छुक थे और समस्त क्रिश्चियन धर्मावलंबियों पर एकछत्र शासन करना उनका ध्येय था तो यह अत्यंत आवश्यक था कि उनके आदेश दृढ़, पक्के तथा अपरिवर्तनशील होते । ऐसे अच्छे अवसरों के ज़माने में सबसे अधिक आवश्यकता तो इस बात की थी कि विद्वान् एवं योग्य पुरुष अपनी चढ़ती जवानियों में ही पोप पद पर नियुक्त कर दिये जाते और प्रत्येक पोप के जीवन-काल ही में उसके उत्तराधिकारी का निर्णय हो जाता, जिससे चर्च-संबंधी नीति का वादविवाद के पश्चात् स्थिर होना संभव हो जाता । इसके अतिरिक्त निर्वाचन-संबंधी नियमों के अधिक स्पष्ट, निश्चित, अपरिहार्य और दोष-रहित होने की भी अत्यंत आवश्यकता थी । परंतु दुर्भाग्यवश उस समय इनमें से एक बात भी न हुई । पोप के निर्वाचन में किसको मत देने का अधिकार है, और बैज़ण्टाइन या पवित्र रोम-साम्राज्य के सम्राट् भी इस संबंध में कुछ कह सकते हैं वा नहीं, ये प्रश्न भी स्पष्ट न थे । महान् राजनीतिज्ञ पादरी-हिल्डेब्रांड ने ( जो सप्तम ग्रैगरी के नाम से पोप पद पर १०७३-१०८५ तक शासन करता रहा ) इस निर्वाचन के नियम-वद्ध करने का बहुत प्रयत्न किया । मत देने का अधिकार उसने कार्डिनेल ( अर्थात् रोमन पादरियों ) तक ही परिमित कर दिया था; और सम्राट् को केवल नियमित स्वीकृति देने का अधिकार चर्च द्वारा अर्पित था । परंतु उत्तराधिकारियों के संबंध में उसने कोई नियम नहीं बनाया, जिससे, कार्डिनेल नामक पादरियों के आपन के भगदों के कारण पोप पद के रिक्त रहने की फिर भी सम्भावना शेष रह गई और वास्तव में ऐसा कई बार हुआ भी कि एक अथवा अनेक वर्षों तक पोप ही न चुना गया ।



मिलन का वड़ा गिरजाघर

इस संबंध में स्पष्ट परिभाषा न होने से जो जो फल हुए वे सोलहवीं शताब्दी तक के पोप-राज्येतिहास के पृष्ठों को पलटने से देखे जा सकते हैं। इन निर्वाचनों में भ्रगड़े-टंटे हो जाने के कारण, बहुत प्राचीन काल ही से, एक समय में दो और कभी कभी इससे भी अधिक पुरुष पोप होने का दावा कर बैठते थे। ऐसे श्रवसरों पर अपनी मान-हानि होते हुए भी चर्च को विवश हो सम्राट् अथवा किसी बाह्य निर्णायक की शरण लेनी पड़ती थी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक महान् पोप के शासन का अन्त होते ही यह प्रश्न पुनः उठ खड़ा होता था। पोप की मृत्यु होते ही कर्णधार-विहीन चर्च की दशा कबन्ध के समान निश्चेष्ट हो जाने की आशंका बनी रहती थी। पोप का उत्तराधिकारी कभी तो कोई ऐसा पुराना प्रतिस्पर्धी होता था कि जो अपने पूर्ववर्ती को दोष दे उसके किये-कराये सब कामों को मटियामेट करने का प्रयत्न करने लगता था और कभी कोई दुर्बल, आसन्नमृत्यु वृद्ध पुरुष पोप बन जाता था।

इस दौर्बल्य के होते हुए, विविध जर्मन राजकुमार, फ्रांस के राजा तथा इंग्लैंड के नार्मन व फ्रेंच शासकों के हृदयों में पोप-संबंधी विधान में हस्तक्षेप करना एक नैसर्गिक बात थी। अतएव निर्वाचन के समय विविध प्रकार के ज़ोर डालकर अपने किसी हितेच्छु व्यक्ति को रोम नगरस्थ 'लैटेरेन' नामक भवन में पोप-पद पर अभिषिक्त कराना प्रत्येक के लिए अनिवार्य हो गया था। ज्यों ज्यों यूरोपीय समस्याओं में पोप की शक्ति व महत्ता बढ़ती गई, त्यों त्यों इन शासकों का हस्तक्षेप भी उत्तरोत्तर मात्रा में बढ़ता गया। ऐसी दशा में यदि निस्सार एवं दुर्बल पुरुष ही अधिक संख्या में पोप बनाये गये तो आश्चर्य क्या है। मार्कें की बात तो यह है कि फिर भी उनमें बहुत से योग्य और साहसी व्यक्ति थे।

पोप तृतीय इनोसेंट ( ११९८-१२१६ ) इस महान् युग के मनोरंजक कृत्यकारी शक्तिशाली पोपों में गिना जाता है। अड़तीस वर्ष की श्रवस्था होते न होते यह भाग्यशाली पुरुष पोप-पद पर आसीन हो गया था। परंतु इसके और इसके उत्तराधिकारियों को अपने से भी कहीं अधिक हृदयहारक व्यक्ति—अर्थात् सम्राट् फ्रैंडरिक द्वितीय से ( जिन्हें Stupor mundi संसार का अद्भुत पदार्थ कहा जाता है ) डटकर सामना करना पड़ा। इस सम्राट् ने जो रोम से भ्रगड़ा किया, उसके कारण इतिहास की गति बदल गई। अन्त में कहने को तो रोम ने सम्राट् को पराजित कर उसका समूल वंशोच्छेदन कर दिया, परंतु वास्तव में सम्राट् ने पोप और चर्च दोनों ही की चिर-प्रतिष्ठा को ऐसी भारी क्षति पहुँचाई कि वह घाव सदा पकता और रिसता ही रहा और अन्त में उसी के कारण यह संपूर्ण संस्था नष्टप्राय हो गई।

फ्रैंडरिक सम्राट् षष्ठ हैनरी का पुत्र था। इसकी माता सिसली के राजा नॉर्मन-जातीय रॉजर प्रथम की कन्या थी। ११९८ में चार वर्ष की अवस्था में वह पिता के राज्य का अधिकारी हुआ था और इनोसेंट तृतीय इसका अभिभावक बनाया गया। नॉर्मन जाति ने सिसली अभी थोड़े दिन पूर्व ही जीता था। और ईपत् पूर्विय होने के कारण यहाँ की राज्य-सभा धुरंधर अरब विद्वानों से भरी हुई थी; अतएव कुमार राजा की शिक्षा-दीक्षा के संबंध में उनमें से कुछ एक का भी सहयोग प्राप्त हो गया था। निःसन्देह उन्होंने अपना दृष्टिकोण अत्यंत परिश्रम से कुमार को भली भाँति समझा दिया था। फलतः यह सम्राट् क्रिश्चियन धर्म को मुसलमानों के दृष्टिकोण से तथा मुसलमान-धर्म को ईसाइयों के दृष्टिकोण से देखने लगा। इस दुहरी शिक्षा के दुःखदायक परिणाम-स्वरूप सम्राट् सब धर्मों को पाखंड समझता था जो उस अंधविश्वास-युग में एक अद्भुत बात थी। धार्मिक विषय पर वह अत्यंत ही स्वतंत्रता से बातें किया करता था। उसकी नास्तिकता और ईश्वरनिंदा तो अब तक लेखबद्ध विद्यमान है।

फिर जैसे जैसे यह युवा प्रौढ़ होता गया तैसे तैसे इस युवक तथा अभिभावक के बीच ( पारस्परिक ) विरोध की मात्रा भी उत्तरोत्तर बढ़ती गई। तृतीय इनोसेंट को अपने आश्रित बालक से बहुत कुछ अनुचित आशाएँ लग रही थीं। जब फ्रैंडरिक के सम्राट् होने का समय निकट आया तो पोप ने उसमें शर्तें बाँध अड़चने डालनी प्रारंभ कर दीं। फ्रैंडरिक से कहा गया कि वह जर्मनी में नास्तिकता का कठोरता से दमन करने की प्रतिज्ञा तथा दक्षिणीय इटैली के राज-मुकुट का त्याग करे; क्योंकि ऐसा न करने से सम्राट् की शक्ति पोप के लिए कहीं अधिक हो जाती। इसके अतिरिक्त समस्त जर्मन पादरियों को करों से मुक्त करने की भी एक शर्त थी। फ्रैंडरिक सब प्रतिज्ञाएँ तो कर बैठा पर उनके पालन करने का उसके मन में तनिक सा भी विचार न था। फ्रांस देश के राजा को अपनी प्रजा—वाल्ट्डीसैस नामक पंथ-विशेष—के विरुद्ध दारुण रुधिर-मय धार्मिक युद्ध करने के लिए पोप ने पहले ही से राजी कर लिया था। परंतु अब उसकी इच्छा यह थी कि फ्रैंडरिक भी जर्मनी में वैसा ही आचरण करे। जिन पायटिस्ट ( Pietists ) नामक पंथ के अनुयायी ईसाई पुरुषों ने जर्मनी में पोप को क्रुद्ध किया था उनकी अपेक्षा स्वयं कहीं अधिक नास्तिक होने के कारण सम्राट् ( फ्रैंडरिक ) के हृदय में उनके साथ ऐसे धार्मिक युद्ध करने का आवेश ही न था। इसी प्रकार जब पोप इनोसेंट ने मुसलमानों के विरुद्ध धार्मिक युद्ध द्वारा जेरुसलम पर पुनः अधिकार कर लेने का उसको आदेश दिया तो प्रतिज्ञा उसने तुरंत ही कर ली परंतु उसके पूरा करने में ढील फिर वैसी ही डाल दी।

जर्मनी की अपेक्षा सिसली का आवास कहीं अधिक प्रिय होने के कारण राजकुट प्राप्त करने के पश्चात् भी फ्रैंडरिक द्वितीय उसी देश में डटा रहा और इनोसेंट के प्रति की हुई किसी भी प्रतिज्ञा के पालन करने का तनिक सा भी प्रयत्न न किया। यहाँ तक कि अंत में वेचारा पोप १२१६ में विफल-मनोरथ हो स्वर्ग सिधार गया।

इनोसेंट का उत्तराधिकारी ओनोरियस तृतीय भी फ्रैंडरिक का अधिक सफलतापूर्वक सामना न कर सका, परन्तु उसका उत्तराधिकारी ग्रैगरी नवम तो इस युवक से हिसाब-किताब वेवाङ्ग करने के प्रकाश्य रूपसे दृढ़ निश्चय के साथ ही (१२२७ में) पोप के पद पर आसीन हुआ था। उसने सम्राट् को बहिष्कृत कर दिया, और सम्राट् समस्त धार्मिक आश्रय एवं सुलभताओं से वंचित कर दिया गया। परन्तु इसके कारण सिसली की अर्ध-अरब राजसभा में उसको तनिक भी कष्ट अनुभव न हुआ। पोप ने अब सम्राट् के नाम एक खुली चिट्ठी लिखी जिसमें उसके दुर्गुणों का (जो निस्संदेह उसमें पाये जाते थे) और नास्तिकता तथा साधारण कुकर्मों का खूब वर्णन किया गया था। फ्रैंडरिक ने भी सप्रमाण पिशाचोपम विचक्षणता से अत्यंत विद्वत्तापूर्वक इसका लेखवद्ध उत्तर दिया। यह लेख यूरोप के समस्त राजकुमारों को संबोधित करके लिखा गया था और पोप तथा राजकुमारों के बीच भगड़े की बात भी सर्व-प्रथम इसी में अत्यंत स्पष्टतापूर्वक लिखी गई थी। समस्त यूरोप पर निरंकुश शासन



धर्मयुद्ध-वीर की रूप-रेखा

करने की आकांक्षा पर उस सम्राट् ने विदीर्णकारी आघात किया था। चर्च-संपदा की ओर विशेषतया लक्षित करते हुए उसने इस राज्यापहरण के प्रति राजकुमारों का ध्यान सांघिक शक्ति का प्रयोग करने की ओर आकर्षित किया था।

इस प्राणान्तक अस्त्र को यों चलाकर फ्रैडरिक ने अब बारह वर्ष पुरानी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए धार्मिक युद्ध करने की ठानी। यह छुड़ा क्रूसेड (१२१८) धार्मिक-युद्ध की दृष्टि से तो केरा दोंग था। सम्राट् मिस्र देश में जा सुलतान से मिला और उसके साथ विवाद-ग्रस्त विषयों पर विचार किया। अन्यान्य हितकारक विचार-विमर्श के उपरान्त धर्म पर विश्वास न करनेवाले इन्हीं दोनों भले आदमियों ने पारस्परिक लाभ की दृष्टि से व्यापारिक संधि कर जेरुसलम को पुनः फ्रैडरिक के लौटाने का निश्चय कर लिया। वैयक्तिक संधि द्वारा धर्मयुद्ध करने की यह नवीन प्रणाली लोगों के लिए अत्यन्त ही कौतूहल-जनक थी। इसमें न तो विजेता के पाँवों पर “बहती हुई रक्तधारा की छीटें ही पड़ीं” और न “हर्षातिरेक के कारण उनकी आँखों में आँसू ही भर आये”। धर्मभ्रष्ट इस अपूर्व धर्म-सैनिक को जेरुसलम के राज्य-सिंहासन पर अपने ही हाथों वेदी से उठाकर राजमुकुट सिर पर रख केवल लौकिक रीति से ही अभिषिक्त हो संतुष्ट होना पड़ा; क्योंकि पादरी लोग तो वास्तव में उसका बहिष्कार ही करते। तदुपरांत वह इटैली को लौट आया और पोप-सैन्य को—जिसने उसके प्रदेशों पर आक्रमण किया था—मारकर, हराकर, उन्हीं के देश में भगा दिया। विवश होकर पोप ने अंत में उसके बहिष्कार से मुक्त कर दिया। तेरहवीं शताब्दी में पोप के साथ एक राजकुमार का ऐसा वर्ताव होते हुए देखकर भी प्रतीकार के लिए जन-साधारण की क्रोधाग्नि न भड़की। पहला सा समय अब कहाँ था।

१२३९ में नवम ग्रैगरी ने फ्रैडरिक से फिर भगड़ा प्रारंभ कर दिया और सम्राट् का अब दूसरी बार बहिष्कार कर जन-साधारण की दृष्टि में उसके निंदित बताने की लड़ाई, जिसमें पोप को पहले ही इतनी तीव्र क्षति उठानी पड़ी थी, पुनः प्रारंभ कर दी। नवम ग्रैगरी के मृत्यूपरांत चतुर्थ इनोसेंट नामक पोप के समय में यह भगड़ा पुनः छिड़ गया और फ्रैडरिक ने तब हृदय दलन करनेवाला एक ऐसा प्रलय-कारी पत्र चर्च के विरुद्ध लिखा कि जनता उसको कभी न भूली। पादरियों को उनके धमंड तथा अधार्मिकता के लिए इस पत्र में खूब ही धिक्कारा गया था; और तत्कालीन समस्त कुरीतियों का मूल बतवाई गई थी, उनकी सम्पदा और उनका अभिमान। चर्च की भलाई के विचार से सम्राट् ने अपने भाई-सदृश अन्य राजकुमारों

को उसकी समस्त जायदाद के ज्वत करने की सलाह दी। यह ऐसा मशविरा था जो यूरोपीय राजकुमारों के चित्त से फिर कभी ओभल न हुआ।

सम्राट् के अंतिम वर्षों की कथा का हम उल्लेख न करेंगे। सम्राट् के जीवन की विशेष घटनाएँ उसके वातावरण की अपेक्षा कहीं कम रोचक हैं। सिसली की राजसभा में उसका जीवन किस प्रकार व्यतीत होता था, इसका हाल भी इधर-उधर से सामग्री एकत्रित करने पर कुछ कुछ जाना जा सकता है। सम्राट् का जीवन आमोद-प्रमोदमय था और उसके सुंदर वस्तुएँ अत्यंत प्रिय थीं। लोग उसके कामुक वताते हैं; परन्तु इसमें संदेह नहीं कि वह अत्यंत सूक्ष्मदर्शी था; सफलतापूर्वक अनुसंधान करने की शक्ति भी उसमें खूब थी। यहूदी तथा मुसलमान दार्शनिकों के अतिरिक्त क्रिश्चियन दार्शनिकों को भी अपनी राजसभा में रख उसने इटालियनों की मस्तिष्क-भूमि को अरब-देशीय प्रभावजल से खूब सींचा था। उसी के द्वारा अरबदेशीय अंक तथा वीजगणित ईसाई विद्यार्थियों को सर्वप्रथम ज्ञात हुए। माइकेल स्कॉट नामक एक दार्शनिक ने जो उसके राज दरवार में था, ऐवेररॉस नामक कुर्दवा के सुप्रसिद्ध अरब दार्शनिक द्वारा लिखित व्याख्या सहित ऐरिस्टोटिल के कुछ अंशों का अनुवाद किया था। १२२४ में फ्रैंटरिक ने नैपिल्स के विश्वविद्यालय की नींव डाली और उसी के द्वारा सालेर्नो विश्वविद्यालय की आयुर्वेद-पाठशाला की उन्नति तथा विस्तार हुआ। पशु-संग्रहालय स्थापित करना भी वह न भूला था। बाज़ के द्वारा शिकार किस प्रकार करना चाहिए इस विषय पर उसकी लिखी पुस्तक से पता चलता है कि पक्षियों के स्वभाव का भी वह अच्छी तरह निरीक्षण किया करता था; इटैली-भाषा में पद्य लिखनेवाले प्रथम पुरुषों में उसकी गणना होती है। इस भाषा के पद्य का तो जन्म ही वास्तव में उसके राजदरवार में हुआ था। एक योग्य लेखक के कथनानुसार तो वह 'सर्वप्रथम आधुनिक' पुरुष था और इस वाक्य द्वारा कम से कम उसकी बुद्धि के निष्पन्न होने की बात तो बहुत अच्छे प्रकार से स्पष्ट हो जाती है।

फ्रांस के राजा का बल बढ़ने पर पोप का उनसे भी झगड़ा प्रारंभ होते ही, पोप का प्रभुत्व अन्तुण वनाये रखनेवाली शक्ति का और भी शीघ्रता तथा स्पष्टता से हास एवं पतन होने लगा। फ्रैंटरिक द्वितीय के जीवन-काल ही में जर्मनी में आपन की फूट पड़ गई और होहनस्टॉफ़न-वंशीय सम्राटों के स्थान में फ्रांस का राजा ही पाप का क्रमशः रक्षक, सहायक तथा प्रतिद्वंद्वी हो गया। फ्रांस के राजा को समर्थन करने की नीति का कुछ-एक पापों ने भी अनुसरण किया। रोम की अनुमति और समर्थन से फ्रांस के राजकुमार ही अब सिसली और नैपिल्स की गद्दियों पर बैठाये जाने लगे।



इस प्रकार फ्रांस के राजा निकट भविष्य में शार्लमेन के बृहत् साम्राज्य के पुनरुद्धार व शासन का सुख-स्वप्न देखने लगे। परंतु होहन्स्टॉफ़न-वंशीय अंतिम सम्राट् फ्रैडरिक द्वितीय के मृत्युपरांत उत्पन्न होनेवाली जर्मन राजकीय अव्यवस्था जब हैप्सबर्ग घराने के रुडौल्फ़ का प्रथम हैप्सबर्गीय सम्राट् के रूप से निर्वाचन होते ही समाप्त हो गई (१२७३) तो फ्रांस तथा जर्मनी के प्रति पोपों की नीति पुनः विचलित होनी प्रारंभ हो गई। कोई पोप एक देश से सहानुभूति रखता था तो कोई दूसरे से। उधर



वरगंडियन सरदारों की पोशाक

पूर्व दिशा में, कांस्टेंटिनोपिल को ग्रीक जाति ने लैटिन सम्राटों से १२६१ में पुनः छीन लिया था। वहाँ पर माइकेल पैलियोलोगस नामक एक व्यक्ति नया ग्रीकवंश स्थापित कर अष्टम माइकेल के नाम से पहले तो कुछ काल पर्यंत पोप से योंही संधि का प्रस्ताव करता रहा, परंतु अंत में रोम से अपना संबंध पूर्णतया विच्छेद कर वह भी स्वतन्त्र हो गया और उसके साथ ही साथ एशिया में लैटिन राज्यों का पतन होते ही पोपों की प्राच्य-प्रधानता का सदा के लिए अंत हो गया।

सन् १२९४ में अष्टम बोनिफ़ेस पोप-पद पर आसीन हुआ। यह इटैली-निवासी हृदय से फ्रांसीसियों का घोर विद्वेषी था और रोम की प्राचीन परंपरा तथा धर्म-प्रचार के महान् उत्तरदायित्व के विचार इसकी नस नस में भरे हुए थे। कुछ समय तक तो इसने अपना कार्य खूब ही औद्धत्य से किया। ई० सन् १३०० में इसकी जयंती (जुविली) के अवसर पर रोम में यात्रियों का बड़ा समारोह हुआ। और पोप के ज्ञान में रूपयों की ऐसी बौछार हुई कि महात्मा (सेंट) पीटर की समाधि पर चढ़ावे को एकत्रित करने के लिए दो पुरुष सदा खुरफावड़ियाँ लिये तैयार खड़े रहते थे\*। परंतु इस उत्सव की सफलता पोप के लिए भ्रांतिकारक थी। १३०२ में फ्रांस के राजा से बोनिफ़ेस का भगड़ा हो गया और १३०३ में पोप सम्राट् को वहिष्कृत करने की घोषणा करनेवाला ही था कि ऐनगनी नामक नगर में पोप के पैतृक प्रासाद में घुसकर गाइ-ला-यूमएट-नैगारे ने उसको अक्रमात् गिरफ्तार कर लिया। फ्रैंच राजदूत ने पशुवल से भवन में घुस, शयनागार में जा, शय्या पर लेटे और हाथ में क्रूस लिये हुए भयभीत पोप पर भर्त्सनाओं की बौछार कर उसकी अत्यंत ही अवज्ञा की। एक या दो दिन पश्चात् नगर-निवासियों द्वारा स्वाधीनता लाभ कर उसने रोम में पदार्पण किया ही था कि आरसिनी वंशजों ने उसको पुनः बंदी बना लिया। इस प्रकार सब भ्रम निकल जाने के पश्चात् यह दुःखित वृद्ध पुरुष कुछ एक सप्ताह के अनंतर बंदी की दशा ही में इस लोक से चल बसा।

यह ठीक है कि पोप पर प्रथम बार अत्याचार होते ही 'ऐनगनी' की प्रजा ने नैगारे पर क्रोधित हो पोप को बल-पूर्वक छोड़ा लिया। पर यह नगर तो पोप का जन्मस्थान था। (फिर यदि प्रजा ने ऐसा किया तो क्या आश्चर्य है?) महत्त्वपूर्ण बात तो यह है कि क्रिश्चियन धर्मानुयायियों के प्रभु के साथ ऐसा दुर्व्यवहार फ्रैंचाधिपति ने अपनी प्रजा की पूर्ण अनुमति से किया था। ऐसा निष्ठुर आचरण करने से पहले राजा ने अपने राज्य के तीनों प्रकार के भूमिपतियों (अर्थात् जागीरदार, चर्च और जन-साधारण) को एकत्रित कर उनकी सम्मति प्राप्त कर ली थी। सर्व-प्रधान धर्माचार्य (पोप) के साथ ऐसा अनियंत्रित एवं उच्छृंखल व्यवहार होते देखकर भी—इंग्लैंड, जर्मनी और इटैली—किसी ने तनिक भी ज्ञान न हिलाई। क्रिश्चियन-धर्मदृढ़ता के भावों का अब ऐसा हास हो गया था कि मनुष्यों के हृदयों में हूँदने पर भी उनका पता न चलता था।

समस्त चौदहवीं शताब्दी बीत गई, और पोपों ने अपने नैतिक बल को बढ़ाने का कुछ भी प्रयत्न न किया। अगला 'क्लिमेंट-पंचम' नामक फ्रैंच जातीय पोप, फ्रांस के

राजा फिलिप की अनुमति से चुना गया था और उसने रोम में आकर कभी पाँच तक न टेका। उसकी सभा तो सदा एविगनान ( फ्रैंच नगर ) ही में लगी रहती थी। फ्रैंच भूमि पर होते हुए भी यह नगर धर्माध्यक्षाधिकार ( पोप की अधीनता ) में था, फ्रांस के राजा से उसका संबंध न था; यहीं पर इसके उत्तराधिकारी १३७७ तक—जब पोप ग्रैगरी एकादश ने रोम नगरस्थ वैटिकन ( अर्थात् पोप-प्रासाद ) में जाकर निवास करना प्रारंभ किया—रहते रहे। परंतु समस्त पादरी-समुदाय की सहानुभूति ग्रैगरी एकादश के प्रति न थी। बहुत से कॉर्डिनेल ( नामक उच्चपदस्थ पादरी ) फ्रैंच जातीय थे; उनके आचार-विचार एविगनान नामक फ्रांसीसी नगर-निवासियों के सदृश थे और उन्हीं नगर-निवासियों से उनका समागम था। ग्रैगरी एकादश के मृत्यूपरांत, इटैलियन जातीय अरवन षष्ठ को पोप चुनते ही इन असंतुष्ट कॉर्डिनेल ( नामक ) पदधारी पादरियों ने उस निर्वाचन को अप्रामाणिक ठहराकर 'क्लीमेंट सप्तम' को प्रतिद्वंद्वी पोप निर्वाचित कर दिया; यही फूट महान् धार्मिक मतभेद के नाम से विख्यात है। अब एक पोप तो रोम में रहने लगा और समस्त फ्रैंच-विद्वेषी शक्तियाँ अर्थात् पवित्र रोम-साम्राज्य के सम्राट्, ईंग्लैंड, पोलैंड तथा उत्तरीय यूरोप के समस्त नृपतिगण उसके अनुयायी—भक्त—बन गये; और उसके प्रतिद्वंद्वी पोपों का स्थान था एविगनान तथा उनके सहायक और भक्त थे फ्रांस के राजा एवं उनके मित्र स्कॉटलैंड, स्पेन और पुर्तगाल के शासक तथा विविध जर्मन राजकुमार। बात यहाँ तक बढ़ गई थी कि प्रत्येक पोप न केवल अपने प्रतिद्वंद्वी प्रत्युत उसके अनुयायी दल को भी बहिष्कृत कर धिक्कारने लग गया था (१३१८-१४१७)। ऐसी दशा में यदि यूरोप की साधारण प्रजा अब धर्म-संबंधी विषयों पर स्वतंत्रता-पूर्वक स्वयं ही मनन करने लगी तो इसमें कौन अचरज है।

उपरोक्त फ्रैंसिसकन और डोमिनिकन नामक दो संप्रदायों के अतिरिक्त, क्रिश्चियन राज्यों में अन्य शक्तियों का भी प्रादुर्भाव हो रहा था। इनके द्वारा चर्च की रक्षा होगी या पतन, इसका निर्णय स्वयं चर्च ही की बुद्धि पर निर्भर था। इन दोनों पंथों के चर्च ने अपनाया भी और इनसे सहायता भी प्राप्त की, परंतु फ्रैंसिसकन के साथ उनका व्यवहार कुछ कठोर ही रहा। अन्य शक्तियाँ भी स्पष्ट रूप से चर्च की अवहेलना कर उसके कार्यों की कड़ी आलोचनाएँ किया करती थीं। फिर १५० वर्ष पश्चात् वाइ-क्लिफ का प्रादुर्भाव हुआ ( १३२०-१३८४ )। वह आक्सफोर्ड का प्रसिद्ध डाक्टर था। जीवन के प्रायः अंतिम काल में उसने पादरियों के दूषण एवं चर्च की मूर्खताओं की अत्यंत कड़ी आलोचनाएँ करनी प्रारंभ कर दीं। 'वाइक्लिफाइट' कहलानेवाले निर्धन पुरोहितों को उसने समस्त ईंग्लैंड में अपने विचारों का धूम-धूमकर प्रचार करने

के लिए संगठित किया। अपने और चर्च के उपदेशों के सत्यासत्य का निर्णय जनता द्वारा कराने के लिए उसने वाइविल का अंगरेजी भाषा में अनुवाद भी कर डाला। सेंट (महात्मा) डोमिनिक अथवा सेंट फ्रैंसिस के मुक्ताविले में वह कहीं अधिक योग्य एवं विद्वान् था। उच्चकुलाभिभूत पुरुष वाइकिलफ की सहायता करते और जन-साधारण का अधिकांश उसका अनुयायी था। रोम ने क्रुद्ध हो उसके बंदीगृह में डालने की आज्ञा दे दी परंतु वह स्वतंत्र ही मरा। कैथोलिक (अर्थात् सहिष्णु परंतु वास्तव में असहिष्णु) चर्च को विनाश की ओर ले जानेवाले उस प्राचीन तामसिक भाव ने इस बेचारे की हड्डियों तक को समाधि में विश्राम न लेने दिया और कॉन्स्टेंस की सभा के आदेश द्वारा (१४१५) उसके अस्थि-अवशेष को समाधि से निकालकर जलाने की आज्ञा दे दी गई। विशप फ्रैमिंग ने १४२८ में मार्टिन पंचम नामक पोप की उक्त आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन किया। हड्डियों को इस प्रकार निकालकर जलाना किसी अकेले धर्मान्ध पुरुष का कुकृत्य नहीं था, वह तो वास्तव में समस्त धर्म-(चर्च) अधिकारियों का सम्मिलित कार्य था।

## मंगोलों की विजय

जिस समय तेरहवीं शताब्दी में समस्त ईसाई राज्यों के एकीकरण के लिए पोप की अधीनता में अद्भुत परंतु निष्फल पारस्परिक युद्ध चल रहे थे, उसी समय एशिया के अधिक विस्तृत रंगमंच पर इनसे कहीं अधिक प्रभावोत्पादक नाटक का अभिनय हो रहा था। चीन के उत्तर की और के देश से, संसार के कार्य-क्षेत्र में अवतीर्ण हो, सहसा उत्कर्ष पा, तातार जाति ने ऐसी विजय-माला पिरोई कि जिसकी समता इतिहास में नहीं मिलती। तेरहवीं शताब्दी के प्रारंभ तक तो इस पशुचारणोपजीवी जाति के समुदाय के समुदाय अपने पुरखा हूणों के समान कम्बलों के डेरों में रहते और मांस तथा घोड़ी के दूध के आधार पर जीवन व्यतीत करते थे। चीनी राजाओं के शासन का जुआ, उस समय उन्होंने अपने कंधों से उतारकर फेंक दिया था और अन्य तुर्की जातियों से मेल कर अपना एक सैनिक-संघ बना डाला था, जिसका प्रधान शिविर ऑन ऑन नदी के तट पर साइबेरिया में था।

चीन देश उस समय कई भागों में विभक्त था। महान् तंगवंश का तो दसवीं शताब्दी में ह्रास हो गया था। फिर पारस्परिक युद्ध करनेवाले राज्यों के युग के पश्चात् चीन में केवल तीन राज्य शेष रहे। उत्तर में किन नामक राज्य था, जिसकी राजधानी पैकिन थी; दक्षिण में तंग राज्य था, जिसकी राजधानी नानकिंग थी; और मध्य में हसिया नामक राज्य था। १२१४ में इस तुर्क संघ के नायक चंगेज़ खाँ ने उत्तरीय किन नामक राज्य से युद्ध कर पैकिन पर अपना अधिकार जमा लिया; फिर उसने पश्चिम की ओर मुख मोड़कर पश्चिमीय तुर्किस्तान, फ़ारस, आरमीनिया और लाहौर पर्यंत भारत और कीफ़ पर्यंत दक्षिणीय रूस को जा जीता। मृत्यु के समय प्रशान्त महासागर से लेकर नीपर नदी पर्यंत फैले हुए महान् साम्राज्य पर उसका शासन-चक्र चल रहा था।

उसके उत्तराधिकारी उगादई खाँ ने भी अपना यह अद्भुत विजय-क्रम जारी रखा और कराकुरम पर्वतमाला के मंगोलिया प्रदेश में अपना स्थायी राज्य स्थापित

किया। कहीं अधिक उत्तम रीति से संगठित होने के अतिरिक्त उसकी सेना, चीनियों द्वारा हाल ही में आविष्कृत, वारुद से भी पूर्णतया सुसज्जित थी जिसका छोटी-छोटी तोपों में उपयोग किया जाता था। 'किन' साम्राज्य की विजय पूर्ण कर यह महानायक (टिड्डियों के समान) अपने सैन्यदल को एशिया महाद्वीप पार करता हुआ सीधा रूस की ओर ले गया (१२३५) जो एक महान् विजय-यात्रा थी। फिर कीफ नामक नगर के उसने १२४० में विध्वंस किया और प्रायः समस्त रूस मंगोलों का करद हो गया। पोलैंड को लूटकर पोल तथा जर्मन जाति की मिश्रित सेना के उसने निम्न साइलीसिया प्रदेश के लिगनिट्ज़ नामक स्थान पर १२४१ के युद्ध में छिन्न-भिन्न कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि सम्राट् फ्रैडरिक द्वितीय ने इस ज्वार के रोकने का पूर्ण प्रयत्न नहीं किया था।

'रोम साम्राज्य का हास और पतन' नामक गिब्यन की पुस्तक की टिप्पणी में थरी महाशय लिखते हैं कि यूरोपीय इतिहासज्ञों के हाल ही में इस बात का पता चला है कि जिसने पोलैंड को बुरी तरह रौंद डाला और १२४१ की वसन्त ऋतु में हंगेरी पर अपना अधिकार जा जमाया, उस मंगोल-सैन्य की विजय उसके बहुसंख्यक होने पर निर्भर नहीं, प्रत्युत इसका हेतु था रग्नीति-कौशल में उसकी पराकाष्ठा। परन्तु इम तथ्य से जनसाधारण अभी अनभिज्ञ हैं। गँवारों की अभी यही धारणा चली जाती है कि 'तातारियों की असभ्य जाति पूर्वीय यूरोप को कूदते हुए असंख्य अश्वारोही दल के भरोसे ही बहिया में तिनके की भाँति बहाकर ले गई। इन बरबरो में रग्नीति-कौशल नाम मात्र के न था। अपनी बहुसंख्या के कारण ही इन्होंने समस्त प्रतिवन्धों को मिट्टी में मिला दिया; इत्यादि।'

लोअर विससुला नदी से लेकर ट्रांसिलवैनिया पर्यन्त फैले हुए विस्तृत प्रदेश में इनके समस्त व्यापार ठीक समय और ऐसे सफलता-पूर्वक होते थे कि उनका वृत्त जानने पर हमारे अचरज की सीमा नहीं रहती। ऐसी महती युद्ध-प्रवृत्ति किसी भी तत्कालीन यूरोपियन सेना के बलवृत्ते की न थी और न किसी यूरोपीय सेनानायक के मस्तिष्क ही में ऐसा विचार प्रवेश कर सकता था। फ्रैडरिक द्वितीय से लेकर निम्न श्रेणी पर्यन्त एक भी ऐसा सेनानायक समस्त यूरोप में न था, जो रग्नीति-कौशल में मंगोल-नायक सुबुताई के मुकाबिले में नौसिखिया की भाँति न हो। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि इस दुष्कर्म के प्रारंभ करने से प्रथम मंगोल जाति ने तो हंगेरी तथा पोलैंड की राजनैतिक अवस्था एवं दशा का सुच्यवस्थित चर-प्रणाली डाग मंजूर ज्ञान प्राप्त कर लिया था; परन्तु हंगेरी-निवासी तथा अन्य क्रिश्चियन शक्ति-यो अज्ञ बरबरो के समान, ज्ञान शत्रुओं के संबंध में कुछ भी जानकारी न रखती थीं।

परंतु लैगनिट्ज़ में विजय प्राप्त कर मंगोल फिर पश्चिम की ओर अग्रसर नहीं हुए। जंगली प्रदेश तथा पर्वतमालाओं के कारण उनका रणनीति-कौशल वहाँ सफल न हो सका; अतएव दक्षिण दिशा की ओर मुड़कर वे हंगेरी ही में बसने को तैयार हो गये और जिस प्रकार वहाँ के वासी उनके सजातीय मगयारों ने अपने पूर्ववर्ती सीथियन, अवार तथा हूणों के साथ बर्ताव किया था, उसी प्रकार उन्होंने भी कहीं तो मग जाति का क्रतलेआम किया और कहीं उनसे मेल कर लिया।

हंगेरी के मैदान में बस जाने के पश्चात् हंगेरियन जाति ने जिस प्रकार नवीं शताब्दी में तथा अवार जाति ने सातवीं और आठवीं शताब्दी में और हूण जाति ने पाँचवीं शताब्दी में पश्चिम तथा दक्षिण दिशा की ओर आक्रमण करने प्रारंभ कर दिये थे, उसी प्रकार शायद वे (तातार) भी करते, परंतु १२४२ में ओगदयी की सहसा मृत्यु हो जाने के कारण किसका उत्तराधिकारी बनाया जाय? इस प्रश्न पर ही उनमें ऐसा गृहकलह प्रारंभ हुआ कि अपराजित मंगोलों के दल हंगेरी और रूमानिया की राह पुनः पूर्व दिशा की ओर लौट पड़े।

इसके पश्चात् मंगोल दत्तचित्त होकर एशिया महाद्वीप के ही विजय करने में लग गये और तेरहवीं शताब्दी का आधा भाग बीतते न बीतते उन्होंने संग-साम्राज्य का जीत लिया। ओगदयी ख़ाँ की मृत्यु के उपरांत १२५१ में 'महान् ख़ान' की उपाधि धारण कर मंगूख़ान उसका पदाधिकारी हुआ और उसने अपने भाई कुवलई ख़ान को चीन का गवर्नर बना दिया। जब १२८० में कुवलई ख़ान को नियमित रूप से चीन का सम्राट् मान लिया गया तो उसने वहाँ यूआन वंश की नींव डाली जिसका अस्तित्व १३६८ तक कायम रहा। संग-शासन के अंतिम भग्नावशेषों का जब चीन में इस प्रकार नाश हो रहा था उसी समय मंगूख़ान का एक और भाई हलाकू ख़ान पश्चिम की ओर फ़ारस तथा सीरिया के जीतने में लगा हुआ था। मंगोल इस समय इसलाम से घोर विद्वेष रखते थे; उन्होंने बग़दाद विजय करने के पश्चात् नगर-निवासियों का संहार करके ही संतोष न किया; प्रत्युत अत्यन्त प्राचीन जलसिंचन-पद्धति को भी जिसके कारण अतीत-कालीन सुमेरिया के समय से लेकर उस समय तक मैसोपोटामिया अत्यंत धन-धान्य एवं जन-पूरित हो रहा था, संपूर्णतया नष्ट-भ्रष्ट कर डाला; यही कारण है कि तब से आज पर्यंत यह देश प्राचीन भग्नावशेषों का मरुस्थल तथा अल्पसंख्यक जन-पृग्नि चला जाता है। मिस्र में मंगोल कभी न घुस सके। वहाँ के सुलतान ने तो १२६० में हलाकू ख़ान की सेना को पैलेस्टाइन के मैदान में बुरी तरह पराजित कर भगा दिया था।


इस घोर आपत्ति के पश्चात् मंगोलों की विजय-लहरी में भाटा आना प्रारंभ हो गया। यहाँ तक कि 'महान् खान' का वृहत् साम्राज्य बहुत सी छोटी छोटी रियासतों में विभक्त हो गया। चीन-निवासियों के समान अब पूर्वोक्त मंगोलों ने तो बौद्ध-धर्म अंगीकार कर लिया और पश्चिम दिशा-वासियों ने इस्लाम की दीक्षा ले ली। यूआन वंश के शासन का जुआ भी चीनियों ने १३६८ में उतारकर फेंक दिया और उसके स्थान में तद्देशीय मिंग-वंश का राज्य स्थापित हो गया जो १३६८ से १६४४ तक चलता रहा। उधर अग्नि-कोणस्थ रूस के प्रसिद्ध स्टैपपीज़ (पठारों) में १४८० ई० तक तो तातारियों का राजस्व मिलता रहा; परंतु उसके पश्चात् मॉस्को के ग्रैंड ड्यूक ने उनके प्रति राज-भक्ति प्रदर्शित करना छोड़ पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर आधुनिक रूस की नींव डाली।



तातारी सवार



चंगेज़ खान के वंशज तैमूरलेन अथवा तैमूरलंग के समय में—१४ वीं शताब्दी में—कुछ समय के लिए मंगोलों में पुनः बल का संचार हुआ था। उस समय इस व्यक्ति ने पश्चिमीय तुर्किस्तान में अपना शासन दृढ़ करने के अनंतर १३६९ में महान् खान की उपाधि धारण कर सीरिया से लेकर दिल्ली पर्यन्त समस्त देश जीत डाले। सब मंगोल-विजेताओं में यही एक सबसे अधिक क्रूरकर्मा और विध्वंसक था। इसका स्थापित किया हुआ निर्जन एवं शून्य साम्राज्य तो इसकी मृत्यु के उपरांत ही लुप्त हो गया; परन्तु इसके वंशज बाबर नामक एक साहसी व्यक्ति ने १५०५ में तोपखाने सहित एक सैन्यदल एकत्रित करने के पश्चात् भारत के मैदानों पर धावा बोल दिया और उसके पौत्र अकबर ने (१५५६-१६०५) इन विजयों को संपूर्ण कर अपने वंश का राज्य भारत में दृढ़तापूर्वक स्थापित कर दिया। यह मंगोल वंश (जिसको अब लेखक मुगल कहते हैं) देहली तथा भारत के अधिक भाग पर अठारहवीं शताब्दी तक राज्य करता रहा।



तेरहवीं शताब्दी में मंगोलों के इन प्राथमिक महान् आक्रमणों के कारण तुर्क जाति का उममान नामक एक समुदाय तुर्किस्तान में निकलकर एशिया माइनर में चला गया था। यहाँ पर अपना शासन दृढ़तापूर्वक स्थापित करने के अनंतर इस जाति ने अग्रसर हो इटैलिनियम का जलधौव पार कर मैसिटोनिया, मर्बिया और बलगोरिया पर आक्रमण कर

दिया। यहाँ तक कि अन्त में उसमानिया के शासन समुद्र में ईसाइयों का कॉन्स्टेंटिनोपिल नामक नगर केवल एक द्वीप के समान प्रतीत होता था। परंतु उसमान वंशीय सम्राट मुहम्मद द्वितीय ने यूरोप की ओर से बहुत सी तोपों द्वारा आक्रमण कर इन नगर को भी अपने हस्तगत कर लिया। इस घटना से यूरोप में बड़ी हलचल मची और पुनः धार्मिक युद्ध छेड़ने की चर्चा होने लगी; परंतु ऐसे क्रूसेड्स के दिन तो कभी के बीत चुके थे।

सोलहवीं शताब्दी में उसमान-वंशीय मुलतानों ने बगदाद, हंगेरी, मिस्र और उत्तरीय अफ्रीका के अधिकांश भाग अपने अधीन कर लिये। और प्रबल नौबल के कारण उस समय समस्त भूमध्यसागर पर इनका शासन था। वीयना नामक नगर तो इनके हाथों पड़ने से बाल-बाल बचा था; परंतु सम्राट् (पवित्र रोम-साम्राज्य के सम्राट्) से इन्होंने राजस्व फिर भी बल-पूर्वक ले ही लिया। पन्द्रहवीं शताब्दी में क्रिश्चियन राज्य-समुद्र का हास-रूपी भाटा रोकनेवाली केवल दो घटनाएँ घटित हुई थीं; अर्थात् मोस्को का स्वाधीनता प्राप्त करना और ईसाइयों द्वारा स्पेन का धीरे-धीरे पुनर्विजय। १४९२ में इस प्रायद्वीप का ग्रानादा नामक अंतिम मुसलिम स्थान भी ऐरागोन के राजा फर्डिनंद और उनकी पत्नी—कैस्टील की आइसबेला—के हाथों में आ गया।

परंतु लैपैन्टो के अंतिम नाविक युद्ध में (१५७१) उसमानों की शक्ति का दर्प जब तक संपूर्णतया चूर्णित न हुआ, तब तक ईसाइयों का प्रभुत्व और उनकी महत्ता भूमध्य-सागर में पूर्ण रूप से फिर भी स्थापित न हो सकी।

## यूरोपीय जातियों का बौद्धिक पुनरुत्थान

समस्त बारहवीं शताब्दी में बहुत से ऐसे लक्षण प्रतीत होते थे जिनसे शत होता था कि यूरोपीय जातियों की बुद्धि अवकाश पा, और उत्साहित हो, प्राचीन यूनानियों की वैज्ञानिक मीमांसाओं और इटैली-वासी ल्यूक्रेटियस के गहन विचारों में पुनः अग्रसर हो रही थी। इस पुनरुत्थान के और बहुत से दुरूह कारण हैं; परंतु पारस्परिक युद्धों का निरोध ( बंदिश ), क्रूसेड्ज़ के उपरांत रक्षा एवं सुख-साधन की प्राप्ति और उपरोक्त यात्रा के अनुभव द्वारा उत्पन्न हुआ मनुष्यों का चित्तोत्साह वास्तविक और प्रधान हेतु थे। इनके अतिरिक्त व्यापार की उस समय पुनर्बुद्धि हो रही थी; नगरों में फिर वैयास ही सुख और शांति मिलने लगी थी, उच्च श्रेणी की शिक्षा का चर्च में प्रादुर्भाव तथा उसका जन-साधारण में प्रचार हो चला था। तेरहवीं और चौदहवीं शताब्दी सरीखे काल में ही वेनिस, फ्लोरेंस, जिनोआ, लिसबन, पैरिस, ब्रूजेज़, (Bruges), लंदन, एंटरप, हैमबर्ग, नूरेमबर्ग, नौवगॉरोद, विसबी और वर्गन इत्यादि स्वाधीन अथवा अर्ध-स्वाधीन नगरों की उन्नति हुई थी। ये व्यापारिक नगर सदा यात्रियों से भरे रहते थे और यात्रा तथा व्यापार करते समय पुरुषों में पारस्परिक वार्तालाप और विचार-विनिमय भी होता ही है। रोष तथा गजकुमारों के वादविवाद और नास्तिकों के प्रति स्पष्ट वर्चस्वता एवं धूर्त्तता भरे अत्याचारों के कारण चर्च के प्रभुत्व को लोग और भी शंकित चित्तों देखने और धर्म के प्रधान मौलिक तत्त्वों पर स्वयं निर्णय करने के लिए उत्साहित हो रहे थे।

यूरोप ने ऐरिस्टोटिल को किस प्रकार से अरबों द्वारा पुनः प्राप्त किया और किस प्रकार फ्रेंचरिक् द्वितीय सरीखे राजा के कारण अरबी के दार्शनिक तथा वैज्ञानिक विचारों का वर्धिष्णु-यूरोपीय मस्तिष्कों पर प्रभाव पड़ा था यह हम अभी बता चुके हैं। परंतु हमने भी कहीं अधिक उल्लाह और वेग से जिन्होंने मानव-विचारों को मड़काया था वे यहर्दा थे। उनका तो अस्तित्व ही चर्च के संपूर्ण दावे के सम्मुख मानों


प्रशसूचक चिह्न की भाँति बना हुआ था। और अंत में रासायनिकों (एलकैमिस्ट) की चित्ताकर्षक परंतु गुप्त गवेषणाएँ दूर दूर तक फैलकर पुरुषों को रहस्य में लुब्ध परन्तु सकल होनेवाले क्रियात्मक भौतिक विज्ञान की ओर उत्साहित कर रही थी।

मनुष्यों का यह चित्तोद्वेग अब केवल सुशिक्षितों और स्वतंत्र विचार रखनेवालों तक ही परिमित न था। संसार के मानव-मस्तिष्क ही में इस समय अननुभूतपूर्व रीति से सर्वतोमुखी जागृति हो रही थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पादरियों तथा (घोर) अत्याचारों के होते हुए भी क्रिश्चियन धर्म का कुछ ऐसा प्रभाव था कि जहाँ जहाँ इसकी शिक्षा का प्रचार किया जाता था वहाँ वहाँ एक प्रकार का मानसिक उत्थाप फैल जाता था। इस धर्म के सिद्धान्त प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा और सत्य परमेश्वर के बीच ऐसा साक्षात् संबंध स्थापित कर देते थे कि आवश्यकता पड़ने पर उसको किसी भी राजकुमार, पादरी अथवा पंथ के विषय में निरर्थक करने का सदा साहस रहता था।

यूरोप में ग्यारहवीं शताब्दी सरीखे प्राचीन समय से ही दार्शनिक विषयों पर वादविवाद होना प्रारंभ हो गया था। पैरिस, ऑक्सफोर्ड, बोलोना आदि अन्य केन्द्रों में महान् एवं उन्नतिशील विश्वविद्यालयों की स्थापना हो गई थी और भविष्य के वैज्ञानिक युग में शुद्ध एवं सभ्य रीति से विचार करने के लिए जिन शब्दों के अर्थ और ससारता को जानने की सर्वप्रथम आवश्यकता हुई उनको इन्हीं स्थानों के मध्यकालीन तार्किक जन समस्या की भाँति विचार करने के अनंतर तुप सहित अनाज से कणवत् पृथक् कर रहे थे। परंतु फ्रैंसिसकन पंथानुयायी आधुनिक भौतिक विज्ञान के पिता, ऑक्सफोर्ड निवासी रोजर बेकन का स्थान अपनी अपूर्व एवं अद्वितीय प्रतिभा के कारण इन सब से उच्च था। हमारे इतिहास में इस पुरुष का नाम महत्ता की दृष्टि से केवल ऐरिस्टॉटिल के पश्चात् ही लिखा जाना उचित है। इसके लेख अज्ञान के विरुद्ध एक लंबी-चौड़ी निंदात्मक समालोचना है। और अपने समय को अज्ञानयुग बताकर भी इसने अत्यंत साहस का परिचय दिया है। आजकल तो गंभीर एवं सभ्य संसार को महामूर्ख कहने और उसकी कार्य-विधि को स्तनपायी शिशु-तुल्य और भद्दी बताने तथा उसके सिद्धान्तों के बालकों के मनोनीत विचारों की उपमा देनेवाले पुरुष को काथिक कष्ट का बहुत अधिक डर नहीं है; परंतु उस समय की बात जुदा थी। यह मध्यकालीन जातियाँ तो सर्वसंहार, महामारी तथा दुर्भिन्न आदि कराल-काल के काल में भेजेनेवाले समयों को छोड़कर दृढ़ता से सदैव अपने को ज्ञानी और त्वकीय सिद्धान्तों के सर्वांगपूर्ण समझने के कारण प्रत्येक आक्षेप पर उग्र रूप से क्रोधित हो उठती थीं। रोजर बेकन के ये लेख, उस घोरान्धकार में सहसा प्रकाशित होनेवाली विद्युत्-रेखा के समान थे। सम-

सामयिक अज्ञानता पर आक्षेप करने के अतिरिक्त उसने ज्ञान बढ़ाने के भी बहुत से उपाय बताये। ज्ञान को एकत्रित करने तथा प्रयोगों की आवश्यकता पर उसने ऐसी भावुकता से जोर दिया है कि हमको उसके शरीर में ऐरिस्टोटिल की आत्मा पुनः प्रविष्ट हुई सी प्रतीत होती है। “प्रयोग करो, प्रयोग करो” यही रौजर वेकन के राग की टेक है।

परंतु ऐरिस्टोटिल की रौजर वेकन सदा निंदा ही करता रहा। और इसका कारण यह था कि वस्तुओं का ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त करने के स्थान में मनुष्य उस महान् शिक्षक के केवल उन भद्दे लैटिन अनुवादों ही का—जो उस समय उपलब्ध थे—कमरो में



बम्बुट की मूर्ति (अफ्रीका  
के वैनिन स्थान में  
मिली हुई)

बम्बुट की मूर्ति (अफ्रीका के वैनिन स्थान में मिली हुई) का उल्लेख है। “केवल इन्हीं को जीतने पर” वेकन के मत में—“नमस्त शक्तियों के भंडार मनुष्य के लिए खुल जायेंगे।”

बैठकर मनन करते थे। अपनी उसी अमर्यादित विधि से वह लिखता है कि “यदि मेरा वंश चलता तो मैं ऐरिस्टोटिल की समस्त ग्रंथावली को अग्नि के समर्पण कर देता; क्योंकि इसके अध्ययन से एक तो समय बृथा नष्ट होता है, दूसरे मिथ्या विचारों के उत्पन्न होने के कारण अज्ञानता बढ़ती है।” ये भाव ऐसे हैं कि ऐरिस्टोटिल की आत्मा यदि संसार में पुनः पदार्पण करती—जहाँ उसके ग्रंथों के अध्ययन की अपेक्षा उनकी पूजा ही अधिक होती थी जैसा कि रौजर वेकन ने उन गहिरे अनुवादों से स्वयं सिद्ध कर दिया था—तो वह भी इन भावों का पूर्णरूपेण समर्थन करती।

अपनी समस्त पुस्तकों में जो जेल जाने तथा अन्य अधिक भयानक फल भोगने के भय से कट्टर सनातन विचारों में प्रकाश्य रूप में मेल खाती हुई लिखी गई थी रौजर वेकन समस्त मानव समाज को यही घोषणा देता है कि “मिद्धातो और (धर्म के) प्रामाणिक ग्रंथों का सहारा छोड़ अब संसार की ओर देखो। प्रमाण बचनों के प्रति श्रद्धा, लोकाचार, अज्ञानी जनसमुदाय के भाव और मानवस्वभाव की अशिक्षणीय अहकारिक प्रकृति इन चार अज्ञानता के उद्गमस्थानों को उमने हेय मनुष्य के लिए खुल जायेंगे।”

“जल-यात्रा के लिए ऐसे पतवारहीन यंत्रों का बनाना भी संभव है जिनमें मुसजित हो जाने पर नदी अथवा समुद्रोचित बड़े बड़े पोत अधिक पुरुषों के स्थान में एक—केवल एक ही—मनुष्य द्वारा अधिक तीव्र गति से चलाये जा सकें। इसी प्रकार ऐसी गाड़ियाँ भी बन सकती हैं जो बिना पशु के बहन किये हुए भी पुराण-वर्णित योद्धाओं के दरतीदार (Scythed) युद्धियों के समान तर्कनातीत द्रुत गति से दौड़ सकतीं (Cum impetu inoestimabile)। ऐसी उड़ाकू मशीन का बनाना भी संभव है जो उसके मध्य में बैठे हुए मनुष्य के किसी कल को दवाते या घुमाते ही पत्ती के समान कृत्रिम परों को फड़कड़ाती हुई वायुमंडल में घाल-प्रतिघात करती विचरने लगे।”

जिस कल्याण-दायक मार्ग को वेकन ने इतनी स्पष्टता से मनुष्यों के निष्प्रभ व्यवहारों में देखकर उपरोक्त कथन में लेख-वद्द क्रिया था उसी को—कहीं तीन शताब्दियों बीत जाने के पश्चात्—मनुष्य ने प्रच्छन्न शक्ति के रूप में प्राप्त करने का सुध्यवस्थित प्रयत्न किया है।

परंतु क्रिश्चियन धर्मावलंबियों के अरथ संसार में दार्शनिक तथा कीमियागरों (रासायनिकों) के रूप में प्रोत्साहन मिलने के अतिरिक्त काराज़ भी मिला। यदि यह कहा जाय कि काराज़ ही के कारण यूरोप का यह बौद्धिक पुनरुत्थान संभव हुआ है तो यह कथन अत्युक्ति न होगा। काराज़ का आविष्कार चीन में हुआ था और वहाँ ईसा से दो शताब्दी पूर्व सरीखे प्राचीन काल में भी इसका व्यवहार होता था। ७५१ ई० में चीनियों ने समरकंड के अरब-जातीय मुसलमानों पर आक्रमण किया; परंतु युद्ध में पराजय हो जाने के कारण अरबों ने कुछ ऐसे पुरुषों को भी बंदी बना लिया जिनको काराज़ बनाना आता था; उनसे यह विद्या प्राप्त की गई। नवीं शताब्दी और इसके पीछे के काराज़ों पर लिखे हुए अरबी ग्रंथ अथ भी उपलब्ध होते हैं। या तो यूनान की राह या ईसाइयों द्वारा स्पेन के पुनर्विजय के समय ‘मूर’ नामक मुसलमानों के काराज़ बनाने के काराज़ानों पर कब्ज़ा होने से काराज़ बनाने का तरीका यूरोप की ईसाई जनता को भी मालूम हुआ। स्पेन



हवर्शी द्वारा बनाई हुई एक योरप-निचामी की मूर्ति

के ईसाइयों द्वारा तैयार किये हुए कागज़ की क्रिस्म दिन पर दिन रही होती गई। क्रिश्चियन धर्मावलंबी यूरोप में अच्छा कागज़ तो तेरहवीं शताब्दी के अंत तक भी न बन सका था। तब केवल इटैली ही सबसे अच्छा कागज़ बनाने में संसार का अग्रणी था। चौदहवीं शताब्दी में जर्मनीवालों को कागज़ बनाने की तरकीब मालूम हुई परंतु व्यावसायिक एवं व्यावहारिक रूप से पुस्तकों के लिए सस्ता और बहुत सा कागज़ बनाने की तरकीब का पता लगाने में वह शताब्दी भी पूरी वीत गई। उसके पश्चात् फिर मुद्रण तो आवश्यक और स्वाभाविक ही था। और इस आविष्कार के होते ही जगत् के वैदिक जीवन ने एक नवीन और कहीं अधिक बलशाली एवं उन्नतिशील युग में पदार्पण किया। उस युग का तो अब सदा के लिए अंत हो गया था जब ज्ञान एक मस्तिष्क से दूसरे मस्तिष्क में वृद्धों की भाँति टपकता था अब तो उसने एक 'वहिया' का रूप धारण किया था जिससे सहस्रों लाखों करोड़ों आत्माएँ तृप्त होने लगीं।

मुद्रण चालू होते ही एक तात्कालिक फल तो यह हुआ कि संसार में 'वाइबिल' के ढेर लग गये, दूसरे पढ़ाई की किताबें भी सस्ती विकने लगीं। शिक्षा-संबंधी ज्ञान अब शीघ्रता से फैलने लगा। इस समय संसार में न केवल पुस्तकों की संख्या खूब बढ़ रही थी प्रत्युत उनकी भाषा भी पहले से कहीं अधिक सरल और सुगमता से समझने योग्य होनी थी। उन दुर्ज्ञेय वाक्यों के स्थान में जिनको कठिनाई से पढ़ने के उपरांत अर्थ-बोध के लिए पुनः मनन करना पड़ता था, अब ऐसे सरल शब्द होते थे कि पाठक पढ़ने के साथ ही साथ बिना किसी रुकावट के उनका आशय भी भली भाँति समझ सकते थे। इन प्रकार ज्यों-ज्यों पढ़ना अधिक सुलभ होता गया, त्यों-त्यों पढ़नेवाले जन-समुदाय की संख्या भी दिन-प्रतिदिन बढ़ती गई। पुस्तकें अब, पहले की भाँति, विद्वानों का रहस्य अथवा मुमज्जित खिलौना नहीं। जन-साधारण के पढ़ने और समझने योग्य पुस्तकें ही अब लैटिन के बजाय बोल-चाल की भाषा में लिखी जाती थीं। इसी चौदहवीं शताब्दी में यूरोपीय नाट्य का वास्तविक इतिहास प्रारंभ होता है।

यूरोप के इस पुनरुत्थान में अरबों ने भाग लिया। केवल यही हमने अब तक वर्णन किया है। अब हम मंगोल आक्रमण-जनित प्रभावों का वर्णन करने के लिए आगम्य होते हैं। इनके कारण यूरोप में भौगोलिक कल्पनाओं को खूब ही प्रोत्साहन मिला। कुछ समय तक तो 'महान् ज्ञान' के अधीनस्थ नमस्त एशिया और यूरोप में स्वच्छन्दता का आवागमन होता था। नैर्पूर्ण राज-पथ अस्थायी रूप से खुल गये थे और प्रत्येक जाति के प्रतिनिधि कराकुम पर्वतमाला के दरवार में उपस्थित होते थे। उन्नाव्यों तथा मंगोलानों के पारस्परिक धर्मयुद्धों के कारण एशिया और यूरोप महाद्वीप के

मध्य जो एक प्रकार की रूकावट उत्पन्न हो गई थी, वह भी इस समय कम हो गई। पोप, मंगोलों के ईसाई बनाने की बड़ी आशाएँ कर रहे थे। ये लोग अभी तक आद्य-प्रतिमापूजक शुमान (अंशुमान्-सूर्य) नामक धर्म के अनुयायी थे। मंगोल राजसभा में पोप के दूत, भारतीय-बौद्ध-भिक्षु पैरिस, इटैली तथा चीन के दस्तकार और वैज्ञानिक एवं आरमीनिया के व्यापारी-सभी का अरब के अधिकारी-वर्ग और फ़ारस तथा भारत के गणित और ज्योतिष-शास्त्रियों से समागम होता था। मंगोल-आक्रमण तथा जन-संहार के संबंध में तो हम इतिहास में बहुत कुछ पढ़ते हैं, परंतु इस जाति के विद्यार्जन की कैसी उत्कट अभिलाषा एवं लालसा लगी हुई थी, इसका हमको पूर्वांत ज्ञान नहीं है। उत्पादक के रूप से तो नहीं परंतु शिद्धा एवं पद्धति फैलानेवाले (प्रसारक) के रूप से इस जाति का संसार के इतिहास पर बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ा है। और चंगेज़ खान अथवा कुबलैई खान के अस्पष्ट एवं विचित्र (Romantic) व्यक्तित्व के संबंध में जो बातें अब तक मालूम हुई हैं उनसे यह विचार तो अवश्य ही दृढ़ हो जाता है कि यह नरनाथ क्रम से क्रम उस अहंकारी एवं उत्का सम महान् ऐलेकज़ेंडर अथवा राजनैतिक प्रेतात्माओं को जगानेवाले पराक्रमशील परंतु अनपढ़ दार्शनिक शार्लमेन के समान तो अवश्य ही समभेदार और क्रियाशील थे।

मंगोल दरबार में जानेवाले इन पुरुषों में वैनिस-निवासी मार्कोपोलो नामक एक अत्यन्त रोचक व्यक्ति भी था जिसने अपनी कथा को पीछे से पुस्तक रूप में लिखा है। अपने पिता और पितृव्य के साथ, जिन्होंने इससे प्रथम एक बार और उस और यात्रा की थी, यह १२७२ में चीन देश को गया। दोनों बृद्धों (अर्थात् पिता और पितृव्य) का महान् खान के ऊपर अत्यन्त गहरा प्रवाह पड़ा था; लैटिन जाति के इन्हीं दो पुरुषों को उसने सर्वप्रथम देखा था और 'क्रिश्चियन धर्म' को समझाने की शक्ति रखनेवाले शिक्षकों, विद्वानों तथा औत्सुक्य-जनक अन्य पदार्थों की तलाश करने के लिए महान मंगोल शासक ने इनको पुनः यूरोप को लौटा दिया था। मार्को के साथ लेकर अब ये दूसरी बार राजदरबार में उपस्थित हुए थे। जिस क्रीमिया प्रदेश में होकर इन्होंने अपनी प्रथम यात्रा की थी, उस ओर न जाकर 'तीनों पोलो' इस बार पॅलेस्टाइन होकर चले। महान् खान द्वारा दी हुई स्वर्ण-पट्टिका तथा अन्य चिह्नों के कारण यात्रा करने में इनको अत्यन्त सुविधा हुई होगी। खान ने इनसे जेरुसलम की पवित्र समाधि (अर्थात् यीशू मसीह की कब्र) पर जलनेवाले दीप का कुछ तैल लाने को भी कहा था। अतएव यह सर्वप्रथम उसी ओर गये और वहाँ से सिलीसिया की राह आरमीनिया जा पहुँचे। मंगोल-राज्य पर इस समय मंगोल के सुलतानों का आक्रमण होने के कारण, इनको इस



के ईसाइयों द्वारा तैयार किये हुए कागज़ की क्रिस्म दिन पर दिन रही होती गई किश्चिन्वयन धर्मावलंबी यूरोप में अच्छा कागज़ तो तेरहवीं शताब्दी के अंत तक भी बन सका था। तब केवल इटैली ही सबसे अच्छा कागज़ बनाने में संसार का अग्रणी था। चौदहवीं शताब्दी में जर्मनीवालों को कागज़ बनाने की तरकीब मालूम हुई परंतु व्यावसायिक एवं व्यावहारिक रूप से पुस्तकों के लिए सस्ता और बहुत सा कागज़ बनाने की तरकीब का पता लगाने में वह शताब्दी भी पूरी वीत गई। उसके पश्चात् फिर मुद्रण तो आवश्यक और स्वाभाविक ही था। और इस आविष्कार के होने ही जगत् के वैदिक जीवन ने एक नवीन और कहीं अधिक बलशाली एवं उन्नतिशील युग में पदार्पण किया। उस युग का तो अब सदा के लिए अंत हो गया था जब ज्ञान एक मस्तिष्क से दूसरे मस्तिष्क में बूँदों की भाँति टपकता था अब तो उसने एक 'बहिया' का रूप धारण किया था जिससे सहस्रों लाखों करोड़ों आत्माएँ तृप्त होने लगीं।

मुद्रण चालू होते ही एक तात्कालिक फल तो यह हुआ कि संसार में 'बाइबिल' के डेर लग गये, दूसरे पढ़ाई की किताबें भी सस्ती विकने लगीं। शिक्षा-संबंधी ज्ञान आशीप्रता से फैलने लगा। इस समय संसार में न केवल पुस्तकों की संख्या खूब बढ़ रही थी प्रत्युत उनकी भाषा भी पहले से कहीं अधिक सरल और सुगमता से समझने योग्य होती थी। उन दुर्लभ वाक्यों के स्थान में जिनको कठिनाई से पढ़ने के उपरांत अर्थ बोध के लिए पुनः मनन करना पड़ता था, अब ऐसे सरल शब्द होते थे कि पाठक पढ़ने के साथ ही साथ बिना किसी रुकावट के उनका आशय भी भली भाँति समझ सकते थे। इस प्रकार ज्यों-ज्यों पढ़ना अधिक मुलभ होता गया, त्यों-त्यों पढ़नेवाले जन-समुदाय की संख्या भी दिन-प्रतिदिन बढ़ती गई। पुस्तकें अब, पहले की भाँति, विद्वानों का रहस्य अथवा मुनविजित खिलौना न थीं। जन-साधारण के पढ़ने और समझने योग्य पुस्तकें अब लैटिन के वजाय गोल-चाल की भाषा में लिखी जाती थीं। इसी चौदहवीं शताब्दी में यूरोपीय नाटिक का वास्तविक इतिहास प्रारंभ होता है।

यूरोप के इन पुनरुत्थान में अरबों ने भाग लिया। केवल यही हमने अब तक वर्णन किया है। अब हम मंगोल आक्रमण-जनित प्रभावों का वर्णन करने के लिए अग्रसर होते हैं। इनके कारण यूरोप में भौगोलिक कल्पनाओं को खूब ही प्रोत्साहन मिला। कुछ समय तक तो 'महान् खान' के अधीनस्थ समस्त एशिया और यूरोप एक-दूसरे से अत्यंत आवागमन होता था। संपूर्ण राज-पथ अद्वयार्थी रूप से खुल गये थे और प्रत्येक ज्ञान के प्रतिनिधि कराकुम पर्वतमाला के दरवार में उपस्थित होते थे। उन्मत्तों तथा मूर्खतामयों के पारस्परिक धर्मयुद्धों के कारण एशिया और यूरोप महाद्वीप

मध्य जो एक प्रकार की रुकावट उत्पन्न हो गई थी, वह भी इस समय कम हो गई। पोप, मंगोलों के ईसाई बनाने की बड़ी आशाएँ कर रहे थे। ये लोग अभी तक आद्य-प्रतिमापूजक शुमान (अंशुमान्-सूर्य) नामक धर्म के अनुयायी थे। मंगोल राजसभा में पोप के दूत, भारतीय-बौद्ध-भिन्तु पैरिस, इटैली तथा चीन के दस्तकार और वैज्ञानिक एवं आरमीनिया के व्यापारी-सभी का अरब के अधिकारी-वर्ग और फ़ारस तथा भारत के गणित और ज्योतिष-शास्त्रियों से समागम होता था। मंगोल-आक्रमण तथा जन-संहार के संबंध में तो हम इतिहास में बहुत कुछ पढ़ते हैं, परंतु इस जाति को विद्यार्जन की कैसी उत्कट अभिलाषा एवं लालसा लगी हुई थी, इसका हमको पर्याप्त ज्ञान नहीं है। उत्पादक के रूप से तो नहीं परंतु शिक्षा एवं पद्धति पैलानेवाले (प्रसारक) के रूप से इस जाति का संसार के इतिहास पर बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ा है। और चंगेज़ खान अथवा कुबलाई खान के अस्पष्ट एवं विचित्र (Romantic) व्यक्तित्व के संबंध में जो बाले अब तक मालूम हुई हैं उनसे यह विचार तो अवश्य ही दृढ़ हो जाता है कि यह नरनाथ कम से कम उस अहंकारी एवं उल्का सम महान् ऐलेकज़ेंडर अथवा राजनैतिक प्रेतात्माओं को जगानेवाले पराक्रमशील परंतु अनपढ़ दार्शनिक शार्लमेन के समान तो अवश्य ही समभूदार और क्रियाशील थे।

मंगोल दरवार में जानेवाले इन पुरुषों में वैनिस-निवासी मार्कोपोलो नामक एक अत्यन्त रोचक व्यक्ति भी था जिसने अपनी कथा को पीछे से पुस्तक रूप में लिखा है। अपने पिता और पितृव्य के साथ, जिन्होंने इससे प्रथम एक बार और उस और यात्रा की थी, यह १२७२ में चीन देश को गया। दोनों वृद्धों (अर्थात् पिता और पितृव्य) का महान् खान के ऊपर अत्यन्त गहरा प्रवाह पड़ा था; लैटिन जाति के इन्हीं दो पुरुषों को उसने सर्वप्रथम देखा था और 'क्रिश्चियन धर्म' को समझाने की शक्ति रखनेवाले शिक्षकों, विद्वानों तथा औत्सुक्य-जनक अन्य पदार्थों की तलाश करने के लिए महान् मंगोल शासक ने इनके पुनः यूरोप को लौटा दिया था। मार्को को साथ लेकर अब ये दूसरी बार राजदरवार में उपस्थित हुए थे। जिस क्रिमिया प्रदेश में होकर इन्होंने अपनी प्रथम यात्रा की थी, उस ओर न जाकर 'तीनों पोलो' इस बार पैलेस्टाइन होकर चले। महान् खान द्वारा दी हुई स्वर्ण-पट्टिका तथा अन्य चिह्नों के कारण यात्रा करने में इनके अत्यन्त सुविधा हुई होगी। खान ने इनसे जेरुसलम की पवित्र समाधि (अर्थात् यीशू मसीह की कब्र) पर जलनेवाले दीप का कुछ तैल लाने को भी कहा था। अतएव यह सर्वप्रथम उसी ओर गये और वहाँ से सिलीसिया की राह आरमीनिया जा पहुँचे। मंगोल-राज्य पर इस समय मिस्र के सुलतानों का आक्रमण होने के कारण, इनने इन

के ईसाइयों द्वारा तैयार किये हुए कागज़ की क्रिस्म दिन पर दिन रही होती गई। क्रैश्चियन धर्मावलंबी यूरोप में अच्छा कागज़ तो तेरहवीं शताब्दी के अंत तक भी न बन सका था। तब केवल इटैली ही सबसे अच्छा कागज़ बनाने में संसार का अग्रणी था। चौदहवीं शताब्दी में जर्मनीवालों को कागज़ बनाने की तरकीब मालूम हुई अर्थात् व्यावसायिक एवं व्यावहारिक रूप से पुस्तकों के लिए सस्ता और बहुत सा कागज़ बनाने की तरकीब का पता लगाने में वह शताब्दी भी पूरी बीत गई। उसके पश्चात् फिर मुद्रण तो आवश्यक और स्वाभाविक ही था। और इस आविष्कार के होते ही जगत् के वैदिक जीवन ने एक नवीन और कहीं अधिक बलशाली एवं उन्नतिशील युग में पदार्पण किया। उस युग का तो अब सदा के लिए अंत हो गया था जब ज्ञान एक मस्तिष्क से दूसरे मस्तिष्क में वृद्धों की भाँति टपकता था अब तो उसने एक 'बहिया' का रूप धारण किया था जिससे सहस्रों लाखों करोड़ों आत्माएँ तृप्त होने लगीं।

मुद्रण चालू होते ही एक तात्कालिक फल तो यह हुआ कि संसार में 'वाइविल' के ढेर लग गये, दूसरे पढ़ाई की किताबें भी सस्ती विकने लगीं। शिक्षा-संबंधी ज्ञान अब शीघ्रता से फैलने लगा। इस समय संसार में न केवल पुस्तकों की संख्या खूब बढ़ रही थी प्रत्युत उनकी भाषा भी पहले से कहीं अधिक सरल और सुगमता से समझने योग्य होनी थी। उन दुर्ज्ञेय वाक्यों के स्थान में जिनको कठिनाई से पढ़ने के उपरान्त अर्थ-बोध के लिए पुनः मनन करना पड़ता था, अब ऐसे सरल शब्द होते थे कि पाठक पढ़ने के साथ ही साथ बिना किसी रुकावट के उनका आशय भी भली भाँति समझ सकते थे। इन प्रकार ज्यों-ज्यों पढ़ना अधिक सुलभ होता गया, त्यों-त्यों पढ़नेवाले जन-समुदाय की संख्या भी दिन-प्रतिदिन बढ़ती गई। पुस्तकें अब, पहले की भाँति, विद्वानों का रहस्य अथवा मुनज्जित गिलौना न थीं। जन-साधारण के पढ़ने और समझने योग्य पुस्तकें ही अब लैटिन के बजाय गोल-चाल की भाषा में लिखी जाती थीं। इसी चौदहवीं शताब्दी ने यूरोपीय नाट्य का वास्तविक इतिहास प्रारंभ होता है।

यूरोप के इन पुनरुत्थान में अरबों ने भाग लिया। केवल वहीं हमने अब तक वर्णन किया है। अब हम मंगोल आक्रमण-जनित प्रभावों का वर्णन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इनके कारण यूरोप में भौगोलिक कल्पनाओं को मृत्यु ही प्राप्त हो गयी। कुछ समय तक तो 'महान् ज्ञान' के अधीनस्थ समस्त एशिया और यूरोप में एकदम ज्ञान का आवागमन होता था। संपूर्ण राज-पथ अन्धकारों के रूप में खुल गये थे और प्रत्येक जगत् के प्रतिनिधि कगलुग्म पर्वतमाला के दरवार में उपस्थित होते थे। ईसाइयों तथा मुसलमानों के पारस्परिक धर्मयुद्धों के कारण एशिया और यूरोप महाद्वीप के

मध्य जो एक प्रकार की रुकावट उत्पन्न हो गई थी, वह भी इस समय कम हो गई। पोप, मंगोलों के ईसाई बनाने की बड़ी आशाएँ कर रहे थे। ये लोग अभी तक आद्य-प्रतिभापूजक शुमान (अंशुमान्-सूर्य) नामक धर्म के अनुयायी थे। मंगोल राजसभा में पोप के दूत, भारतीय-बौद्ध-भिन्तु पैरिस, इटैली तथा चीन के दस्तकार और वैज़ेगटाइन एवं आरमीनिया के व्यापारी-सभी का अरब के अधिकारी-वर्ग और फ़ारस तथा भारत के गणित और ज्योतिष-शास्त्रियों से समागम होता था। मंगोल-आक्रमण तथा जन-संहार के संबंध में तो हम इतिहास में बहुत कुछ पढ़ते हैं, परंतु इस जाति के विद्यार्जन की कैसी उत्कट अभिलाषा एवं लालसा लगी हुई थी, इसका हमको पर्याप्त ज्ञान नहीं है। उत्पादक के रूप से तो नहीं परंतु शिक्षा एवं पद्धति फैलानेवाले (प्रसारक) के रूप से इस जाति का संसार के इतिहास पर बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ा है। और चंगेज़ खान अथवा कुबलई खान के अस्पष्ट एवं विचित्र (Romantic) व्यक्तित्व के संबंध में जो बातें अब तक मालूम हुई हैं उनसे यह विचार तो अवश्य ही दृढ़ हो जाता है कि यह नरनाथ कम से कम उस अहंकारी एवं उत्का सम महान् ऐलेक्ज़ेंडर अथवा राजनैतिक प्रेतात्माओं को जगानेवाले पराक्रमशील परंतु अनपढ़ दार्शनिक शार्लेमेन के समान तो अवश्य ही समझदार और क्रियाशील थे।

मंगोल दरवार में जानेवाले इन पुरुषों में वैनिस-निवासी मार्कोपोलो नामक एक अत्यन्त रोचक व्यक्ति भी था जिसने अपनी कथा को पीछे से पुस्तक रूप में लिखा है। अपने पिता और पितृव्य के साथ, जिन्होंने इससे प्रथम एक बार और उस और यात्रा की थी, यह १२७२ में चीन देश को गया। दोनों वृद्धों (अर्थात् पिता और पितृव्य) का महान् खान के ऊपर अत्यन्त गहरा प्रवाह पड़ा था; लैटिन जाति के इन्हीं दो पुरुषों को उसने सर्वप्रथम देखा था और क्रिश्चियन धर्म को समझाने की शक्ति रखनेवाले शिक्षकों, विद्वानों तथा औत्सुक्य-जनक अन्य पदार्थों की तलाश करने के लिए महान् मंगोल शासक ने इनको पुनः यूरोप को लौटा दिया था। मार्को के साथ लेकर अब ये दूसरी बार राजदरवार में उपस्थित हुए थे। जिस क्रीमिया प्रदेश में होकर इन्होंने अपनी प्रथम यात्रा की थी, उस और न जाकर 'तीनों पोलो' इस बार पैलेस्टाइन होकर चले। महान् खान द्वारा दी हुई स्वर्ण-पट्टिका तथा अन्य चिह्नों के कारण यात्रा करने में इनको अत्यन्त सुविधा हुई होगी। खान ने इनसे जेरुसलम की पवित्र समाधि (अर्थात् यीशू मसीह की कब्र) पर जलनेवाले दीप का कुछ तैल लाने को भी कहा था। अतएव यह सर्वप्रथम उसी ओर गये और वहाँ से सिलीसिया की राह आरमीनिया जा पहुँचे। मंगोल-राज्य पर इस समय मिस्र के सुलतानों का आक्रमण होने के कारण, इनको इस

के ईसाइयों द्वारा तैयार किये हुए कागज़ की क्रिस्म दिन पर दिन रही होती गई। क्रिश्चियन धर्मावलंबी यूरोप में अच्छा कागज़ तो तेरहवीं शताब्दी के अंत तक भी न बन सका था। तब केवल इटैली ही सबसे अच्छा कागज़ बनाने में संसार का अग्रणी था। चौदहवीं शताब्दी में जर्मनीवालों को कागज़ बनाने की तरकीब मालूम हुई परंतु व्यावसायिक एवं व्यावहारिक रूप से पुस्तकों के लिए सस्ता और बहुत सा कागज़ बनाने की तरकीब का पता लगाने में वह शताब्दी भी पूरी बीत गई। उसके पश्चात् फिर मुद्रण तो आवश्यक और स्वाभाविक ही था। और इस आविष्कार के होते ही जगत् के बौद्धिक जीवन ने एक नवीन और कहीं अधिक बलशाली एवं उन्नतिशील युग में पदार्पण किया। उस युग का तो अथ सदा के लिए अंत हो गया था जब ज्ञान एक मस्तिष्क से दूसरे मस्तिष्क में बूँदों की भाँति टपकता था अथ तो उसने एक 'बहिया' का रूप धारण किया था जिससे सहस्रों लाखों करोड़ों आत्माएँ तृप्त होने लगीं।

मुद्रण चालू होते ही एक तात्कालिक फल तो यह हुआ कि संसार में 'बाइबिल' के ढेर लग गये, दूसरे पढ़ाई की किताबें भी सस्ती विकने लगीं। शिक्षा-संबंधी ज्ञान अथ शीघ्रता ने फैलने लगा। इस समय संसार में न केवल पुस्तकों की संख्या खूब बढ़ रही थी प्रत्युत उनकी भाषा भी पहले से कहीं अधिक सरल और सुगमता से समझने योग्य होती थी। उन दुर्जेय वाक्यों के स्थान में जिनको कठिनाई से पढ़ने के उपरांत अर्थ-बोध के लिए पुनः मनन करना पड़ता था, अब ऐसे सरल शब्द होते थे कि पाठक पढ़ने के साथ ही साथ बिना किसी रुकावट के उनका आशय भी भली भाँति समझ सकते थे। इन प्रकार ज्यों-ज्यों पढ़ना अधिक सुलभ होता गया, त्यों-त्यों पढ़नेवाले जन-समुदाय की संख्या भी दिन-प्रतिदिन बढ़ती गई। पुस्तकें अब, पहले की भाँति, विद्वानों का रहस्य अथवा मुनश्चिन्त निरौना न थीं। जन-साधारण के पढ़ने और समझने योग्य पुस्तकें ही अब लैटिन के राजा बोल-चाल की भाषा में लिखी जाती थीं। इन्हीं चौदहवीं शताब्दी के यूरोपीय साहित्य का वास्तविक इतिहास प्रारंभ होता है।

यूरोप के इन पुनरुत्थान में अरबों ने भाग लिया। केवल यही हमने अब तक वर्णन किया है। अब हम मंगोल आक्रमण-जनित प्रभावों का वर्णन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इनके कारण यूरोप में भौगोलिक कल्पनाओं को खूब ही प्रोत्साहन मिला। कुछ समय तक तो 'महान् ज्ञान' के अर्धानस्थ नमस्त एशिया और यूरोप में महाद्वन्द्वता का वातावरण होता था। संपूर्ण राज-पथ अस्थायी रूप से खुल गये थे और प्रत्येक भाँति के प्रतिनिधि कर्गकुर्म पर्यटनमाला के दरबार में उभरियत होने थे। ईसाइयों तथा मुसलमानों के पारस्परिक भर्तृहृदों के कारण एशिया और यूरोप महाद्वीप के

मध्य जो एक प्रकार की रुकावट उत्पन्न हो गई थी, वह भी इस समय कम हो गई। पोप, मंगोलों को ईसाई बनाने की बड़ी आशाएँ कर रहे थे। ये लोग अभी तक आद्य-प्रतिमापूजक शुमान (अंशुमान्-सूर्य) नामक धर्म के अनुयायी थे। मंगोल राजसभा में पोप के दूत, भारतीय-बौद्ध-भिन्तु पैरिस, इटैली तथा चीन के दस्तकार और वैज़राइटान एवं आरमीनिया के व्यापारी-सभों का अरब के अधिकारी-वर्ग और फ़ारस तथा भारत के गणित और ज्योतिष-शास्त्रियों से समागम होता था। मंगोल-आक्रमण तथा जन-संहार के संबंध में तो हम इतिहास में बहुत कुछ पढ़ते हैं, परंतु इस जाति को विद्यार्जन की कौसी उत्कट अभिलाषा एवं लालसा लगी हुई थी, इसका हमको पर्याप्त ज्ञान नहीं है। उत्पादक के रूप से तो नहीं परंतु शिक्षा एवं पद्धति फैलानेवाले (प्रसारक) के रूप से इस जाति का संसार के इतिहास पर बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ा है। और चंगेज़ खान अथवा कुबलई खान के अस्पष्ट एवं चिच्छिन्न (Romantic) व्यक्तित्व के संबंध में जो बाने अब तक मालूम हुई हैं उनसे यह विचार तो अवश्य ही दृढ़ हो जाता है कि यह नरनाथ कम से कम उस अहंकारी एवं उल्का सम महान् ऐलेक्ज़ेंडर अथवा राजनैतिक प्रेतात्माओं को जगानेवाले पराक्रमशील परंतु अनपढ़ दार्शनिक शार्लेमेन के समान तो अवश्य ही समझदार और क्रियाशील थे।

मंगोल दरवार में जानेवाले इन पुरुषों में वैनिस-निवासी मार्कोपोलो नामक एक अत्यन्त रोचक व्यक्ति भी था जिसने अपनी कथा को पीछे से पुस्तक रूप में लिखा है। अपने पिता और पितृव्य के साथ, जिन्होंने इससे प्रथम एक बार और उस यात्रा यात्रा की थी, यह १२७२ में चीन देश को गया। दोनों बृद्धों (अर्थात् पिता और पितृव्य) का महान् खान के ऊपर अत्यन्त गहरा प्रवाह पड़ा था; लैटिन जाति के इन्हीं दो पुरुषों को उसने सर्वप्रथम देखा था और क्रिश्चियन धर्म को समझाने की शक्ति रखनेवाले शिक्षकों, विद्वानों तथा औत्सुक्य-जनक अन्य पदार्थों की तलाश करने के लिए महान् मंगोल शासक ने इनको पुनः यूरोप को लौटा दिया था। मार्को के साथ लेकर अब ये दूसरी बार राजदरवार में उपस्थित हुए थे। जिस क्रीमिया प्रदेश में होकर इन्होंने अपनी प्रथम यात्रा की थी, उस ओर न जाकर 'तानों पोलो' इस बार पॅलेस्टाइन होकर चले। महान् खान द्वारा दी हुई स्वर्ण-पट्टिका तथा अन्य चिह्नों के कारण यात्रा करने में इनको अत्यन्त सुविधा हुई होगी। खान ने इनसे जेरुसलम की पवित्र समाधि (अर्थात् यीशू मसीह की कब्र) पर जलनेवाले दीप का कुछ तैल लाने का भी कहा था। अतएव यह सर्वप्रथम उसी ओर गये और वहाँ से सिलीसिया की राह आरमीनिया जा पहुँचे। मंगोल-राज्य पर इस समय मिस्र के सुलतानों का आक्रमण होने के कारण, इनको इस

के ईनाद्यों द्वारा नैयार किये हुए कागज़ की क्रिस्म दिन पर दिन रही होती गई। क्रिश्चियन धर्मावलंबी यूरोप में अच्छा कागज़ तो तेरहवीं शताब्दी के अंत तक भी न बन सका था। तब केवल इटैली ही सबसे अच्छा कागज़ बनाने में संसार का अग्रणी था। चौदहवीं शताब्दी में जर्मनीवालों को कागज़ बनाने की तरकीब मालूम हुई परंतु व्यावसायिक एवं व्यावहारिक रूप से पुस्तकों के लिए सस्ता और बहुत सा कागज़ बनाने की तरकीब का पता लगाने में वह शताब्दी भी पूरी थीत गई। उसके पश्चात् फिर मुद्रण तो आवश्यक और स्वाभाविक ही था। और इस आविष्कार के होते ही जगत् के वैदिक जीवन ने एक नवीन और कहीं अधिक बलशाली एवं उन्नतिशील युग में प्रदार्पण किया। उस युग का तो अब सदा के लिए अंत हो गया था जब ज्ञान एक मस्तिष्क ने दूसरे मस्तिष्क में वृद्धि की भांति टपकता था अब तो उसने एक 'बहिया' का रूप धारण किया था जिससे सहस्रों लाखों करोड़ों आत्माएँ तुल होने लगीं।

मुद्रण चालू होते ही एक तात्कालिक फल तो यह हुआ कि संसार में 'बाइबिल' के छर लग गये, दूसरे पढ़ाई की किताबें भी सस्ती विकने लगीं। शिक्षा संबंधी ज्ञान अब शीघ्रता से फैलने लगा। इस समय संसार में न केवल पुस्तकों की संख्या खूब बढ़ रही थी प्रत्युत उनकी भाषा भी पहले से कहीं अधिक सरल और सुगमता से समझने योग्य होती थी। उन दुर्जेय वाक्यों के स्थान में जिनको कठिनाई से पढ़ने के उपरांत अर्थ-बोध के लिए पुनः मनन करना पड़ता था, अब ऐसे सरल शब्द होते थे कि पाठक पढ़ने के साथ ही साथ बिना किसी रुकावट के उनका आशय भी भली भांति समझ सकते थे। इन प्रकार ज्यों-ज्यों पढ़ना अधिक सुलभ होता गया, ज्यों-ज्यों पढ़नेवाले जन-समुदाय की संख्या भी दिन-प्रतिदिन बढ़ती गई। पुस्तकें अब, पहले की भांति, विद्वानों का रहस्य बनना मुमकिन बिलौना न थी। जन-साधारण के पढ़ने और समझने योग्य पुस्तकें ही अब लैटिन के बजाय ग्रीक-चाल की भाषा में लिखी जाती थीं। इन्हीं चौदहवीं शताब्दी में यूरोपीय साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास प्रारंभ होता है।

यूरोप के इन पुनरुत्थान में अरबों ने भाग लिया। केवल यही हमने अब तक वर्णन किया है। अब हम मंगोल आक्रमण-जनित प्रभावों का वर्णन करने के लिए आसन्न होते हैं। उनके कारण यूरोप में भौगोलिक कल्पनाओं को खूब ही प्रोत्साहन मिला। कुछ समय तक तो 'महासागर' के अधीनस्थ समस्त एशिया और यूरोप में एक अन्तर्गत आकाशमन होता था। मंगोल राज-पथ अन्तर्भावी रूप में खुल गये थे और प्रोफेसर एडविन वि. प्रोबिन्स का कहना है कि पर्वतमाला के दरवार में उदरिधत होने से। इसका तथा महासागरों के वैज्ञानिक धर्मयुद्धों के कारण एशिया और यूरोप महादीप के

मध्य जो एक प्रकार की रूकावट उत्पन्न हो गई थी, वह भी इस समय कम हो गई। पोप, मंगोलों को ईसाई बनाने की बड़ी आशाएँ कर रहे थे। ये लोग अभी तक आत्य-प्रतिभापूजक शुमान (अंशुमान्-सूर्य) नामक धर्म के अनुयायी थे। मंगोल राजसभा में पोप के दूत, भारतीय-बौद्ध-भिन्तु पैरिस, इटैली तथा चीन के दस्तकार और वैज्ञानिक एवं आरमीनिया के व्यापारी-सभी का अरब के अधिकारी-वर्ग और फ़ारस तथा भारत के गणित और ज्योतिष-शास्त्रियों से समागम होता था। मंगोल-आक्रमण तथा जन-संहार के संबंध में तो हम इतिहास में बहुत कुछ पढ़ते हैं, परंतु इस जाति के विद्यार्जन की कैसी उत्कट अभिलाषा एवं लालसा लगी हुई थी, इसका हमको पर्याप्त ज्ञान नहीं है। उत्पादक के रूप से तो नहीं परंतु शिक्षा एवं पद्धति फैलानेवाले (प्रसारक) के रूप से इस जाति का संसार के इतिहास पर बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ा है। और चंगेज़ खान अथवा कुबलाई खान के अस्पष्ट एवं विचित्र (Romantic) व्यक्तित्व के संबंध में जो बातें अब तक मालूम हुई हैं उनसे यह विचार तो अवश्य ही दृढ़ हो जाता है कि यह नरनाथ कम से कम उस अहंकारी एवं उल्का सम महान् ऐलेक्जेंडर अथवा राजनैतिक प्रेतात्माओं को जगानेवाले पराक्रमशील परंतु अनपढ़ दार्शनिक शार्लमेन के समान तो अवश्य ही समझदार और क्रियाशील थे।

मंगोल दरवार में जानेवाले इन पुरुषों में वैनिस-निवासी मार्कोपोलो नामक एक अत्यन्त रोचक व्यक्ति भी था जिसने अपनी कथा को पीछे से पुस्तक रूप में लिखा है। अपने पिता और पितृव्य के साथ, जिन्होंने इससे प्रथम एक बार और उस यात्रा की थी, यह १२७२ में चीन देश को गया। दोनों वृद्धों (अर्थात् पिता और पितृव्य) का महान् खान के ऊपर अत्यन्त गहरा प्रवाह पड़ा था; लैटिन जाति के इन्हीं दो पुरुषों को उसने सर्वप्रथम देखा था और क्रिश्चियन धर्म को समझाने की शक्ति रखनेवाले शिक्षकों, विद्वानों तथा औत्सुक्य-जनक अन्य पदार्थों की तलाश करने के लिए महान् मंगोल शासक ने इनको पुनः यूरोप को लौटा दिया था। मार्को को साथ लेकर अब ये दूसरी बार राजदरवार में उपस्थित हुए थे। जिस क्रीमिया प्रदेश में होकर इन्होंने अपनी प्रथम यात्रा की थी, उस ओर न जाकर 'तीनों पोलो' इस बार पॅलेस्टाइन होकर चले। महान् खान द्वारा दी हुई स्वर्ण-पट्टिका तथा अन्य चिह्नों के कारण यात्रा करने में इनको अत्यन्त सुविधा हुई होगी। खान ने इनसे जेरुसलम की पवित्र समाधि (अर्थात् यीशू मसीह की कब्र) पर जलनेवाले दीप का कुछ तैल लाने को भी कहा था। अतएव यह सर्वप्रथम उसी ओर गये और वहाँ से सिलीसिया की राह आरमीनिया जा पहुँचे। मंगोल-राज्य पर इस समय मिस्र के सुलतानों का आक्रमण होने के कारण, इनको इस



के ईसाइयों द्वारा तैयार किये हुए कागज़ की क्रिस्म दिन पर दिन रही होती गई। क्रिश्चियन धर्मावलंबी यूरोप में अच्छा कागज़ तो तेरहवीं शताब्दी के अंत तक भी न बन सका था। तब केवल इटैली ही सबसे अच्छा कागज़ बनाने में संसार का अग्रणी था। चौदहवीं शताब्दी में जर्मनीवालों को कागज़ बनाने की तरकीब मालूम हुई परंतु व्यावसायिक एवं व्यावहारिक रूप से पुस्तकों के लिए सस्ता और बहुत सा कागज़ बनाने की तरकीब का पता लगाने में वह शताब्दी भी पूरी थीत गई। उसके पश्चात् फिर मुद्रण तो आवश्यक और स्वाभाविक ही था। और इस आविष्कार के होते ही जगत् के धार्मिक जीवन ने एक नवीन और कहीं अधिक बलशाली एवं उन्नतिशील युग में पदार्पण किया। उस युग का तो श्रव सदा के लिए अंत हो गया था जब ज्ञान एक मस्तिष्क ने दूसरे मस्तिष्क में बूँदों की भाँति टपकता था श्रव तो उसने एक 'बहिया' का रूप धारण किया था जिसे नहरों लाखों करोड़ों आत्माएँ तृप्त होने लगीं।

मुद्रण चालू होते ही एक तात्कालिक फल तो यह हुआ कि संसार में 'बाइबिल' के टेर लग गये, दूसरे पढ़ाई की किताबें भी सस्ती विकने लगीं। शिक्षा संबंधी ज्ञान श्रव शीघ्रता से फैलने लगा। इस समय संसार में न केवल पुस्तकों की संख्या खूब बढ़ रही थी प्रत्युत उनकी भाषा भी पहले से कहीं अधिक सरल और सुगमता से समझने योग्य होती थी। उन दुर्जेय वाक्यों के स्थान में जिनको कठिनाई से पढ़ने के उपरांत अर्थ-बोध के लिए पुनः मनन करना पड़ता था, श्रव ऐसे सरल शब्द होते थे कि पाठक पढ़ने के साथ ही साथ बिना किसी दकावट के उनका आशय भी भली भाँति समझ सकते थे। उस प्रकार स्यों-स्यों पढ़ना अधिक सुलभ होता गया, स्यों-स्यों पढ़नेवाले जन-समुदाय की संख्या भी दिन-प्रतिदिन बढ़ती गई। पुस्तकें श्रव, पहले की भाँति, विद्वानों का रहस्य बनकर मुनासिब विनोदान न थीं। जन-साधारण के पढ़ने और समझने योग्य पुस्तकें ही अब सैद्धि के बजाय बोल-चाल की भाषा में लिखी जाती थीं। इसी चौदहवीं शताब्दी में यूरोपीय न्यायिक वास्तविक इतिहास प्रारंभ होता है।

यूरोप के इस पुनरुत्थान में अरबों ने भाग लिया। केवल यही हमने श्रव तक वर्णन किया है। अब हम मंगोल आक्रमण-जनित प्रभावों का वर्णन करने के लिए प्रयत्न करेंगे। उनके कारण यूरोप में भौगोलिक कल्पनाओं को खूब ही प्रोत्साहन मिला। कुछ समय तक तो 'महान ज्ञान' के अर्थान्वय समस्त एशिया और यूरोप में मान्य-समाप्त मानसमन होता था। मंगुल राज-पथ अन्धधारी रूप से मूल गये थे और पश्चिम की ओर प्रतिक्रिया लगातार पर्यवसाना के दरवार में उत्पन्न होने थे। ईसाइयों तथा मुसलमानों के धार्मिक धर्मयुद्धों के कारण एशिया और यूरोप महाद्वीप के

मध्य जो एक प्रकार की रुकावट उत्पन्न हो गई थी, वह भी इस समय कम हो गई। पोप, मंगोलों को ईसाई बनाने की बड़ी आशाएँ कर रहे थे। ये लोग अभी तक आद्य-प्रतिमापूजक शुमान (अंशुमान्-सूर्य) नामक धर्म के अनुयायी थे। मंगोल राजमभा में पोप के दूत, भारतीय-बौद्ध-भिक्षु पैरिस, इटैली तथा चीन के दस्तकार और वैज्ञानिक एवं आरमीनिया के व्यापारी-सभी का अरब के अधिकारी-वर्ग और फ़ारस तथा भारत के गणित और ज्योतिष-शास्त्रियों से समागम होता था। मंगोल-आक्रमण तथा जन-संहार के संबंध में तो हम इतिहास में बहुत कुछ पढ़ते हैं, परंतु इस जाति के विद्यार्जन की कैसी उत्कट अभिलाषा एवं लालसा लगी हुई थी, इसका हमको पर्याप्त ज्ञान नहीं है। उत्पादक के रूप से तो नहीं परंतु शिद्धा एवं पद्धति फैलानेवाले (प्रसारक) के रूप में इस जाति का संसार के इतिहास पर बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ा है। और चंगेज़ खान अथवा कुबलाई खान के अस्पष्ट एवं विचित्र (Romantic) व्यक्तित्व के संबंध में जो बातें अब तक मालूम हुई हैं उनसे यह विचार तो अवश्य ही दृढ़ हो जाता है कि यह नरनाथ कम से कम उस अहंकारी एवं उल्का सम महान् ऐलेकज़ेंडर अथवा राजनैतिक प्रेतात्माओं को जगानेवाले पराक्रमशील परंतु अनपढ़ दार्शनिक शार्लमेन के समान तो अवश्य ही समझदार और क्रियाशील थे।


मंगोल दरवार में जानेवाले इन पुरुषों में वैनिस-निवासी मार्कोपोलो नामक एक अत्यन्त रोचक व्यक्ति भी था जिसने अपनी कथा को पीछे से पुस्तक रूप में लिखा है। अपने पिता और पितृव्य के साथ, जिन्होंने इससे प्रथम एक बार और उस ओग यात्रा की थी, यह १२७२ में चीन देश को गया। दोनों बृद्धों (अर्थात् पिता और पितृव्य) का महान् खान के ऊपर अत्यन्त गहरा प्रवाह पड़ा था; लैटिन जाति के इन्हीं दो पुरुषों को उसने सर्वप्रथम देखा था और क्रिश्चियन धर्म को समझाने की शक्ति रखनेवाले शिक्षकों, विद्वानों तथा औत्सुक्य-जनक अन्य पदार्थों की तलाश करने के लिए महान् मंगोल शासक ने इनके पुनः यूरोप को लौटा दिया था। मार्को को साथ लेकर अब ये दूसरी बार राजदरवार में उपस्थित हुए थे। जिस क्रीमिया प्रदेश में होकर इन्होंने अपनी प्रथम यात्रा की थी, उस ओर न जाकर 'तानों पोलो' इस बार पैलेस्टाइन होकर चले। महान् खान द्वारा दी हुई स्वर्ण-पत्रिका तथा अन्य चिह्नों के कारण यात्रा करने में इनके अत्यन्त सुविधा हुई होगी। खान ने इनसे जेरुसलम की पवित्र समाधि (अर्थात् यीशू मसीह की कब्र) पर जलनेवाले दीप का कुछ तैल लाने को भी कहा था। अतएव यह सर्वप्रथम उसी ओर गये और वहाँ से सिलीसिया की राह आरमीनिया जा पहुँचे। मंगोल-राज्य पर इस समय मिस्र के सुलतानों का आक्रमण होने के कारण, इनके इन

के उन्माद्यों द्वारा तैयार किये हुए कागज़ की क्रिस्म दिन पर दिन रही होती गई। किश्चिन्तयन धर्मावलंबी यूरोप में अच्छा कागज़ तो तेरहवीं शताब्दी के अंत तक भी न बन सका था। तब केवल इटैली ही सबसे अच्छा कागज़ बनाने में संसार का अग्रणी था। चौदहवीं शताब्दी में जर्मनीवालों को कागज़ बनाने की तरकीब मालूम हुई परंतु व्यावसायिक एवं व्यावहारिक रूप से पुस्तकों के लिए सस्ता और बहुत सा कागज़ बनाने की तरकीब का पता लगाने में वह शताब्दी भी पूरी न थी। उसके पश्चात् फिर मुद्रण तो आवश्यक और स्वाभाविक ही था। और इस आविष्कार के होते ही जगत् के धार्मिक जीवन ने एक नवीन और कहीं अधिक बलशाली एवं उन्नतिशील युग में पदार्पण किया। उस युग का तो श्रव सदा के लिए अंत हो गया था जब जान एक मस्तिष्क ने दूसरे मस्तिष्क में वृद्धि की भाँति टपकता था श्रव तो उसने एक 'बहिया' का रूप धारण किया था जिनमें सदस्यों लाखों करोड़ों आत्माएँ तृप्त होने लगीं।

मुद्रण चालू होते ही एक तात्कालिक फल तो यह हुआ कि संसार में 'बाइबिल' के टुकड़े लग गये, दूसरे पढ़ाई की किताबें भी सस्ती विकने लगीं। शिक्षा संबंधी ज्ञान श्रव शीघ्रता से फैलने लगा। इन समय संसार में न केवल पुस्तकों की संख्या खूब बढ़ रही थी प्रत्युत उनकी भाषा भी पहले से कहीं अधिक सरल और सुगमता से समझने योग्य होती थी। उन दुर्जेय वाक्यों के स्थान में जिनको कठिनाई से पढ़ने के उपरांत अर्थ-बोध के लिए पुनः मनन करना पड़ता था, श्रव ऐसे सरल शब्द होने थे कि पाठक पढ़ने के साथ ही साथ बिना किसी रुकावट के उनका आशय भी भली भाँति समझ सकते थे। उस प्रकार ज्यों-ज्यों पढ़ना अधिक सुलभ होता गया, ज्यों-ज्यों पढ़नेवाले जन-समुदाय की संख्या भी दिन-प्रतिदिन बढ़ती गई। पुस्तकें श्रव, पहले की भाँति, विद्वानों का रहस्य बनना मुनासिब बिनतीना न थीं। जन-साधारण के पढ़ने और समझने योग्य पुस्तकें ही श्रव विद्वानों के बजाय गोल-गाल की भाषा में लिखी जाती थीं। इन्हीं चौदहवीं शताब्दी में यूरोपीय नागरिकों का वास्तविक इतिहास प्रारंभ होता है।

यूरोप के उन युगस्थान में श्रवों ने भाग लिया। केवल यही हमने श्रव तक ध्यान दिया है। श्रव हम संश्लेष आत्मसंग-जनित प्रभावों का वर्णन करने के लिए प्रयत्न करेंगे। उनके कारण यूरोप में भौतिक बलनाशों को खूब ही प्रोत्साहन मिला। एक समय तक तो 'महान ग्लान' के अर्थान्तर समस्त एशिया और यूरोप में एक-दूसरे का आचलन होता था। समस्त राज-पर्य्य अन्धकारी रूप से चल गये थे और श्रव श्रवों की प्रोत्साहित समकालीन संवेतमाना के दृष्टिकोण में उत्पन्न होने थे। श्रव श्रवों के प्रोत्साहित समकालीन संवेतमाना के दृष्टिकोण में उत्पन्न होने थे। श्रव श्रवों के प्रोत्साहित समकालीन संवेतमाना के दृष्टिकोण में उत्पन्न होने थे।

अत्यंत विशद विचार उत्पन्न हुआ। सैविल्ल नामक नगर में इस विवरण की एक ऐसी प्रति भी इस समय रक्खी हुई है जिसके हाशियों पर कोलम्बस के हाथ की टिप्पणियाँ लिखी हुई हैं। एक जिनोआ-निवासी के मन में इस प्रकार के विचार उत्पन्न होने के भी अनेक कारण हैं। तुर्कों के हस्तगत होने पर्यन्त अर्थात् १४५३ ई० तक कुस्तुनतुनिया में पश्चिमीय एव पूर्वीय संसार का व्यापार समान रूप से होता था। और उस समय तक जिनोआ-निवासी भी वहाँ अप्रतिवाहित रूप से व्यापार करते रहे। परंतु जिनोआ के कट्टर प्रतिस्पर्धी वैनिस-नगर की (जहाँ लैटिन जाति ही बसती थी) तुर्कों से मैत्री होने तथा उनको यूनानियों के विरुद्ध सहायता देने के कारण तुर्कों ने अथ कांस्टेंटिनोपिल को अधिकृत



इटली के जहाज़ों में प्रारम्भिक काल का खुदाई का काम

दक्षिण उत्तर दिशा की ओर होकर जाना पड़ा था। हाँ, तो फिर आरमीनिया से यह मैनापोटामिया की गढ़ फारम की त्वाड़ी पर उरमुज़ नामक नगर में आ गये जिससे प्रतीत होता है कि इनकी इच्छा समुद्र-यात्रा करने की थी। यहीं पर इनकी भारत के व्यापारियों से भेंट हुई। परंतु फिर किसी कारण-वश जहाज़ों पर न चढ़कर, यह पुनः उत्तर की ओर फारम की मह-भूमि में होते हुए बलख और पामीर पारकर काशगर और कोतान और यहाँ से लोचनोर और हांग-हो घाटी की राह—महान् खान की निवास-भूमि—पैकिन नगरी या पहले जहाँ इनका मृत्यु आतिथ्य एवं सत्कार हुआ।

मार्को पो देम्बकर कुवलई विशेषतया प्रसन्न हुआ था। एक तो यह वैसे ही युवा पथ चतुर था और उन पर नातारी भाषा में भी इनने ऐसी योग्यता प्राप्त कर ली थी कि अधिकांश दे दूत बना इनको विशेषतया दक्षिण-पश्चिमीय चीन की ओर कई बार भेजा गया। यहाँ के धन-धान्य-पुनित देश और यात्रियों के लिए बने हुए सुन्दर पार्श्वनिवास, अन्न की वाटिकाएँ, स्नान तथा उपवन और बहुत से बौद्ध भिक्षुओं के विहार, सुनेहरे रेशमी रस्म तथा विविध प्रकार का ताकता बनानेवाले कारीगर और बहुसंख्यक नगरों तथा कस्बों का इनने ऐसा रोचक वर्णन किया कि उनके श्रवण-मात्र ने समस्त यूरोप-निवासियों के मनोकाय में मानो आग ली भड़क उठी; और वे इनको सशक चित्त से देखने लगे। इनके अनिश्चित आशयों और यहाँ के महान् सैन्यदल का-जिममें सैकड़ों हाथी थे—वर्णन पर इनने यह भी लिखा था कि इन पशुओं को किस प्रकार पगजित कर मंगोल धनुष-धारियों से पैदा प्राप्त होकर अपने हस्तगत किया था। जापान का वृत्त लिखते समय इनने मंगोलों के स्वर्ग का परिमाण बनाने में अवश्य अनिश्चयोंकि से काम लिया है। तीन वर्ष पूर्वता यों नारु नामक नगर का शासक मरने पर भी चीन-निवासियों ने हमारी समझ में यह हमारे नातारियों से अधिक परदेशी कदापि न समझा होगा। किन्ती दैन्य कर्म पर इनका नाम अममन भी संभवनीय है। चीनी लेखकों के उस वर्णन से कि १२७७ में योंको नामक एक उच्च का राज-उत्थार से संबंध था—पोंलों की कथा की प्रामाणिकता सिद्ध होती है।

मार्को पोपो का यात्रा-विवरण प्रकाशित होने ही यूरोपीय पत्रों के सचिवक पर एक महत् प्रभाव पड़ा था। यूरोपीय मार्कोपो और विशेषतया पन्द्रहवीं शताब्दी की प्रसिद्ध 'मार्कोपो' (उत्तरीय चीन) और 'मार्कोपो' (पैकिन) आदि नामों से बरी प्रसिद्धि के कारण मार्को पोपो की कथा की वैदिक प्रतीति मात्र प्रतीत होती है।

इस प्रसिद्धि के कारण मार्को पोपो का कथा-विवरण पश्चिमी सिन्धु-तट-संज्ञक अथवा 'मार्कोपो' का विवरण के रूप में दक्षिण-पूर्व से मध्य-पूर्व प्रायः चीन पर्यन्त

फैलाई वरन् हस के अनुयायियों द्वारा वहाँ विद्रोह खड़ा कर दिया गया और इसी से लैटिनीय-क्रिश्चियन सत्ता का अंत करनेवाले धार्मिक युद्धों का प्रारंभ हो गया। इन विद्रोहियों का सामना करने के लिए पोप मार्टिन पंचम ने, जो कॉन्स्टेंस नामक नगर में समस्त सम्मिलित क्रिश्चियन धर्मावलंबियों द्वारा इसी लिए विशेष रूप से निर्वाचित किया गया था, धार्मिक युद्ध की घोषणा कर दी।

इस अल्प प्रत्युत कठोर जाति का सामना करने के लिए पाँच बार धार्मिक युद्धों की असफल योजना की गई। तेरहवीं शताब्दी में वाल्डेन्सैस नामक पंथ-विशेष के विरुद्ध जिस प्रकार समस्त यूरोप के बेरोज़गारे बदमाश तैयार किये गये थे, उसी नीति का बोहिमिया में भी अवलंबन किया गया; भिन्नता केवल इतनी ही थी कि वाल्डेन्सैस सशस्त्र सामना करना ठीक न समझते थे और 'ज़ैक' जाति ने इसी (शस्त्र) का सहारा पकड़ा। यह हुआ कि हस के अनुयायियों के युद्ध-शकटों की खड़खड़ाहट और बहुतायत ने ही गौई पड़नेवाली उनकी रागध्वनि को सुनकर ही बोहिमिया-वासी धार्मिक-सैनिकों के पैर रणक्षेत्र से उखड़ गये। यहाँ तक कि उन्होंने युद्ध की भी प्रतीक्षा न की (डोमेज़लाइस का युद्ध १४३१) फिर १४३६ में हस के अनुयायियों और चर्च की नवीन कौंसिल के मध्य एक समझौता भी वेसिल नगर में जैसे-तैसे किया गया जिसमें लैटिन चर्च के बहुत से विधानों पर किये गये विशेष आक्षेपों को स्पष्ट रूप से मान लिया गया था।

पंद्रहवीं शताब्दी में तीव्र महामारी फैल जाने के कारण यूरोप भर में अत्यंत ही सामाजिक अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी। फिर जनसाधारण में घोर अर्थ-संकट एवं अस्तोप के कारण इंग्लैंड तथा फ्रांस के किसान भी, इस समय, ज़मांदारों तथा धनाढ्यों के विरुद्ध थे। हस के अनुयायियों के उपरोक्त युद्धों के उपरांत इन किसान-विद्रोहों का हवा जर्मनी में भी झोर पकड़ने लगी और वहाँ उन्होंने धार्मिक रूप ग्रहण कर लिया। इन प्रगतियों पर छापे के आविष्कार ने अथ जलती हुई अग्नि में घृत का काम कर दिखाया। चल मुद्रण (Movable type) छापनेवाले पुरुष रूइन्लैंड और हॉलैंड में ही पंद्रहवीं शताब्दी के मध्य तक खूब फैल गये थे। वहाँ से यह विद्या फिर इटैली और इंग्लैंड में फैली और १४७७ में तो क्रैक्सटन का मुद्रणालय भी वैस्टमिनिस्टर में स्थापित हो चुका था। इसके तात्कालिक फलस्वरूप याइविल के प्रकाशन एवं प्रचार में अत्यंत वृद्धि हो गई और जनसाधारण को वादविवादों में खूब सुविधा मिलने लगी। इस समय यूरोपीय जगत् में पड़नेवालों की संख्या इतनी अधिक हो गई कि प्राचीन काल में वैसी किसी जाति में न हुई थी। स्पष्ट विचारों तथा सुलभ सूचनाओं द्वारा जनसाधारण के मास्तिष्क का यह



फैलाई वरन् हस के अनुयायियों द्वारा वहाँ विद्रोह खड़ा कर दिया गया और इसी से लैटिनीय-क्रिश्चियन सत्ता का अंत करनेवाले धार्मिक युद्धों का प्रारंभ हो गया। इन विद्रोहियों का सामना करने के लिए पोप मार्टिन पंचम ने, जो कॉन्स्टेंस नामक नगर में समस्त सम्मिलित क्रिश्चियन धर्मावलंबियों द्वारा इसी लिए विशेष रूप से निर्वाचित किया गया था, धार्मिक युद्ध की घोषणा कर दी।

इस अल्प प्रत्युत कठोर जाति का सामना करने के लिए पाँच बार धार्मिक युद्धों की असफल योजना की गई। तेरहवीं शताब्दी में वाल्डेन्वैस नामक पंथ-विशेष के विरुद्ध जिस प्रकार समस्त यूरोप के बेरोज़गारे बदमाश तैयार किये गये थे, उसी नीति का बोहिमिया में भी अवलंबन किया गया; भिन्नता केवल इतनी ही थी कि वाल्डेन्वैस सशस्त्र सामना करना ठीक न समझते थे और 'ज़ैक' जाति ने इसी (शस्त्र) का सहारा लेकर यह हुआ कि हस के अनुयायियों के युद्ध-शकटों की खड़खड़ाहट और बहुतायत ताई पड़नेवाली उनकी रागध्वनि को सुनकर ही बोहिमिया-वासी धार्मिक-सैनिकों के पैर रणक्षेत्र से उखड़ गये। यहाँ तक कि उन्होंने युद्ध की भी प्रतीक्षा न की (डेमेज़लाइस का युद्ध १४३१) फिर १४३६ में हस के अनुयायियों और चर्च की नवीन कौंसिल के मध्य एक समझौता भी वेसिल नगर में जैसे-तैसे किया गया जिसमें लैटिन चर्च के बहुत से विधानों पर किये गये विशेष आक्षेपों को स्पष्ट रूप से मान लिया गया था।

पंद्रहवीं शताब्दी में तीव्र महामारी फैल जाने के कारण यूरोप भर में अत्यंत ही सामाजिक अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी। फिर जनसाधारण में घोर अर्थ-संकट एवं अस्तोप के कारण इंग्लैंड तथा फ्रांस के किसान भी, इस समय, ज़मींदारों तथा धनाढ्यों के विरुद्ध थे। हस के अनुयायियों के उपरोक्त युद्धों के उपरांत इन किसान-विद्रोहों का हवा जर्मनी में भी जोर पकड़ने लगी और वहाँ उन्होंने धार्मिक रूप ग्रहण कर लिया। इन प्रगतियों पर छापे के आविष्कार ने अब जलती हुई अग्नि में घृत का काम कर दिखाया। चल मुद्रण (Movable type) छापनेवाले पुरुष रूहाइनलैंड और हॉलैंड में भी पंद्रहवीं शताब्दी के मध्य तक खूब फैल गये थे। वहाँ से यह विद्या फिर इटैली और इंग्लैंड में फैली और १४७७ में तो कैम्ब्रिज का मुद्रणालय भी वैस्टमिनिस्टर में स्थापित हो चुका था। इसके तात्कालिक फलस्वरूप वाइविल के प्रकाशन एवं प्रचार में अत्यंत वृद्धि हो गई और जनसाधारण को वादविवादों में खूब सुविधा मिलने लगी। इन समय यूरोपीय जगत् में पढ़नेवालों की संख्या इतनी अधिक हो गई कि प्राचीन काल में वैसी किसी जाति में न हुई थी। स्पष्ट विचारों तथा सुलभ सूचनाओं द्वारा जनसाधारण के मास्तिष्क का यह



## लैटिन चर्च का सुधार

इस मानसिक पुनर्जन्म ने स्वयं लैटिन चर्च में ही महान् क्षोभ उत्पन्न कर दिया । उसका अंगोच्छेद कर डाला और अवशिष्ट अंश में भी अत्यन्त अधिक परिवर्तन कर दिया ।

ग्यारहवीं और बारहवीं शताब्दी में संपूर्ण क्रिश्चियन राज्यों का प्रायः अनियंत्रित शासन चर्च के अधिकार में कर्षोकर आया और फिर मनुष्यों के मस्तिष्क और व्यवहारों पर किस प्रकार उसके बल का, चौदहवीं तथा पंद्रहवीं शताब्दी में, हास हुआ यह हम पहले ही बता चुके हैं । जनसाधारण का वह धार्मिक उत्साह—जो प्राचीन समय में चर्च का बल और आश्रय था—वहीं, दर्प, अत्याचार और केन्द्रस्थ शासन के कारण किस प्रकार उसका विरोधक बन गया और फ्रैंडरिक द्वितीय के छल-युक्त अविश्वास के फल-स्वरूप राजकुमारों का व्यतिक्रम किस प्रकार दिन प्रतिदिन अधिक होता गया इसका वर्णन भी अन्यत्र कर दिया गया है । चर्च का धार्मिक तथा राजनैतिक गौरव तो महान् धार्मिक मतभेद के कारण पहले ही से नगण्य हो गया था, परंतु अब उस पर विद्रोह-शक्तियों ने दोनों ओर से आघात कर दिये ।

वाइक्लिफ नामक एक अंगरेज के उपदेशों का भी समस्त यूरोप में खूब प्रचार हो गया; जौन हस नामक एक जैक जातीय विद्वान् ने इसी वाइक्लिफ के उपदेशों के संबंध में (१३९८) प्रेग-विश्वविद्यालय में व्याख्यान-माला दे डाली और उसके उपदेशों का प्रभाव अब शिक्षितों की सीमा उल्लंघन कर जनसाधारण को उत्साहित करने लगा । ई० स० १४१४-१४१८ में समस्त चर्च की एक परिषद् महान् धार्मिक भेद को समाप्त करने के लिए कॉन्स्टेंस नगर में की गई और सम्राट् को ओर से हस के नाम भी अभयदान की प्रतिज्ञा कर सम्मिलित होने का निमंत्रणपत्र भेजा गया; परंतु वहाँ जाते ही हस को गिरफ्तार कर और उस पर नास्तिकता का आरोप लगा विचार करने के उपरांत वहीं जीता-जागता जला दिया गया (१४१५) । इस कृत्य ने बोहिमिया देश-वासियों में शांति तो न

फैलाई वरन् हस के अनुयायियों द्वारा वहाँ विद्रोह खड़ा कर दिया गया और इसी से लैटिनीय-क्रिश्चियन सत्ता का अंत करनेवाले धार्मिक युद्धों का प्रारंभ हो गया। इन विद्रोहियों का सामना करने के लिए पोप मार्टिन पंचम ने, जो कॉन्स्टैंस नामक नगर में समस्त सम्मिलित क्रिश्चियन धर्मावलंबियों द्वारा इसी लिए विशेष रूप से निर्वाचित किया गया था, धार्मिक युद्ध की घोषणा कर दी।

इस अल्प प्रत्युत कठोर जाति का सामना करने के लिए पाँच बार धार्मिक युद्धों की असफल योजना की गई। तेरहवीं शताब्दी में वाल्डेन्सैस नामक पंथ-विशेष के विरुद्ध जिस प्रकार समस्त यूरोप के वेरोज़गारे वदमाश तैयार किये गये थे, उसी नीति का बोहिमिया में भी अवलंबन किया गया; भिन्नता केवल इतनी ही थी कि वाल्डेन्सैस सशस्त्र सामना करना ठीक न समझते थे और 'ज़ैक' जाति ने इसी (शस्त्र) का सहारा पकड़ा। यह हुआ कि हस के अनुयायियों के युद्ध-शकटों की खड़खड़ाहट और बहुतायत ने पड़नेवाली उनकी रागध्वनि को सुनकर ही बोहिमिया-वासी धार्मिक-सैनिकों के पैर रणक्षेत्र से उखड़ गये। यहाँ तक कि उन्होंने युद्ध की भी प्रतीक्षा न की (डेमेज़लाइस का युद्ध १४३१) फिर १४३६ में हस के अनुयायियों और चर्च की नवीन कौंसिल के मध्य एक समझौता भी वेसिल नगर में जैसे-तैसे किया गया जिसमें लैटिन चर्च के बहुत से विधानों पर किये गये विशेष आक्षेपों को स्पष्ट रूप से मान लिया गया था।

पंद्रहवीं शताब्दी में तीव्र महामारी फैल जाने के कारण यूरोप भर में अत्यंत ही सामाजिक अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी। फिर जनसाधारण में घोर अर्थ-संकट एवं अस्तित्व के कारण इंग्लैंड तथा फ्रांस के किसान भी, इस समय, ज़मींदारों तथा धनाढ्यों के विरुद्ध थे। हस के अनुयायियों के उपरोक्त युद्धों के उपरांत इन किसान-विद्रोहों की हवा जर्मनी में भी झोर पकड़ने लगी और वहाँ उन्होंने धार्मिक रूप ग्रहण कर लिया। इन प्रगतियों पर छापे के आविष्कार ने अथ जलती हुई अग्नि में धृत का काम कर दिखाया। चल मुद्रण (Movable type) छापनेवाले पुरुष र्हाइनलैंड और हॉलैंड में भी पंद्रहवीं शताब्दी के मध्य तक खूब फैल गये थे। वहाँ से यह विद्या फिर इटैली और इंग्लैंड में फैली और १४७७ में तो कैन्सटन का मुद्रणालय भी वैस्टमिनिस्टर में स्थापित हो चुका था। इसके तात्कालिक फलस्वरूप वाइविल के प्रकाशन एवं प्रचार में अत्यंत वृद्धि हो गई और जनसाधारण के वादविवादों में खूब सुविधा मिलने लगी। इस समय यूरोपीय जगत् में पढ़नेवालों की संख्या इतनी अधिक हो गई कि प्राचीन काल में वैसे किसी जाति में न हुई थी। स्पष्ट विचारों तथा सुलभ सूचनाओं द्वारा जनसाधारण के मस्तिष्क का यह

सिचन भी ठीक उस समय हुआ जब गड़बड़ तथा भेदभाव फैलने के कारण चर्च अपनी यथावत् रक्षा करने में असमर्थ था और जब बहुत से राजकुमार अपनी राजसंपदा में चर्च का दाँत गड़ा हुआ देखकर उसकी शक्ति क्षीण करने की ताक-भाँक में लगे हुए थे।

चर्च पर यह आक्रमण जर्मन देश में भूतपूर्व मठाधिवासी मार्टिन लूथर (१४८३-१५४६) के व्यक्तित्व में प्रसारित हुआ। विटेनबर्ग नामक नगर में १५१७ में आकर इस पुरुष ने कट्टरवादियों के सिद्धांत और पद्धतियों पर तर्क द्वारा आपत्ति उठानी प्रारंभ की। सर्वप्रथम लूथर ने भी मध्यकालीन विद्वानों की भाँति लैटिन भाषा ही में विवाद किया था; परंतु कुछ काल के अनंतर छुपे हुए अक्षर-रूपी नवीन अक्षर का सहारा ले इसने जर्मन भाषा में अपनी सम्मति का जनता में विस्तृत रूप से प्रचार किया। इस की भाँति इसको भी दवाने का प्रयत्न किया गया, परंतु छपापाखाने के अस्तित्व से दशा परिवर्तित हो जाने तथा बहुत से जर्मन राजकुमारों की प्रकाश्य एवं गुप्त रूप से मैत्री होने के कारण इसके भाग्य का उस भाँति निपटारा न हो सका।

विचार-वाहुल्य और धर्म में श्रद्धा की शिथिलता के कारण बहुत से शासकों ने रोम से अपनी प्रजा के बंधनमुक्त करने का यह अवसर अपने लिए अत्यंत लाभदायक समझा। चर्च के स्थान में स्वयं ही जातीय धर्म (Nationalized Religion) के अधिष्ठाता बन जाने का इन राजाओं ने प्रयत्न किया। इंगलैंड, स्कॉटलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, उत्तरीय जर्मनी और बोहिमिया सब एक-एक कर 'रोमन कम्यूनियन' (Roman Communian) अर्थात् रोम के धर्म-संघ से पृथक् हो गये और आज पर्यंत वैसे ही स्वतंत्र चले जाते हैं।

इन बहुत से पृथक् होनेवाले राजाओं के मन में अपनी प्रजाओं की बौद्धिक और नैतिक स्वतंत्रता का भाव तनिक भी न था। उन्होंने जनसाधारण की धार्मिक शंकाओं और असंतोष का रोम के प्रतीकार में उपयोग तो किया, परंतु जनसाधारण की प्रगतियों को अपने चंगुल में पूर्णतया बनाये रखने का सफल प्रयत्न करते रहे और रोम से संबंध-विच्छेद होते ही राजकीय छत्रछाया में चर्च की स्थापना कर दी गई। ऐहलौकिक अथवा पार-लौकिक भक्ति या अधीनता पर सत्य विचार तथा आत्मगौरव की श्रेष्ठता—यही जीसस के ऐसे उपदेश हैं, जिनमें सदा से विचित्र जीवनदायिनी शक्ति भरी पड़ी है। इन राजकीय चर्चों का संबंध-विच्छेद होते ही अनेक ऐसे छोटे छोटे पंथों का भी रोम से विच्छेद हो गया जिनके सिद्धांतानुसार राजकुमार अथवा पोप किसी भी व्यक्ति की ईश्वर और मनुष्य के बीच मध्यस्थ बनने की आवश्यकता न थी। उदाहरणार्थ इंगलैंड और स्कॉटलैंड ही में बहुत से ऐसे पंथ वर्तमान थे जो केवल वाइविल ही को अपने

जीवन और विचारों का पथ-प्रदर्शक मान उसी पर दृढ़ बने हुए थे। राजकीय चर्च की आज्ञाओं को इस पंथ के अनुयायी स्वीकृत न करते थे। ये असम्मत लोग 'नॉनकन-फ़रमिस्ट' कहलाते थे। इन पंथानुयायियों ने सत्तरहवीं और अठारहवीं शताब्दी में इंग्लैंड की राजनीति में अत्यंत महत्त्वपूर्ण भाग लिया था। वहाँ पर चर्च के अधिपति सन्नाट्ट को मानने में भी इनको अत्यंत आपत्ति थी जिसके कारण इन्होंने १६४९ में चार्ल्स प्रथम का सिर काट डाला; और तत्पश्चात् ग्यारह समृद्धिशाली वर्ष पर्यंत इंग्लैंड में नॉन-कनफ़र्मिस्ट सम्प्रदाय का प्रजातंत्र स्थापित रहा।

उत्तरीय यूरोप के अधिक भागों का इस प्रकार से लैटिनीय क्रिश्चियन धर्मावलंबियों का संबंध-विच्छेद ही साधारण लोगों में सुधार अथवा रिकॉरमेशन के नाम से प्रसिद्ध है। परंतु इस क्षोभ तथा पराभव के प्रभाव से रोम के चर्च के भीतर भी प्रभावोत्पादक महान् परिवर्तन हो गये। और चर्च का पुनस्संगठन हुआ जिससे उसके जीवन में एक नवीन आत्मा का प्रवेश हो गया। इस पुनरुत्थान में अत्यंत प्रबल मूर्ति थी स्पेन देशीय एक नवयुवक की जिसका वास्तविक नाम तो इनिगोलोपेज़ देरिकाल्डे था, पर संसार में वह सेंट इगनेशियस लौपोला के नाम से अधिक प्रसिद्ध है। कुछ समय तक विचित्र जीवन व्यतीत करने के अनंतर इस व्यक्ति ने पुरोहित बन (१५३८) सोसायटी ऑफ् जीसस नामक एक ऐसी संस्था की पोष से आज्ञा प्राप्त की जिसमें सैनिक शासन के परंपरागत औदार्य और साहस को धर्म की सेवा में उपयोग करने का स्पष्टतया प्रयत्न किया गया था। जेसुइट्स अर्थात् सोसाइटी ऑफ् जीसस नामक यह संस्था आगे चलकर संसार में शिक्षा तथा धर्म प्रचार करनेवाली अभूतपूर्व संस्था हो गई। इसी ने भारत, चीन और अमेरिका में क्रिश्चियन धर्म का प्रचार किया और इसी ने रोमन चर्च को शीघ्रतया छिन्न-भिन्न होने से रोक दिया। इसी ने समस्त कैथोलिक संसार में शिक्षा का आदर्श ऊँचा किया और कैथोलिक सम्प्रदाय की बुद्धि को उन्नत किया, उसकी सदसद्-विचार-शक्ति द्रुत कर दी। इसी ने प्रोटैस्टेंट पंथानुयायी यूरोप में शिक्षा-संबंधी विषय में प्रतिस्पर्धा विकसित की। (कहाँ तक कहें) प्रबल एवं प्रथमापकारी कैथोलिक चर्च का वर्तमान स्वरूप भी अधिकतया इसी जेसुइट पुनरुत्थान का फल है।

( ५१ )

## सम्राट् चार्ल्स पंचम

सम्राट् चार्ल्स पंचम के राजत्व में पवित्र रोम-साम्राज्य एक प्रकार से उन्नति की चरम सीमा तक पहुँच गया था। यह सम्राट् यूरोप के अद्भुत एवं अभूतपूर्व शासकों में गिना जाता है। और कुछ काल तक तो उसका रोब-दाब ( भावभंगी ) भी शार्लमेन के पश्चात्कालीन सबसे बड़े सम्राट् सरीखा ही रहा।


इस महत्ता के लिए उसका अपना कुछ भी न था। यह संपूर्ण कृति प्रधान-तया उसके दादा सम्राट् मैक्समिलियन प्रथम ( १४५९-१५१९ ) ही की थी। संसार में कुछ वंशों की उन्नति उन्हीं के उद्योग के कारण हुई है और कुछ एक की नीति-कौशल से; परंतु यह हैप्सबर्ग ( वंश ) तो विवाह-संबंध द्वारा ही यथेष्ट उन्नत हो गया। मैक्समिलियन की जीवन-यात्रा के प्रारंभ में, हैप्सबर्ग की पैतृक संपदा ऑस्ट्रिया, स्टिरिया ( Styria ) ऐलसैस का कुछ भाग तथा अन्य कतिपय ज़िलों तक ही परिमित थी। नैदरलैंड और बरगैंडी की संपदा विवाहोपलक्ष्य में उसके हाथ आ गई। ( महिषी का नाम जानना हमारे लिए सर्वथा व्यर्थ है ) प्रथम पत्नी के जीवन का अंत होने पर बरगैंडी का बहुत सा भाग उसके हाथों से निकल गया, परंतु नैदरलैंड उसके अधिकार में रहा। उसने फिर विवाह द्वारा ब्रिटैनी हस्तगत करने का निष्फल प्रयत्न किया। अपने पिता फ्रैंडरिक तृतीय की मृत्यु के उपरांत १४९३ में सम्राट् पद पर अभिषिक्त हो जाने के पश्चात् विवाह के उपलक्ष्य में उसको 'मिलन' की डची प्राप्त हुई। और अंत में उसने अपने पुत्र का विवाह एक निर्बल मस्तिष्कवाली कन्या से कर दिया, जिसके माता-पिता आइसावेला और फ्रिदिनंद थे, जिनकी ख्याति कोलम्बस के नाम से है। इनका राज्य न केवल संयुक्त स्पेन, सार्डिनिया और सिसली के दोनों राज्यों में अपितु समस्त अमेरिका और ब्राज़ील के पश्चिमीय प्रदेशों में भी फैला हुआ था। यही कारण था कि उसके पौत्र पंचम चार्ल्स ने, अमेरिका महाद्वीप का बहुत अधिक अंश और तुकों की अधीनता से

बच्चा हुआ यूरोप, जो एक तिहाई से अधिक और आधे से कम था, पैत्रिक दाय में प्राप्त किया। १५०६ में वह नैदरलैंड के राजसिंहासन पर जा विराजा। माता का मस्तिष्क खराब होने के कारण नाना फ्रिंनंद की मृत्यु के उपरांत १५१९ में नाना का राज्य भी व्यावहारिक रूप में चार्ल्स को प्राप्त हो गया। और अंत में दादा मैक्स-मिलियन का १५१९ में देहांत हो जाने पर तीस वर्ष की थोड़ी सी अवस्था में वह सम्राट् पद के लिए भी निर्वाचित हो गया। (१५२०)

इस गौरांग नवयुवक के मुखमंडल से बहुत अधिक बुद्धिमत्ता प्रकट न होती थी। इसका ऊपर का थोड़ा मोटा और आगे को निकली हुई ठोड़ी बहुत बही थी। इसने संसार को अपने सरीखे युवा एवं साहसी व्यक्तियों से ही घिरा हुआ पाया। वह ज़माना तो योग्य एवं युवा सम्राटों का था। १५१५ में इक्कीस वर्ष की अवस्था में फ्रैंसिस प्रथम फ्रांस की गद्दी पर आरूढ़ हुआ और इंगलैंड के सम्राट् अष्टम हेनरी को अठारह वर्ष ही की अवस्था में (१५०९ ई०) राज्य प्राप्त हो गया था। यही समय था कि जब भारत में बाबर (१५२६-१५३०) और तुर्की में महाप्रतापी सुलेमान सरीखे अद्वितीय योग्य शासक राज्य-भार वहन कर रहे थे। यही नहीं, प्रत्युत ख्यातनामा पोप, लियो (दशम) इसी समय (१५१३ में) महान् धर्माचार्य की गद्दी पर सुशोभित था। एक ही मनुष्य के हाथ में इतनी अधिक शक्ति केन्द्रीभूत होती देख पोप और फ्रैंसिस प्रथम दोनों ही ने भय खाकर चार्ल्स के सम्राट् न चुने जाने का प्रयत्न किया और स्वयं प्रार्थी होकर फ्रैंसिस प्रथम तथा अष्टम हेनरी ने मत-दाता राजाओं से याचना भी की। परंतु बहुत काल पर्यन्त (१२७३ से) हैप्सबर्ग-वंशीय पुरुषों के सम्राट् चुने जाने के कारण और प्रयत्न-शीलता से घूस दे चार्ल्स ने इस पद पर निर्वाचित होने में सफलता प्राप्त की।

प्रारंभ में तो यह नवयुवक अपने मंत्रियों के हाथों में सुन्दर कठपुतली की भाँति रहा; परन्तु कुछ काल के अनंतर धीरे धीरे अधिकार जमा इसने शासन की बागडोर स्वयं अपने हाथों में ले ली और उस समय इसको कुछ कुछ पता चलने लगा कि मेरा यह श्रेष्ठ पद कैसे कैसे भयङ्कर एवं विघातक रहस्यों से भरा पड़ा है। सच पूछा जाय तो सम्राट्-पद इस समय शानदार होने के साथ ही साथ एक प्रकार से अतृप्त एवं सारहीन हो गया था।

शासन का आरंभ होते ही उसके जर्मन देश में लूथरोत्पादित उद्वेगों का सामना करना पड़ा। सम्राट्-पद के निर्वाचन में पोप उसका विरोधी था। इस कारण उसके धर्मसुधारकों का पक्षपाती होना चाहिए था, परंतु स्पेन सरीखे अत्यन्त कट्टर कैथोलिक धर्मानुयायी देश में लालित पालित होने के कारण सम्राट् ने लूथर का विरोध करने की ठानी। और इस



चार्ल्स पञ्चम


कारण प्रोटेस्टैंट पंथानुयायी राजकुमारों और विशेषतया सैक्सनी के इलैक्टर ( मतदाता ) से उसका भगड़ा छिड़ गया। सम्राट् के सम्मुख इस समय जर्जरीभूत क्रिश्चियन धर्म की रचना में एक ऐसा छिद्र उपस्थित था कि जिसके कारण अंत में वह दो परस्पर-विरोधी दलों में विभक्त हो गया। इस छिद्र को बंद करने के सम्राट् के सच्चे एवं अथक प्रयत्न भी सर्वथा निष्फल ही रहे। इसी समय जर्मनी में किसानों का एक विस्तृत विद्रोह या उपस्थित हुआ, जिसके कारण इस राजनैतिक एवं धार्मिक अव्यवस्था-रूपी अग्नि में और आहुति पड़ गई। पूर्व और पश्चिम की ओर के ग्राह्य आक्रमणों के कारण ये आंतरिक आपत्तियाँ साम्राज्य के लिए अब और भी अधिक दुरूह एवं जटिल हो गई थीं। पश्चिम की ओर तो फ्रैंसिस प्रथम चार्ल्स का शक्तिशाली प्रतिस्पर्धी था और पूर्व की ओर थी सदा आगे की ओर बढ़नेवाली तुर्क जाति, जो इस समय फ्रांस की सहायता से ऑस्ट्रियन प्रदेश से राजस्व ऋण शेष लेने के लिए हंगरी देश में आ ऊधम मचा रही थी। चार्ल्स के पास इस समय धन भी था और स्पेन-देशीय सेना भी; परन्तु जर्मनी से एक पैसा तक सहायता रूप वह प्राप्त न कर सका। राजनैतिक और सामाजिक विपत्तियाँ सम्राट् के आर्थिक कष्ट के कारण अब और भी भीषण एवं जटिल हो गई थीं और अन्त में लाचार हो उसके सत्यानाशी ऋण की शरण लेनी पड़ी।

अन्त में चार्ल्स ने अष्टम हैनरी की सहायता से फ्रैंसिस प्रथम और तुर्क जाति पर विजय प्राप्त की। उत्तरीय इटैली इन युद्धों का प्रधान रणक्षेत्र था। दोनों ओर का सैन्य-सञ्चालन मन्द था। आक्रमण अथवा पीछे की ओर हटना नवीन दल की सहायता पर निर्भर था। धावा मारकर फ्रांस में घुस जाने पर भी जर्मन सेना मार्सेल्ल को न ले सकी। उलटे पैर उसको इटैली लौटना पड़ा और वहाँ जाने पर मिलन उसके हाथों से निकल गया तथा पविया में शत्रु-सैन्य ने उसको घेर लिया। परन्तु सुदीर्घ काल तक भी घेरा डालकर जब फ्रैंसिस प्रथम नगर को न ले सका, तो एक बार जर्मन सैन्य-दल ने सहसा आक्रमण द्वारा पराजित और घायल कर सम्राट् को अपनी बंदी बना लिया। परन्तु चार्ल्स को अधिक दल प्राप्त करते देख अब पोप और हैनरी ( अष्टम ) दोनों ही भ्रू और इन्ना उसके विरोधी हो गये। इसी अवसर पर मिलन नगरस्थ जर्मन मेना ने वेतन न मिलने के कारण बोरबौन के कांस्टेबिल की अध्यक्षता में सेना-नायक की आज्ञा के विरुद्ध रोम पर आक्रमण करने के लिए उसको विवश किया। इधर तो पोप सेंट एंजिलो में जाकर छिपे और उधर उन्होंने नगर पर धावा बोल सन् १५२७ में उसको खूब ही लूटा। अन्त में पोप से चार लाख ड्यूकैट ( अर्थात् सुवर्ण-मुद्रा जिसमें प्रत्येक का मूल्य आधुनिक नौ शिलिंग है ) लेकर जर्मन सेना ने पिंट छोड़ा। इस प्रकार अव्यवस्थित



रूप से होनेवाले दस वर्ष के युद्ध ने समस्त यूरोप की शक्ति क्षीण कर दी। अन्त में सम्राट् के इटैली पर विजय प्राप्त हो गई और बोलोना नामक नगर में पोप ने स्वयं अपने हाथों से सम्राट् के राज-मुकुट पहिरा दिया ( १५३० )। स्मरण रखना चाहिए कि यह सम्राट् अंतिम जर्मन नृपति था, जिसको इस प्रकार मुकुट पहिराया गया।

तुर्क इस समय हंगेरी में बहुत विजयी हो रहे थे, और उन्होंने १५२६ में पराजित कर वहाँ के राजा का युद्ध में वध कर दिया; १५२९ में बुदापेस्ट उनके हाथ में आ गया था। वियेना का प्रसिद्ध नगर प्रतापी सुलैमान के हाथों आते-आते रह गया। तुर्कों को इस प्रकार आगे बढ़ता हुआ देखकर सम्राट् चिंतित था और उसने इन शत्रुओं को पीछे हटाने के भरसक प्रयत्न किये। परंतु सीमा पर खड़े हुए प्रवल शत्रुदल का प्रतिकार करने के लिए जर्मन राजकुमारों को एकत्रित करने में सम्राट् के बड़ी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कुछ काल पर्यंत तो फ्रांसिस प्रथम ही अचल बना रहा; और फ्रांस से उसका ( सम्राट् का ) पुनः युद्ध छिड़ गया। परंतु दक्षिणीय फ्रांस का सत्यानाश करने के अनंतर सम्राट् ने अपने प्रतिस्पर्धी के समझा बुझाकर १५३८ में कुछ अंश में मित्र बना लिया; और अब चार्ल्स तथा फ्रांसिस दोनों ने सम्मिलित हो तुर्कों का सामना करने का निश्चय किया। परंतु इसी समय प्रोटेस्टेंट तथा जर्मन राजकुमारों ने, जो रोम से बंधन मुक्त करने के लिए तुले हुए थे, शमालकालडिक ( Schmalkaldic ) नामक संस्था सम्राट् के विरुद्ध स्थापित कर ली और चार्ल्स ने क्रिश्चियन धर्मावलंबियों के निमित्त हंगेरी का तुर्कों से उद्धार करने के स्थान में अपना ध्यान उस आंतरिक कलह के सुलभाने की ओर लगाया जो जर्मनी में फैलता जा रहा था। इस गृहकलह-रूपी युद्ध का तो उसने प्रारंभ मात्र ही देखा। राजकुमारों के प्रभुत्व प्राप्त करने की, यह न्यायरहित, रक्तसावी कलहाग्नि कभी तो लपलपाती हुई जिह्वाओं द्वारा प्रचंड रूप धारण कर क्षयकारी युद्ध में परिवर्तित हो आगे को बढ़ती थी और कभी कूटयुक्ति और नीति में परिवर्तित हो पीछे की ओर हट जाती थी। राजकुमारों की यह कूटनीति, वास्तव में थैले के सपों के सदृश रेंग-रेंगकर बाहर आ उन्नीसवीं शताब्दी पर्यंत मध्य यूरोप को असाध्य रूप से डूँसकर निर्जाँव करती रही।

ऐसा प्रतीत होता है कि इस कलह को उत्तरोत्तर बढ़ानेवाली -  कियों को सम्राट् समझ ही न सका। अपने समय तथा पद-मर्यादा के विचार से तो वह अद्वितीय योग्यता रखनेवाला पुरुष था और इन धार्मिक विरोधों को, जो युद्ध द्वारा यूरोप को छिन्न-भिन्न कर विभाजित कर रहे थे, वह सदा दार्शनिक मतभेद समझता रहा। राज्य-सभा ( डायट ) तथा मंत्रणा-सभा ( काउंसिल ) द्वारा इन सिद्धांतों को सुलभाने के उसने कई

असफल प्रयत्न भी किये और बहुत से धार्मिक सूत्र एवं नियम भी बनाये गये पर वे सब व्यर्थ हुए। जर्मन इतिहास के पाठकों का यह कर्त्तव्य है कि वे नूरेमबर्ग (Nuremberg) की धार्मिक संधि के विवरण, रैटिसवन की डायट अर्थात् राज्य-सभा के सम्भौते और आंज़बर्ग की (Interim) इंटैरिम अर्थात् अस्थायी संधि इत्यादि सभी पत्रों को ध्यान-पूर्वक पढ़ें। पराकाष्ठा को पहुँचे हुए इस सम्राट् के दुःखमय जीवन की घटनाओं की सविस्तर सूची देकर ही हम यहाँ बस करते हैं। वास्तव में बात तो यह है कि तत्कालीन यूरोपीय समस्त राजकुमार तथा शासक-समूह में शुद्ध हृदय से कार्य करनेवाला कोई विरला ही रहा होगा। संसार में फैला हुआ जोभ जनसाधारण द्वारा सत्य और यथार्थ व्यवहार की आकांक्षा और तत्कालीन उन्नतशाली ज्ञान, सभी राजकुमारों की कूटनीति-रूपी कसौटी पर कसे जाते थे। इंग्लैंड का राजा अष्टम हैनरी, जिसने शासनारंभ में नास्तिकों के विरुद्ध एक पुस्तक लिखकर पोप से धर्मरक्षक की उपाधि पाई थी, श्रव स्वयं अपनी प्रथम पत्नी को तलाक़ देकर, ऐन बोलेन नामक एक नवयौवना से विवाह करने का इच्छुक हो, इंग्लैंड के चर्च की संपत्ति लूटने की नीयत से १५३० में प्रोटेस्टैंट राजकुमारों से जा मिला। इसके अतिरिक्त स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे भी पहले से उस पंथ की ओर हो गये थे।

मार्टिन लूथर की मृत्यु के कुछ मास पश्चात् १५४६ में ही जर्मन-धार्मिक युद्ध छिड़ गया। परंतु उसका यहाँ विवरण देना व्यर्थ है। लोचाऊ नामक स्थान में प्रोटेस्टैंट पंथानुयायी सैक्सन दल की बुरी तरह हार हुई और सम्राट् का एकमात्र अवशिष्ट प्रवल शत्रु फिलिप ऑव् हैस एक योजना द्वारा, जो विश्वासघात सी प्रतीत होता है, पकड़ा जाकर बंदी बना लिया गया। सम्राट् ने श्रव तुकों को भी वार्षिक राजस्व देने की प्रतिज्ञा कर अपनी श्रोर कर लिया। फिर फ्रैंसिस प्रथम की मृत्यु हो जाने से (१५४७) सम्राट् के हृदय का बोझ और भी हलका हो गया। इस प्रकार एक तरह की शांति प्राप्त कर संधि न होते हुए भी संधि-स्थापन करने का सम्राट् ने एक और अंतिम प्रयत्न किया। १५५२ में समस्त जर्मनी में पुनः युद्धवाला प्रवृत्त हो गई और इन्नसब्रुक नामक स्थान से तावड़-ताड़ भागने के कारण सम्राट् बंदी होते-होते बाल-बाल बचा, परंतु पलाऊ की संधि हो जाने पर इस बार फिर अस्थायी रूप से युद्ध स्थगित हो गया... ..।

साम्राज्य में बत्तीस वर्ष पर्यंत व्यवहार की जानेवाली राजनीति की यह रूपरेखा है। और मज़े की बात यह है कि समस्त यूरोपीय मस्तिष्क यूरोपीय प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए कैसे दत्तचित्त होकर जुट रहे थे। न तो तुर्क और न फ्रांसीसी, न श्रैंगरेज़ और

न जर्मन, किसी जाति ने अभी तक अमेरिका महाद्वीप में न तो किसी सत्त्व का आविष्कार किया था और न एशिया को जानेवाले नये समुद्र-पथ में कुछ विशेष प्रयोजन समझा था। अमेरिका में इस समय बड़ी मार्के की बातें हो रही थीं, कार्टेज ने केवल मुट्टी भर पुरुषों की सहायता से मैक्सिको के उत्तर-पाषाण-युगीय साम्राज्य को स्पेन के लिए जीत लिया था और पिज़ारो ने पनामा के स्थल-ग्रीव को पार कर ( १५३० ) पेरू नामक एक अन्य अद्भुत देश को अपने अधीन कर लिया था। परंतु अभी तक यूरोप की दृष्टि में इन घटनाओं का मूल्य इतना न था जितना स्पेन देशीय कोष में लाभकारी एवं उत्साह-वर्धक चाँदी की आयात का।

चार्ल्स के मस्तिष्क की अपूर्व प्रतिभा का दिग्दर्शन पसाऊ की संधि के अनंतर हुआ। राजकीय महत्ता से उसका चित्त अब विलकुल ऊँच गया था; और तज्जनित माया नष्ट हो गई थी। यूरोपीय प्रतिस्पर्धाओं की असारता का भी उसको बोध हो गया था। शरीर तो उसका वैसे ही कभी सुदृढ़ न था, उस पर उसका स्वभाव आलसी और देह गठिया-ग्रसित था; अतएव उसने राजसिंहासन का परित्याग कर दिया; और जर्मनी का राज्याधिकार अपने भाई फ्रिदिनंद को दिया, तथा स्पेन व नैदरलैंड अपने पुत्र फिलिप को। तदनंतर वह टेगस नदी की घाटी की उत्तरीय पर्वत-उपत्यका में ओक तथा चैस्टनट नामक वृक्षों के वन में बने हुए यूस्टे के मठरूपी सुंदर मियान में खंजर की भाँति जा बुसा और वहीं १५५८ में उसका देहांत हुआ।

संसार से ऊँच अथवा क्लान्त होकर समस्त राज्य-भार छोड़ एकांत में तपस्या द्वारा, परमेश्वर की आराधना में शांति प्राप्त करनेवाले इस परिश्रान्त टाइटन ( अर्थात् ग्रीस की दंतकथाओं में वर्णित दिव्य महा शक्तिशाली पुरुष के सदृश ) महाराज के उपरोक्त त्याग के संबंध में बहुत से लेख भावावेश में लिख दिये गये हैं। परंतु यदि वास्तव में देखा जाय तो सम्राट् के इस त्याग में न तो एकांतवास ही था और न तपस्या। यहाँ पर भी उसके पास लगभग डेढ़ सौ भृत्य थे। उसके भृत्यादि-वर्ग तथा आवास-स्थान का प्रताप एवं विलास-सामग्री यहाँ पर भी राजदरवार जैसी थी; नहीं था तो केवल यहाँ का क्लान्तिकारक कार्य ( अर्थात् राजनैतिक कार्य )। इस पर तुरा यह है कि फिलिप द्वितीय भी ऐसा पितृभक्त था कि पिता का परामर्श उसके लिए सदा आज्ञा के तुल्य था।

यूरोपीय शासन से चार्ल्स को विराग हो गया था तो क्या; उसके हृदय में उथल-पुथल मन्त्राने के लिए अधिक निकटस्थ कारण तो उपस्थित थे। प्रैसकौट कहता है कि क्विक्लैंडा, गैज़टेल्सु तथा वैलाडौलिड के राज-सचिव के दैनिक पत्र-व्यवहार में शायद ही कोई ऐसी चिट्ठी होती होगी जिसमें सम्राट् के रोग अथवा भोग का कुछ वर्णन न हो।


एक के पश्चात् दूसरे का ऐसी नैसर्गिक विधि से वर्णन पाया जाता है कि मानों एक दूसरे की धारावाहिक टीका है। इन बातों को राजकीय पत्र-व्यवहार में बहुत कम अवसरों पर प्राधान्य दिया जाता है। राजनीति तथा विलासमय भोजन-विधि का सम्मिश्रित पत्र-व्यवहार पढ़कर मंत्री के लिए अपनी गंभीरता बनाये रखना कोई सरल बात न थी। सम्राट् के भोजनार्थ उत्तम पदार्थ संग्रह करने के लिए वैलाडौलिड से लिसवन जानेवाले डाक-हरकारों को घूमकर जैरिंडल होकर जाने का आदेश था। आगामी नार मायगर ( Jour maigre ) नामक उपवास-दिवस के लिए उसके प्रति वृहस्पतिवार के दिन मछली लानी पड़ती थी। पास-पड़ोस की रोहू मछलियों को चार्ल्स अत्यंत छोटा समझता था; इसलिए वैलाडोलिड से अन्य जाति के भीमकाय मत्स्य उसके लिए मंगाये जाते थे। सब जाति की मछलियाँ और उन्हीं के सदृश प्रकृतिवाले अन्य जलजंतु भी सम्राट् को अत्यंत प्रिय थे। गैंड, मंडक और सीप की महाराज की भोजन-सामग्री में विशेष महत्ता थी। (Potted fish) पौटेड फिश ( प्रकार-विशेष की मछली ) और उनमें भी (Anchovies) एँ कोविस ( जाति-विशेष की मछली ) पर उसका अतीव अनुराग था। इस जाति की मछलियों के ( लो कंट्री—Low Countries ) निम्न देश अर्थात् बेल्जियम और हॉलैंड से अधिक संख्या में अपने साथ न लाने का उसको दुःख बना रहता था। जाल-ब्याल (eel-pasty) के मांस-पूप पर तो चार्ल्स मानों जान ही देता था\*।

१५५४ में तृतीय ज्यूलियस नामक पोप ने चार्ल्स को व्रत से मुक्त करने का आदेश दे दिया कि वह प्रातःकाल सैक्रे मेंट नामक संस्कार से प्रथम ही भोजन कर सके।

भोजन और ओपधि-सेवन इन्हीं प्राथमिक तत्त्वों पर वह अब पुनः लौटकर आ गया। स्वयं पढ़ने का स्वभाव न होने के कारण, शार्लमेन की भाँति, भोजन के समय पुस्तक पढ़वाकर सुनने की, जिसको एक कथाकार 'सुंदर स्वर्गीय व्याख्या' बतलाता है, उसकी टेव थी। यंत्र-निर्मित खिलौनों द्वारा मन बहलाने, गायन एवं धर्मोपदेश सुनने और अपने सम्मुख यदा-कदा प्रवाहित होकर आ जानेवाले राज-संबंधी कार्य को निपटाने में अब सम्राट् का समय बीतता था। सम्राज्ञी के देहांत के कारण—जिससे इसको अतीव स्नेह था—इसका चित्त धर्म की ओर फिर गया और यह सूक्ष्म नियमनिष्ठ वैदिक विधानों का पालन करने लगा। वसंतकालीन लैंट नामक चार्लिस दिवस पर्यंत होनेवाले व्रत के समय प्रत्येक शुक्रवार को, अन्य मठाधिवासियों के साथ, सम्राट् अपने

\* राबर्टसन के 'हिस्ट्री ऑव दि चार्ल्स दि सिफ्थ' नामक ग्रंथ में प्रेनकॉट-लिखित परिशिष्ट देखिए।

शरीर में श्रद्धा से इतने कोड़े मारता था कि रुधिर निकल आता था। इस आचरण और गठिया रोग के कारण ही चार्ल्स की धर्मान्धता प्रकट हो गई जो अब तक पौलिसी



रोम के सेट पिटर गिरजे का भीतरी दृश्य

से दया हुई थी; और निकटवर्ती वेलाडोलिड में प्रोटेस्टेंट पंथानुयायियों को धर्मोपदेश देते देख सम्राट् का क्रोध उबल पड़ा और उसने ( grand inquisitor ) महान्

विचारक तथा उसकी मंत्रणा-सभा को आदेश दिया कि वह अपने अधिकार पर दृढ़ रहकर वृद्धि होने के प्रथम ही पाप-वृक्ष की जड़ पर परशु-प्रहार कर दे। उसकी धारणा थी कि ऐसे पापाचारों में साधारण न्याय-विधि का परित्याग और कठोरता का व्यवहार कहीं अधिक उत्तम है। क्योंकि क्षमा-प्रदान करने पर तो पापी वे पुनः अपराध करने का अवसर मिल सकता था। अतएव जिस प्रकार उसने नैदरलैंड में दृढात् अशुद्ध आचरण करनेवालों को अग्नि में जीता जला दिया था और पश्चात्ताप करनेवालों के सिर पृथक् करा दिये थे, उसी प्रकार अर्थात् अपनी नीति को अनुसरण करने का सम्राट् ने इस समय भी उपदेश दिया।

अपने स्थान के चिह्न-स्वरूप और इतिहास-रूपी नाटक में अपने अभिनय के अनुरूप ही अंत्येष्टि क्रियाओं में सम्राट् अब अनुरक्ति रखने लगा था। ऐसा प्रतीत होता है कि उसके हृदय में कुछ ऐसी आंतरिक भावनाएँ सी उठती थीं कि मानों यूरोप में किसी महान् व्यक्ति की जीवन-लीला समाप्त हो गई है। उसका समाधिस्थ होना अत्यन्त आवश्यक है और समाधि ( -लेख ) बहुत पहले तैयार हो जाना चाहिए था। मुआमिला यहाँ तक बढ़ा हुआ था कि यूस्टे में देह त्यागनेवाले प्रत्येक प्राणी की अंत्येष्टि क्रिया में केवल भाग लेकर संतुष्ट न हो सम्राट्, उस समय और वहाँ पर न मरनेवाले मृतकों की अंतिम संस्कार-संबंधी प्रार्थना भी करा देता था; उसकी अपनी पत्नी की प्रत्येक वर्षा पर भी स्मृति-रक्षणार्थ और्ध्वदैहिक संस्कार-संबंधी प्रार्थनाएँ होती थीं, और अंत में उमने अपने जीवन में अपना और्ध्वदैहिक संस्कार भी करा डाला।

इस अवसर पर गिरजा कृष्ण वस्त्रों से ऐसा आच्छादित किया गया था कि संकटों मोमयत्तियों का प्रकाश भी उसके आंतरिक अंधकार को दूर करने में पर्याप्त न था। गिरजा के मध्य भू-भागस्थ, कृष्णवस्त्राच्छादित एक अस्थायी परन्तु महान् चेल्य के चारों ओर मठ-परिधान में परिवेष्टित मठाधवासियों और गहरे शोक सूचक वस्त्र पहिरे हुए सम्राट् के भृत्यादि अनुयायियों के एकत्रित होने पर मृतक (शव) के गाड़ने का संस्कार किया गया और मठाधवासियों के नैराश्य-पूर्ण करुण-क्रंदन के मध्य ही विगत आत्मा की स्वर्ग-प्राप्ति तथा शांति-लाभ करने के लिए उच्च स्वर से प्रार्थनाएँ होने लगीं। या तो स्वामी की मृत्यु के चित्र को इस भाँति चित्रित होते देख, या इस दयनीय दृश्य के दर्शन मात्र से हृदय द्रवीभूत होने के कारण वेचारे शोकमग्न भृत्यों की आँखों से अद्विगत अश्रु-धाराएँ वह चलीं। कृष्णाभिसारिका की भाँति वस्त्रावगुंठित हो हाथ में जलती हुई मांमयत्ती लिये चार्ल्स भी इस समय भृत्य-समूह के मध्य खड़े हुए अपने और्ध्वदैहिक संस्कार को स्वयं अपनी आँखों से देख रहा था और तत्पश्चात् आत्मा को परम पिता के समर्पण करने

के अनुरूप जलती हुई मोमबत्ती पादरी महोदय के हाथों में देते ही इस शोकमय संस्कार का अन्त हो गया ।

इस स्वाँग के दो मास के भीतर ही चार्ल्स की मृत्यु हो गई और पवित्र रोम-साम्राज्य की क्षुद्र-कालीन महत्ता का भी उसके साथ सदा के लिए अन्त हो गया । रहीं उसके राज्य की बात सो वह तो पहले से ही पुत्र तथा भ्राता के मध्य विभाजित कर दिया गया था । पवित्र रोम-साम्राज्य जैसे तो नेपोलियन-प्रथम के समय तक जीवित रहा; परन्तु उस समय उसकी दशा एक दुर्बल एवं मरणासन्न रोगी के सदृश थी । श्मशानार्पित होने से बची हुई इस साम्राज्य की प्राचीन परंपराएँ आज तक राजनैतिक वायु-मंडल को विपाक्त किये डालती हैं ।

---

## राजनैतिक प्रयोगों के युग, यूरोप में महान् स्वच्छन्द राजशासन, पार्लियामेंट और प्रजातंत्र

लैटिन चर्च छिन्न-भिन्न हो गया था, पवित्र रोम साम्राज्य अत्यंत हीन दशा में था, ( ऐसी अवस्था में ) सोलहवीं शताब्दी के प्रारंभ से, यूरोप का इतिहास नित्योत्पन्न नवीन परिस्थितियों के उपयुक्त किसी नवीन शासन-व्यवस्था के अंधकार में टटोलती हुई जातियों का उपाख्यान मात्र है। प्राचीन समय में संसार की दशा यह थी कि कालांतरों में राजवंशों के और शासकों की जाति तथा भाषाओं के परिवर्तित होने पर भी नृपति एवं मंदिरों द्वारा शासन करने की प्रणाली में कुछ भी भेद न पड़ता था, और इससे भी अधिक अपरिवर्तनशील रहती थी तब जनसाधारण की जीवन-चर्या। इसके विपरीत, सोलहवीं शताब्दी से आधुनिक यूरोप में राजवंशों के परिवर्तन तो गौण हो गये परंतु राजनैतिक एवं सामाजिक संस्थाओं के विस्तृत एवं दिन प्रतिदिन बढ़नेवाले विविध प्रयोगों के इतिहास में महत्त्व एवं प्रधानता प्राप्त हो गई।

हम कह चुके हैं कि संसार का राजनैतिक इतिहास सोलहवीं शताब्दी के अनंतर नवोत्थित परिस्थिति के उपयुक्त राजनैतिक और सामाजिक पद्धति की संयोजना करने के लिए मनुष्य-जाति का प्रयत्न—और वह भी अधिकतया अनभिज्ञता से किया हुआ प्रयत्न—मात्र था। परिस्थिति में स्वयं ही सुदृढ़ रूप से शीघ्र परिवर्तन होने के कारण उस समय संयोजन के प्रयत्न और भी अधिक जटिल हो गये थे। बहुधा अनभिज्ञता से और सर्वथा अनिच्छा-पूर्वक ( क्योंकि जनसाधारण इच्छापूर्वक परिवर्तन करना नहीं चाहते ) किया हुआ एक नया आयोजन जब तक त्यागकार किया जाता था, तब तक एक और ही नवीन परिस्थिति उत्पन्न हो जाती थी। इस प्रकार नवीन आयोजन सदैव परिवर्तित परिस्थिति के पीछे धिसटते रहे, कभी साथ न दे सकें। सोलहवीं शताब्दी के अनंतर मानव इतिहास में, केवल सामाजिक और राजनैतिक संस्थाओं के अधिका-



धिक स्पष्टतया अनुपयुक्त और अल्प सुखप्रद तथा अधिक दुःखपूर्ण होने की गथाएँ तथा मनुष्यों की समस्त सामाजिक व्यवस्था-संबंधी दृढ़ संयोजन की आवश्यकता के शनैःशनैः अनुभवों की कथाएँ हैं।

मानव-जीवन की परिस्थिति में वह कौन से ऐसे परिवर्तन हैं, जिनके कारण साम्राज्य और पुरोहित, किसान और व्यापारी, सभी का सम-तौलन (Balance)—जिस पर प्राचीन जगत् की मानवीय व्यवस्था सौ शताब्दियों से अधिक काल तक अवलंबित थी—समय-समय पर होनेवाले वर्वरो के आक्रमण की सहायता पाकर इस प्रकार अव्यवस्थित हो गया ?

मानवीय व्यापारों के अत्यन्ताधिक जटिल एवं दुरूह होने के कारण, यह ( परिवर्तन ) भी विविध एवं नाना प्रकार के थे। परंतु प्रमुख परिवर्तनों का एक ही हेतु प्रतीत होता है अर्थात् पदार्थों के स्वभाव-संबंधी ज्ञान की वृद्धि और विस्तार। यह ज्ञान सबसे पहले बुद्धिमान् मनुष्यों की छोटी-छोटी टुकड़ियों ही को हुआ; फिर कुछ काल तक धीरे-धीरे वृद्धि पाकर, पिछले पाँच सौ साल में, यह अत्यंत द्रुत गति से जनसाधारण की अधिकाधिक संख्या में दिन दूना रात चौगुना फैल गया।

परंतु जीवन की वृत्तियाँ ( Spirit ) बदलते रहने के कारण, मानव-परिस्थिति में भी बहुत परिवर्तन हो गये हैं। और इसके साथ ही साथ ज्ञान की वृद्धि और विस्तार में भी—जो उनसे अतीव सूक्ष्म संबंध रखता है—ऐसे परिवर्तन हुए हैं कि अपनी साधारण भौतिकेच्छाओं की पूर्ति के जीवन का ध्येय मानकर संतुष्ट रहने के स्थान में एक वृहत्तर जीवन की सेवा तथा उससे संबंध स्थापित करने के प्रयत्न की लोगों में दिन प्रति दिन प्रवृत्ति इच्छा हो रही है। बौद्ध, क्रिश्चियन तथा इसलाम इत्यादि बीस-पच्चीस शताब्दियों में संसार में फैलनेवाले महान् धर्मों का समान रूप से यही ध्येय रहा है। मानवीय भावों को इन्होंने प्राचीन धर्मों से विपरीत, कुछ अनोखी रीति से बदला है। ये शक्तियाँ अपने स्वभाव एवं प्रभाव की दृष्टि से—पुरोहित तथा मंदिरों के रुधिर-बलिदान-मय प्राचीन धर्म में जिनको इन्होंने कुछ बदल दिया या उड़ा दिया है—नितांत भिन्न हैं। इन धर्मों के कारण ही प्रत्येक व्यक्ति में धीरे-धीरे आत्म-सम्मान और सार्वजनिक कार्यों में भाग लेकर जिम्मेदार बनने के कुछ ऐसे भाव उत्पन्न हो गये हैं जो प्राचीन सभ्यता के मानव-समाज में विलकुल न थे।


अतीतकालीन सभ्यता की राजनैतिक और सामाजिक जीवन-परिस्थिति में प्रथम बड़ा परिवर्तन लेखन-कला के सरल एवं विस्तृत प्रचार के पश्चात् हुआ और इसी के कारण विस्तृत साम्राज्य तथा अधिक उदार राजनैतिक समझौते साध्य और अपरिहार्य हो

सके। घोड़ों और उनके कुछ काल पश्चात् ऊँटों के स्थानांतर में जाने का साधन बनाने के कारण उन्नति की इस वाढ़ में दूसरी लहर आई। तदनंतर पहियेदार गाड़ियाँ तथा विस्तृत सड़कें भी चल पड़ीं और वसुंधरा के गर्भ में स्थित लोहे के आविष्कार के कारण सैन्य-नैपुण्य भी खूब बढ़ गया। इसके पश्चात् 'मुद्रा' के चलन ने गहरा आर्थिक धोम उत्पन्न कर दिया; और इस सरल परंतु भयंकर संकेत (Convention) के कारण अधिकार, वाणिज्य और ऋणरीति में भी परिवर्तन हो गया। फिर साम्राज्यों के परिमाण एवं विस्तार के साथ ही साथ मनुष्यों के विचार भी इन पदार्थों के अनुरूप विशद हो गये। स्थानीय देवताओं के लोप होते ही अब एकेश्वर के प्रभुत्व एवं संसार के महान् धर्मों के उपदेशों का युग आ गया। युक्ति-युक्त तथा लेखबद्ध इतिहास एवं भू-वर्णन (Geography) का प्रारंभ तथा मनुष्यों के अपनी नितांत अनभिज्ञता का सर्वप्रथम बोध होने पर क्रमबद्ध वैज्ञानिक जिज्ञासा का प्रारंभ इसी समय हुआ।

यूनान और ऐलेकज़ैंड्रिया में प्रदीप्त की हुई वैज्ञानिक प्रयोग-विधि में कुछ काल के लिए बाधा खड़ी हो गई थी। ट्यूटन (teuton) जातीय बर्बरों के आक्रमण और मंगोलों के पश्चिम और अग्रसर होने तथा धोमकारी धार्मिक पुनर्निर्माण और महामारी इन सब हेतुओं के कारण राजनैतिक एवं सामाजिक क्रमों या विभागों पर गहरा आकर्ष था। मानव-सभ्यता जब इस संग्राम और अव्यवस्था की ग्रहदशा को पार कर बाहर निकली तो आर्थिक जीवन का आधार—दासत्व—न रह गया। और सर्व-प्रथम स्थापित होनेवाले कागज़ के कारखानों में सामूहिक शिक्षा, और सहयोग के नये साधन (अर्थात्) छपे हुए कागज़ के रूप में तैयार किये जा रहे थे। क्रमबद्ध वैज्ञानिक खोज, इसी समय, यदा-कदा पुनः प्रारंभ हुई।

विधिवत् चिन्तन करने का अवश्यम्भावी परंतु गौण रूप से फल यह हुआ कि सोलहवीं शताब्दी (अर्थात् वैज्ञानिक रीति से विचार करने के समय) के पश्चात् नित्य प्रति उन्नति करनेवाले, बहुत से ऐसे आविष्कार और साधन निकले जिनसे आवागमन तथा व्यापार का विकास हुआ। इन सबका उद्देश्य, कार्य-क्षेत्र का विस्तार, पारस्परिक हानि-लाभ की शक्ति में वृद्धि और अधिकाधिक सहयोग था। मानव-मस्तिष्क में इस प्रकार की वस्तुओं को ग्रहण करने की क्षमता तब न थी; यही कारण है कि ऐतिहासिकों को बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में महान् आपदाओं द्वारा उनकी स्मृति बूढ़ जाने के समय तक, दिन प्रति दिन वाढ़ के समान बढ़नेवाले इन आविष्कारों द्वारा उत्पन्न की हुई नई परिस्थितियों के अनुरूप, सोच-समझकर निकाली हुई नई योजनाओं के वर्णन करने योग्य कुछ भी सामग्री नहीं मिलती। गत चार शताब्दियों में मनुष्य-जाति


की दशा बंदीगृह में सेये हुए उस कैदी के समान है जो अपने नियंत्रित करनेवाले आश्रयस्थान—जेलखाने—में आग लग जाने पर अवसर का उपयोग करने के स्थान में बैचैनी से यो ही मूर्ख की भाँति करवटे बदलता हुआ—सजग न होकर—अग्नि की चटचटाहट और उष्णता को अतीतकालीन असंबद्ध स्वप्न की घटना का अंश समझता है या समझता रहे।



क्रामवेल दीर्घ पार्लियामेंट को भंग करके इंग्लैंड के कामनवेलथ का सर्वेसर्वा बन रहा है।

इतिहास जातियों की कथाओं का वर्णन करता है न कि व्यक्तियों की। इसी कारण, मानव-संमर्ग में परिवर्तन करनेवाले आविष्कारों को ही इतिहास में विशेष महत्त्व प्राप्त होता है। नोलहवीं शताब्दी के आविष्कारों में हमारे ध्यान देने योग्य एक तो है छपे हुए कागज़ों का चलन; और दूसरा है समुद्रयात्रा करनेवाले जहाज़ों में मल्लाहों द्वारा ट्रिक्-मूचक यंत्र के व्यवहार करने की नई योजना। पहले आविष्कार ने शिक्षा,

सर्वसाधारण की जानकारी, वादविवाद और राजनैतिक प्रगतियों के प्रधान साधनों के सस्ता एवं विस्तृत कर क्रांति उत्पन्न कर दी। और दूसरे नये साधन ने समस्त भू-मंडल को एक कर दिया। परंतु तेरहवीं शताब्दी में मंगोलों द्वारा पश्चिमीय देशों में लाई हुई वारूद, तोपों की उन्नति और उनका अधिकाधिक व्यवहार भी कम महत्त्वपूर्ण न था। प्राकारस्थ नगरों और गढ़ों में अब तक सुरक्षित बैठे हुए 'बैरेंन' नामधारी जागीरदारों की निर्भयता इन्हीं के कारण भंग हुई। जागीरदारी प्रथा को तो तोपों ने ही उड़ाकर भस्मसात् किया था। कुस्तुनतुनिया का प्रधान नगर इन्हीं के बल से धराशायी हुआ। और मैक्सिको तथा पेरू प्रदेश भी स्पेनदेशीय तोपों से वस्त कर जीत लिये गये।



वर्सेलीज़ की अदालत

नियमित रूप से भौतिक विज्ञान-संबंधी प्रकाशन सत्रहवीं शताब्दी में ही प्रारंभ हुआ। और आदि में असार सा प्रतीत होने पर भी यह नूतन मार्ग अंत में अत्यंत सारगर्भित सिद्ध हुआ। इस दिशा में, सबसे आगे पैर बढ़ानेवाले नेताओं में सर फ्रैंसिस

वेकन ( १५६१-१६२६ ) का नाम, जो पीछे से लॉर्ड वैरुलम की उपाधि से विभूषित हो ईंग्लैंड का लार्ड चान्सेलर हो गया था, अत्यंत उत्कर्ष से लिया जायगा। यह व्यक्ति कौलचैस्टर-निवासी डा० गिलवर्ट नामक वैज्ञानिक ( भौतिक ) ( १५४०-१६०३ ) का शिष्य था और शायद उसकी मुखनालिका ( Mouthpiece ) का काम करता था। अपने नामराशि प्रथम वेकन की भाँति, यह भी प्रयोग करने और पदार्थों के गवेषणा-पूर्वक देखने का उपदेश देता था। और विज्ञान-संबंधी अनुसंधानों द्वारा भविष्य में होनेवाले महान् उपकार को प्रदर्शित करने के लिए अपने सुख-स्वप्न का वर्णन सर फ्रैंसिस ने अपनी यूटोपिया की उत्साह-वर्धक एवं फलप्रद न्यू एटलाटिस ( The New Atlantis ) नामक कहानी में किया है।

फिर अनुसंधान-कार्य को प्रोत्साहन देने तथा ज्ञान-संबंधी विचार-विमर्श को प्रकाशित करने के लिए लंदन की रायल सोसायटी और फ्लोरेंस की फ्लौरेंटाइन सोसायटी तथा अन्य जातीय सोसायटियाँ भी कुछ काल के अनंतर स्थापित हो गईं। यूरोप की इन विज्ञान-सभाओं का निर्भर न केवल आविष्कार-रूपी नदियों का, वरन् बहुत शताब्दियों पर्यंत मानव-विचारों को पगु बना उन पर शासन करनेवाले धार्मिक इतिहास पर पानी फेरनेवाली विघातात्मक आलोचनाओं का भी उद्गम-स्थान था।

सतरहवीं और अठारहवीं शताब्दी में कागज़ की छुपाई और समुद्रों में यात्रा करने-वाले जहाज़ों द्वारा मानव परिस्थिति में जितनी शीघ्रता से क्रांति हुई उतनी शायद किसी अन्य नूतन पद्धति के कारण नहीं हुई। परंतु उस समय के स्थिरता-पूर्वक किये हुए ज्ञानार्जन और वैज्ञानिक शक्ति के संचय का पूर्ण फल उन्नीसवीं शताब्दी में प्रत्यक्ष हुआ। खोज-खोजकर पृथ्वी के मानचित्र बनाने का कार्य प्रारंभ हो जाने के कारण, अब टैस-मैनिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड भी संसार के नक्शों में देखने लगे। अठारहवीं शताब्दी में, धातुओं का गलाकर साफ करने के लिए, ग्रेट-ब्रिटेन में लकड़ी के कोयले के स्थान में—काल-कैक अर्थात् पत्थर का कोयला उपयोग में आने के कारण—लोहा बहुत ही मन्ता हो गया था। और पूर्वकाल की अपेक्षा, जब लकड़ी के कोयले द्वारा धातु-शोधन होता था, अब अधिक बड़े-बड़े कार्यों में इसको ढालकर व्यवहार करने की संभावना हो गई। यह आधुनिक कल-गुज़ों ( Machinery ) का उप-काल था।

कल्प-वृक्ष के समान विज्ञान में भी कलियाँ, फूल और फल सब एक साथ और मँदव लगा करने हैं। उन्नीसवीं शताब्दी का प्रारंभ होते ही इस विज्ञान-रूपी वृक्ष में कभी न मुग़भानेवाले फलों के लगने का समय आया। और सर्वप्रथम आविर्भाव हुआ, वायु का और स्टील ( पीलाट इग्नाइट ) का, गैल्वेन का और समुद्र पार करनेवाले बड़े

जहाजों का, बड़े-बड़े पुलों का, विशाल भवनों का, और अनंत शक्तिशाली यंत्रों का, जिनके कारण मनुष्यों की प्रायः समस्त भौतिक आवश्यकताओं की बाहुल्य के साथ पूर्ति की संभावना थी। तदनंतर विद्युत्-विज्ञान की अत्यंत अधिक आश्चर्यजनक एवं गूढ़ निधि का द्वार भी मानव-जगत् के लिए खुल गया।

सोलहवीं शताब्दी के अनंतर के राजनैतिक एवं सामाजिक मानव-जीवन की उपमा हमने अभी दी है वंदीग्रह में आग लग जाने पर वहाँ स्वप्न देख रहे क्रैदी से। इस शताब्दी में यूरोपीय जातियों के मस्तिष्क लैटिनीय राजस्वप्न में पड़े थे, वह स्वप्न कैथोलिक चर्च की अधीनता में संयुक्त पवित्र रोम-साम्राज्य का था। परंतु शरीर में किसी अनियंत्रणीय दोष के होने पर जिस प्रकार हमारे स्वप्नों में अत्यन्त असंगत एवं विधातात्मक आलोचनाएँ बलात् प्रत्यक्ष होने लगती हैं, ठीक उसी प्रकार हमको इस यूरोपीय स्वप्न में एक और तो सम्राट् पंचम चार्ल्स का पैला हुआ सुत बदन और लालायित जठर दृशात् लक्षित होता है, और दूसरी ओर ईंगलैंड के राजा अष्टम हैनरी और लूथर, कैथोलिक सम्प्रदाय के ऐक्य की धजियाँ उड़ाते प्रतीत होते हैं।

सतरहवीं और अठारहवीं शताब्दी में वह स्वप्न व्यक्तिगत स्वच्छन्द शासन में परिवर्तित हो गया। उस समय का प्रायः समस्त यूरोपीय इतिहास, राजाधिपत्य की नींव टूट करने के प्रयत्न की कुछ घट-बढ़ के साथ एक ही कथा वर्णन करता है। अर्थात् एक ओर तो राज-शासन को स्वच्छन्द और टूट कर पास-पड़ोस के दुर्बल भू-भागों तक (उत्तको, फ़ैलाने के प्रयत्नों का वर्णन है तथा दूसरी ओर है राजाओं के इस बल-प्रयोग और हस्तक्षेप करने की नीति का; तथा जागीरदार और तत्पश्चात् देशी कला-कौशल एवं विदेशी व्यापार-वृद्धि होने पर दिन प्रतिदिन उन्नति करनेवाले व्यवसायी और धनिकों के दृढ़ता-पूर्वक विरोध का उल्लेख। परंतु एक ही पक्ष की विजय सर्वत्र नहीं हुई; कहीं राजत्व प्रबल रहा तो कहीं वैयक्तिक संपदाधिकार ने राजा को धर दवाया; किसी स्थान पर यदि हमको कोई राजा जातीय जगत् का, सूर्य समान केन्द्रस्थान बना हुआ प्रतीत होता है तो उसी देश की सीमा पार दूसरी जगह हमको दृढ़ व्यवसायियों द्वारा संचालित एक प्रजातंत्र दृश्य पड़ता है। इस प्रकार के महान् भेदों से पता चलता है कि उस समय की शासन-विधि किस प्रकार नितान्त प्रयोगमय और स्थानीय घटनाओं पर अवलंबित थी।

इन जातीय नाटकों में एक अत्यन्त व्यापक मूर्ति दिखाई देती है राज-मंत्री की, जो तत्कालीन कैथोलिक राज्यों में प्रायः पादरी हुआ करते थे। राजा को छोड़कर यहाँ सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण व्यक्ति समझे जाते थे और अपरिहार्य सेवाओं के कारण इनका प्रभाव अपने स्वामियों पर भी होता था।

इन विविध जातीय नाटकों का इस छोटे से ग्रंथ में सविस्तर वर्णन करना हमारे लिए असंभव है। हॉलैंड की व्यावसायिक जनता ने प्रोटेस्टैंट पंथानुयायी एवं प्रजातंत्रवादी हो स्पेन के शासक—सम्राट् चार्ल्स पंचम के पुत्र—फिलिप द्वितीय का शासन-जुआ फेंक दिया। इंग्लैंड में अष्टम हैनरी और उसके मंत्री तथा महारानी ऐलिज़ाबेथ और उसके मंत्री वरले ने स्वच्छंद शासन की नींव डाली जो जेम्स प्रथम तथा चार्ल्स प्रथम की मूर्खताओं के कारण नष्ट हो गई। प्रजा के विरुद्ध विद्रोह करने के अपराध में चार्ल्स प्रथम का सिर काट दिया गया (१६४९) जो इस बात का लक्षण था कि यूरोपीय विचारों ने नया पलटा खा लिया था। इस घटना के पश्चात् वारह वर्ष तक (१६६०) ब्रिटेन प्रजातंत्र रहा। और फिर अस्थायी राजमुकुट की शक्ति और मर्यादा उस समय तक सदा पार्लियामेंट की बल-छाया ही में दबी रही जब तक कि तृतीय जॉर्ज (१७६०-१८२०) ने प्राचीन शक्ति और महत्ता प्राप्त करने के कठिन कार्य में घोर प्रयत्नों द्वारा किंचित् सफलता प्राप्त न कर ली। इसके विपरीत समस्त यूरोपीय नरेशों की अपेक्षा केवल फ्रांस का राजा ही परिपूर्ण स्वच्छन्द शासन स्थापित करने में सबसे अधिक सफल हुआ। तद्देशीय राजमुकुट को बल और शक्ति प्रदान करने में सहायता दी थी रिशैलू (१५८५-१६४८) और मँज़ारि (१६०२-१६६१) नामक दो महान् अमात्यों ने और उनके इस कार्य में सहारा मिला था 'प्रतापी-नृपति' की उपाधि से विभूषित सम्राट् चौदहवें लुई (१६४३-१७१५) की महान् योग्यता और सुदीर्घकालीन शासन का।

चौदहवाँ लुई वास्तव में यूरोप में एक आदर्श शासक हो गया है। परिमित परिस्थिति में भी यह असाधारणतया योग्य शासक था। गहिरे कामुकता की अपेक्षा कीर्ति-स्पृहा ही उसमें अधिक बड़ी-चढ़ी थी। अपनी दुरुह एवं उत्साहपूर्ण वैदेशिक नीति द्वारा देश को दीवालिया बनाते हुए भी वह ऐसे मान-मर्यादा से पार ले गया कि वर्त्तमान काल में भी हमको उसकी बरबस प्रशंसा करनी पड़ती है। रूहान नदी और पिरेनीज़ पर्वतमाला तक फ्रांस देश को संगठित एवं बढ़ा कर स्पेन राज्यान्तर्गत नैदरलैंड को भी उगमें सम्मिलित करने की उसकी उत्कट अभिलाषा थी। और पुनः संगठित पवित्र रोम-साम्राज्य के सिंहासन पर भी—शार्लमेन के संभवनीय उत्तराधिकारी के नाते फ्रेंच शासकों का अधिकार मानकर—उसकी दृष्टि लगी हुई थी। उसी ने, राजकीय साधन में, युद्ध की अपेक्षा घूस को अधिक महत्त्व दिया। पोलैंड के बहुत से सरदार (जिनका वर्णन हम आगे चलकर करेंगे) तथा इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय तक इसके बेतनभोगी थे। इनका नयना—अथवा यों कहो कि फ्रांस के करदाताओं का रूपया—सर्वतः पहुँचता था। परन्तु जिनने सम्राट् के अन्य व्यवसायों को ग्रमित कर लिया वह था उसका वैभव-

प्रदर्शन। वरसाई (Versailles) नामक स्थान में बने हुए उसके प्रकाट प्रासाद, बड़े हॉल, अतिथियों का स्वागत करने के लिए उसके बड़े-बड़े कमरे, सुंदर दर्पण, मुहावने अल्लिंद और धारायंत्र (फ्रव्यारे), क्रीडोद्यान तथा मनोरम दृश्य, समस्त संसार में विन्मय एवं ईर्ष्या उत्पन्न करते थे।

सम्राट् का अनुकरण करने की तब सभी को उत्कट इच्छा थी। यूरोप का प्रत्येक राजा और छोटे से छोटा राजकुमार मर्यादा से कहीं अधिक ऋण लेकर अथवा अपने राजकोष से जितना हो सकता था उतना धन व्यय कर अपना-अपना वरसाई बना रहा था। देखादेखी सुरदारों ने भी प्रायः सर्वत्र ही अपने-अपने जागीरदारी के प्रासाद या तो पुनर्निर्मित किये या उनके बड़ाकर 'नवीन आदर्श' के समान कर दिया। फल उसका यह हुआ कि सुंदर तथा अत्यन्त परिश्रम से बनेवाले वस्त्रों तथा भवनों को सुसजित करनेवाले अन्य पदार्थों के व्यवसाय बढ़ने लगे। विलास-युक्त कलाओं की अर्थात् एलवैस्टर नामक पापाण-विशेष की बनी हुई मूर्तियाँ, मिट्टी के वार्निश किये हुए खिलौने, स्वर्णपत्रों से मढ़ा हुआ लकड़ी का काम, तारकशा का काम, धातुनिर्मित पदार्थ, चमड़े पर टप्पे का काम, बहुल-गायन, मनोरम चित्र, सुंदर छपाई और जिल्दसाली, मिट्टी के दर्शनीय पात्र और अंगूर की मधुर मदिरा इत्यादि विलासमय सामग्रियों की सर्वत्र उन्नति होने लगी। इन भवनों के सुंदर दर्पणों और अन्य परिच्छेदों के मध्य, पाउडर-युक्त लंबे नकली बाल लगाये, लैसदार रेशमी बन्नाच्छादित ऊँचे लाल एट्रियों के जूते पहिरे, और विचित्र बेंत हाथ में लिये हुए एक अनेखी जाति के 'भट्ट पुरुष' घूमा करते थे; और इनसे भी अधिक विचित्र लख पड़ती थीं वहाँ की 'मम्य' स्त्रियाँ, जिनके सिर पर तो पाउडर-युक्त बालों का अट्ट होता था, और शरीर पर होते थे तार द्वारा तने, रेशम और साटिन के विस्तृत परिधान। इन नर और नारीरत्नों के मध्य विराजते थे अपने जगत् के सूर्य महान् लुई जिनको नीचे के अन्धलोकवासियों के दुर्बल एवं उग्रवदनों की कुछ भी खबर न थी और जहाँ उनका रश्मि-प्रकाश तक न पहुँच सकता था।

इस समस्त राज-शाही तथा शासन-प्रयोगों के युग में राजनैतिक रूप से विभाजित रहने पर भी, जर्मनी के बहुत से ड्यूक और राजकुमारों की राजसभाएँ वरसाई के वैभव का न्यूनाधिक परिमाण में अनुकरण कर रही थीं। जर्मन, स्वीडन और बोर्हमिया के निवासियों का न्यूनाधिक राजनैतिक लाभों की प्राप्ति के लिए तीस वर्ष तक (१६१८-४८) ऐसा विध्वंसकारी युद्ध छिड़ा रहा कि उसके कारण, आगामी नौ वर्ष तक, समस्त जर्मन बल का शोषण हो गया। यूरोप का मानचित्र देखने पर पना लगेगा कि जर्जर बल को जिस प्रकार गाँठ-गूँठकर ठीक किया जाता है वैसे ही इन



कलह का अंत भी, वैस्टफेलिया की संधि द्वारा हुआ ( १६४८ ) । इस समय देख पड़नेवाले जटिल मांडलिक राज्य, ज़मींदारियाँ और स्वतंत्र प्रान्त इत्यादि में से कुछ तो साम्राज्य के अंतर्गत थे और कुछ बाहर । पाठक स्वयं देखेंगे कि स्वीडन का हाथ किस प्रकार उस समय, जर्मन देश में दूर तक घुसा हुआ था; और साम्राज्यान्तर्गत कुछ एक द्वीपवत् स्थानों को छोड़ फ्रांस की सीमा उस समय तक, रूहाइन नदी से बहुत दूरी पर थी । इस लीप पोत में प्रशिया—जो १७०१ में राज्य कहलाने लगा था—अनेक युद्धों में सफल हो धीरे धीरे दृढ़तापूर्वक महत्त्व प्राप्त करता जाता था; प्रुशिया के राजा महान् फ्रैंडरिक ( १७४७-८६ ) का बरसाई पौटसडम में था; उसकी राजसभा में फ्रैंच भाषा ही बोली और पढ़ी जाती थी और वहाँ पर फ्रैंच नरेशों से संस्कृति में प्रतिस्पर्धा की जाती थी ।

१७१४ में हनोवर का ऐलैक्टर ( सम्मतिदाता ) जब इंगलैंड का राजा हो गया तो ( एक ही साथ ) साम्राज्याधीन और स्वतंत्र शासकों की संख्या में एक और वृद्धि हो गई ।

पंचम चार्ल्स की ऑस्ट्रियन शाखा अभी तक सम्राट् ही की उपाधि धारण करती थी; स्पेन-देशीय शाखा का स्पेन पर अधिकार था । परन्तु इस समय पूर्व में एक और सम्राट् विद्यमान था । कुस्तुनतुनिया के पराभव ( १४५३ ) के पश्चात् अब मॉस्को का प्रांट अब्दुल महान् आइविन ( १४६२-१५०५ ) वैज़रटाइन के सिंहासन का उत्तराधिकारी होने का दावा करता था और इसी कारण वहाँ उसने वैज़रटाइन के द्विमुखी स्वर्ण-गरुड़ को भी अपने ध्वज पर अंकित कर लिया था और फिर उसके पोते भयंकर आइविन के नाम से प्रसिद्ध चतुर्थ आइविन ने ( १५३३-१५४८ ) सीज़र ( अर्थात् ज़ार ) की राज-उपाधि भी धारण कर ली । परन्तु इतना करने पर भी सतरहवीं शताब्दी के अतिमार्ध तक यूरोपीय जातियाँ रूस को दक्षिणानुसी एवं एशिया-निवासी ही समझती रहीं । महान् पीटर नामक ज़ार ( १६८२-१७२५ ) ही इस देश का राज्य-व्यवहार पश्चिमीय अन्ग्रेज़ों में सर्वप्रथम लाया । इस सम्राट् ने नीवा नदी पर अपने साम्राज्य की पीटर्सबर्ग नामक एक नवीन राजधानी बनाई, जो यूरोप और रूस के मध्य एक खिड़की का काम देती थी । इनके अतिरिक्त सम्राट् ने अपना बर्नाई अठारह मील दूर पीटरहॉफ़ नामक स्थान में स्थापित किया, जहाँ फ्रांसीसी वास्तु-विद्या-विशारद द्वारा सम्राट् ने अलिंद, जलधारा-यंत्र, निर्भर, चित्रशाला और क्रीडांशाला इत्यादि सम्राट्पदोपयुक्त प्रायः सभी पदार्थ निर्माण कराये थे । प्रुशिया की भाँति रूसी दरबार में भी अब फ्रांसीसी ही बोली जाने लगी ।

ऑस्ट्रिया, प्रुशिया और रूस के बीच में अभाग्यवश बना हुआ पोलैंड का राज्य था । इस दुर्लभस्थित राज्य के चारों ओर ज़मींदार अपना अधिकार एवं वैभवं बनाये रखने की

डाह से देश के निर्वाचित राजा को नाममात्र के ही अधिकार देते थे। फल यह हुआ कि स्वतंत्र परंतु मित्र राज्य बनाये रखने का फ्रांस द्वारा घोर प्रयत्न होने पर भी, कर्म-रेखा के अमित होने के कारण, ये तीन पड़ोसी-राज्य ही इसको हड़प गये। स्विट्जरलैंड उस समय प्रजातांत्रिक जिलों का समूह-मात्र था। वेनिस में प्रजातंत्र था परंतु इटैली, जर्मनी की भाँति, छोटे-छोटे ड्यूक और राजकुमारों में विभक्त था। पोप उस समय राजपुत्रों की भाँति केवल राज्य का शासक था, अवाशिष्ट कैथोलिक राज्यों में अपनी राज-निष्ठा भंग हो जाने के भय से वह श्रव न तो राजाओं और प्रजाओं के मध्य के कलहों में हस्तक्षेप करता था और न संसार भर के क्रिश्चियन-राज्यों के एक ही गण-राज्य में सम्मिलित होने का उपदेश देता था। सच पूछा जाय तो समस्त यूरोप में उस समय सर्वसामान्य राजनैतिक विचार ही न था ( और होता भी किस प्रकार )। उस समय तो वहाँ विभाग और वैचित्र्य ही का दौरा था।


समस्त शासक, राजकुमार और प्रजातंत्र उस समय एक दूसरे पर उत्कर्ष प्राप्त करने की युक्तियों ही का अनुसरण कर रहे थे; पड़ोसियों पर आक्रमण करना ही प्रत्येक की वैदेशिक नीति हो रही थी, और उसी के लिए उन दिनों आपस में समझौते होते थे। यूरोपियन जातियाँ अभी तक इन विविध राजा-पालित राज्यों के युग के अंतिम चरण ही में चली जाती हैं। और इसी कारण तज्जनित घृणा, शत्रुता और शंका के भाव हमको वर्तमान काल में भी पीड़ित कर रहे हैं। आधुनिक विद्वानों को उस समय का इतिहास प्रत्यक्ष रूप से अधिकाधिक जाल्पिक, व्यर्थ और श्रमजनक प्रतीत होता है। हमको बताया जाता है कि अमुक युद्ध किसी राजा की प्रेयसी के कारण क्योंकर छिड़ गया और अमुक युद्ध किसी राज्य के मंत्री के अन्य राष्ट्रमंत्री से डाह करने के कारण किस प्रकार प्रारंभ हुआ। इन प्रतिस्पर्धाओं और घूसखोरी की जल्पनाओं से बुद्धिमान् विद्यार्थियों के मन में वीभत्स रस का संचार हो उठता है। सबसे अधिक मार्कें की बात यह है कि उन समय, बीसियों सीमाओं की रूकावट होते हुए भी, लिखना-पढ़ना और मानव-विचार दोनों ही दिन प्रति दिन बढ़ते और फैलते गये और आविष्कारों का प्राचुर्य होता गया। तत्कालीन नीति और राज्य-समाजों को अत्यंत ही संशयात्मक और सदाप वतानेवाले साहित्य का अठारहवीं शताब्दी में ही जन्म हुआ। उदाहरणार्थ—वॉलटेयर की कैंनटिड नामक पुस्तक में ही यूरोपीय संसार में दीख पड़नेवाले योजनाहीन विप्लव के प्रति असीम खेद प्रकट किया गया है।

## एशिया और समुद्र पार देशों में नवीन यूरोपीय साम्राज्य


जिन समय मध्य यूरोप में भेद एवं आकुलता फैल रही थी उस समय पश्चिम-यूरोपीय जातियाँ और विशेषतया स्केडिनेविया, स्पेन तथा पुर्तगाल निवासी, फ्रांसीसी, ब्रिटिश और डच, समुद्र पार समस्त भूमंडल में जा अपने युद्ध-क्षेत्र को विस्तृत कर रहे थे। मुद्रखालयों के कारण इधर एक तो वैसे ही यूरोपीय राजनैतिक विचारों में अपरिमित एवं विशद रूप से स्वामी उठ रहा था, तिस पर उधर समुद्र पार जानेवाले इन नवीन णेतों के आविष्कार से यूरोपीय जातियों के अनुभव का विस्तार लवण-पयोधि के पार दृढ़ हो रहा था।

उच्च तथा उत्तरीय एटलांटिक के तट पर रहनेवाली यूरोपीय जातियाँ इन समुद्र पार देशों में उपनिवेश स्थापित करने की इच्छा से सर्वप्रथम नहीं बसी थीं। उनके वहाँ जाने का उद्देश्य तो था वाणिज्य और खानों की खोज। इस क्षेत्र में सर्वप्रथम पदार्पण करने के कारण स्पेन-निवासी उस समय अमेरिका के समस्त नवीन मंत्रार पर अपना अधिकार जमा रहे थे। परंतु ग्रीन ही पुर्तगालवालों ने भी उसमें से कुछ भाग लेना चाहा। इन पर पाप ने बर्ड द्वीपसमूह से पश्चिम ३७० लीग की दूरी पर खींची हुई रेखा के पूर्व के समस्त प्रदेश और ब्राज़ील पुर्तगाल को और शेष समस्त प्रदेश स्पेनवालों को देकर इन नवागंतुकों के बीच समस्त नवीन जगत् का बँटवारा कर दिया। जगदधीश्वर की हेनियत ने किया हुआ यह रोम का अंतिम कार्य था। पुर्तगाल-निवासी उन समय दक्षिण और पूर्व में समुद्र-पार के देशों में अद्भुत माहस प्रदर्शित करने में प्रयत्न हो रहे थे। १४९७ में जहाज़ द्वारा लिनवन नगर ने चलकर बानको-ड-गामा पार्थुनिक मुद्र-गोप नामक अंतर्गोप की परिक्रमा कर जंज़ीबार होना हुआ भारत के कालीकट नामक नगर में पहुँच गया। १५१३ में पुर्तगालवालों के जहाज़ मलका और जावा द्वीप पहुँच गये थे। और यह जाति भारतीय नगर पर व्यापारिक नगर स्थापित कर उनके चारों ओर प्राकार बना रही थी। मुजम्बाऊ तथा गोआ एवं दो अन्य लुट

भारतीय स्थान, चीनदेशीय मकाओ और तिमोर का कुछ भाग—यही स्थान इस समय तक पुर्तगाल-निवासियों के पास हैं।



पाप-निर्णय द्वारा अमेरिका के अधिकार से बहिष्कृत की जानेवाली जातियों ने स्पेन और पुर्तगाल के स्वत्त्वों की तनिक भी परवाह न की। उस समय न केवल इंग्लैंड वरन् डेनमार्क तथा स्वीडन निवासी और फिर शीघ्रतया डच लोग भी पश्चिमीय द्वीप-समूह और उत्तरीय अमेरिका में अपने स्वत्व जताने लगे। तदनंतर फ्रांस के सम्राट् नदशा सर्व-प्रधान कैथोलिक सम्राट् ने भी प्रोटेस्टैंट जातियों की भाँति इस समझौते की अवहेलना की। इन स्वत्त्वों एव अधिकारों के लिए भी अब यूरोप में लड़ाइयाँ छिड़ने लगी थीं।



### भारत में यूरोपियों का शेर का शिकार

इन समुद्र-पार के अधिकारों की कलह में अंत को अंगरेज़ जानि ही सबसे अधिक मकल गरी। जर्मनी की दुर्लभ आंतरिक अवस्था में बुरी तरह जकड़ी होने के कारण डेन तथा स्वीड जातियों के लिए तो इन बाह्य आक्रमणों में अधिक काल तक प्रभावोत्पादक युद्ध करना ही असंभव था। 'उत्तरीय गिद्ध' कहलानेवाले, प्रोटेस्टैंट पंथानुयायी, गुन्टावन्-पेट्रील्डन नामक विचित्र राजा के कारण स्वीडन के नर-पुंष्य जर्मन युद्धक्षेत्र में बुरी तरह मनल-तर गढ़ कर दिये गये थे और नदीनीय अमेरिका-स्थित बर्किन्गहम उपनिवेशों के उत्तरग-

धिकारी डच हो गये। परंतु फ्रेंच आक्रमणों के अत्यंत निकटवर्ती होने के कारण यह जाति ब्रिटिश का सामना न कर सकती थी। सुदूरपूर्व में साम्राज्य-प्राप्ति के लिए प्रतिद्वंद्वी थे अंगरेज़, फ्रेंच और डच, और अमेरिका में प्रतिद्वंद्वी थे अंगरेज़, फ्रेंच और स्पेन-निवासी। रजतरेखावत् इंगलिश-खाड़ी की जल-सीमा के कारण अंगरेज़ जाति को समस्त यूरोप की अपेक्षा अधिक विशेषता प्राप्त थी। लैटिन-साम्राज्य के परंपरागत विचारों में यही लोग सबसे कम फंसे थे।

फ्रांस की दृष्टि में यूरोपीय अधिकार सदैव अधिक महत्त्वपूर्ण रहे। समस्त अठारहवीं शताब्दी में स्पेन, इटली और अव्यवस्थित जर्मन जाति पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के उद्देश्य से उसने पूर्व एवं पश्चिम दिशाओं की ओर राज्य-विस्तार के अच्छे अवसरों को खो दिया। अपने राजनैतिक तथा धार्मिक भगड़ों-टंटों से उकताकर बहुत से अंगरेज़ सतरहवीं शताब्दी ही में स्वदेश छोड़ अमेरिका में सदैव के लिए बसने को विवश हो गये थे। कालांतर में संख्या की वृद्धि एवं उन्नति होने पर इनकी जड़ उस देश में खूब जम गई जिससे अमेरिका के आगामी युद्ध में अंगरेज़ों को अत्यंत सुलभता (Advantage) रही। १७५६ और १७६० में कैनेडा नामक प्रदेश फ्रांस के हाथ से निकलकर अंगरेज़ों और उनके प्रवासी बंधुओं के हाथ में आ गया और इसके कुछ ही काल पश्चात् एक ब्रिटिश व्यापारी कंपनी फ्रेंच, डच और पुर्तगाल निवासियों की अपेक्षा समस्त भारत प्रायद्वीप पर प्रबल हो गई। बाबर, अकबर और उनके उत्तराधिकारियों का तद्देशीय मंगोल (मुग़ल ?) साम्राज्य तब अवनति के गड़हे में जा पड़ा था, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नामक लंदन की व्यवसाय-परिपद् द्वारा उस बृहत् साम्राज्य का हस्तगत करना भी समस्त आक्रमण-तिहास में अत्यंत रोचक एवं अपूर्व घटना है।

रानी ऐलिज़ाबेथ के शासनकाल में अर्थात् अपने निर्माण के समययह ईस्ट इंडिया कंपनी सामुद्रिक-व्यवसायियों की एक संस्थामात्र थी। क्रमशः इन व्यापारियों को विवश होकर सेना रखनी पड़ी और जहाज़ों को शस्त्रास्त्र से सुसजित करना पड़ा। अंत में वह समय भी आ गया जब धन का लोभो यह वणिक्-संघ परंपरागत मसाले, रंग, चाय और जवाहरात ही नहीं बरन्, राजकुमारों के राजस्व व रियान्तों के सौदे कर भारत का भाग्य-विधाता बन बैठा। ये लोग आये तो थे यहाँ क्रय-विक्रय करने, परंतु करने लगे लूट। और उनके कृत्यों को पूछने या टोकनेवाला वहाँ कोई न था। ऐसी दशा में यदि उसके कप्तान, सेनाध्यक्ष और उच्च कर्मचारी ही नहीं बरन् लुट्ट क्लर्क और साधारण सैनिक तक लूट के धन से मालामाल हो इंगलैंड को लौटे तो आश्चर्य ही क्या है ?

## अमेरिका का स्वातंत्र्य-युद्ध

अठारहवीं शताब्दी के तृतीय पाद में यूरोप में आंतरिक विभिन्नता का ऐसा प्रवृत्त एवं अस्थायी दृश्य उपस्थित हो गया था जो ऐक्य स्थापित करनेवाले राजनैतिक एवं धार्मिक विचारों से सर्वथा शून्य था। मुद्रित पुस्तकों, मानचित्रों तथा श्रवणर पा समुद्र नौकर जानेवाले जहाज़ों द्वारा विचारों में स्फूर्ति उत्पन्न हो जाने के कारण अव्यवस्थित रूप में पारस्परिक विरोध होने पर भी वह संसार के समस्त समुद्र-तटों पर अपना ही अधिकार जमा बैठे। शेष जाति पर आक्रामिक एवं अस्थायी विशेषताएँ प्राप्त होने के कारण ही यह कल्पना-हीन एवं अमगन फेनवत् उत्साह सकल हुआ था। इन्हीं विशेषताओं के कारण पश्चिमीय यूरोपीय जातियाँ नवीन परंतु शून्यप्राय अमेरिका महाद्वीप में प्रधानतया बस गई थी और इन्हीं छेतुओं ने दक्षिणीय ब्रिटेन और न्यूज़ीलैंड के क्षेत्रफल तक भूगोप ही भावी जनता के लिए वानस्थान निर्धारित कर दिये गये।

बोलम्बस के अमेरिका तथा वानको-द-गामा के भारत जाने का हेतु व्यवसायो-न्नति था जो आदि काल में ही नवदा प्रत्येक समुद्रगामी के हृदय में रहता है। परंतु पूर्व में और जनसंख्या तथा उपज के आधिक्य के कारण, यूरोपीय जातियों का वस्तु व्यापार ही की श्रेय रहा और तद्देशीय यूरोपियन-उपनिवेश व्यापारी कोठियाँ मात्र ही भे, जहाँ ने यूरोपनिवासी सूक्ष्म धनोपार्जन कर स्वदेश लौट मुक्तहस्त में लाने करने की आशा रखते थे। परंतु अमेरिका की दशा ऐसी न थी। यहाँ उनका सम्बन्धित जातियों में था, जिनकी अर्थोन्नाटक शक्तियाँ अपेक्षितया लींग थीं अतएव, वेना की ही गोल्ले की लाकना ने इन गोरग जातियों के हृदय में उन देश में रहने की चार भीर उठ कर दी। चाँदी विजेताया स्पेनिश अमेरिका की गानों में निकलती थी। यूरोपीय जातियों के, न केवल अस्वास्थ्य से मुमजिन व्यापार की भाँति बरन् माणिक-गोनी, अस्वस्थ एवं प्राणहीन पदार्थों के मोचन के रूप में और भीर-भीर वासुवानी के व्यवसाय के

लिए भी अमेरिका महाद्वीप में जाना पड़ा था। उत्तरीय भागों में ये लोग पशु-लोम ढूँढ़ते थे। खान खोदने तथा खेती-बाड़ी करने के लिए वस्ती की आवश्यकता होने के कारण लोगों ने विवश होकर समुद्र-पार देशों में घर बनवाकर स्थायी रूप से रहना प्रारंभ कर दिया था। अंत में कुछ दशाश्रमों को छोड़कर—जब कि प्यूरिटन ( Puritans ) नामक समुदाय के अनुयायी सत्रहवीं शताब्दी के अंत में धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए, न्यू इंग्लैंड नामक प्रान्त में जाकर बसे थे या औगल थॉर्थ द्वारा ऋणी अंगरेज़-वंदी जॉर्जिया नामक प्रांत में भेजे गये थे या अटारहवीं शताब्दी के अंत में उच्च लोगों ने अनाथों को केप ऑव गुडहोप नामक अफ्रीका के अंतरीप में भेज दिया था—शेष समस्त यूरोपीय जातियाँ सदा के लिए समुद्र-पार कर नवीन वास-स्थानों की खोज में ही वहाँ गई थीं। उन्नीसवीं शताब्दी में—और विशेषतया, भाप द्वारा चलनेवाले जहाज़ों के चलने के उपरांत—तो यूरोपीय जातियाँ दशों वर्ष तक अमेरिका और आस्ट्रेलिया के जन-शून्य नवीन भूभागों के लिए इतनी अधिक संख्या में गईं कि उनका यह कार्य महान् देशान्तर-गमन ( Migration ) प्रतीत होता है।

यूरोपीय जातियों ने इस प्रकार बढ़कर समुद्रपार देशों में स्थायी रूप से वस्तियाँ बसाईं और स्थानांतरित हो यूरोपीय संस्कृति भी वहाँ पहले की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत क्षेत्र में प्ररोहित हो गई। पूर्वोपस्थित सभ्यता को अपने साथ लानेवालों ये नवीन जातियाँ भी इन नवीन भूभागों में योजनाहीन एवं अज्ञात रूप से बढ़ने लगीं, जिनका पूर्व-ज्ञान यूरोपियन राजनीतिज्ञों को न था। और इनके प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए इसके लिए भी वे लोग तैयार न थे। अपनी इन प्रजाश्रमों के हृदयों में स्वतंत्रता एवं पृथक् सामाजिक जीवन के उत्कट भाव उत्पन्न होने के पश्चात् भी बहुत समय पर्यन्त यूरोप के राजनीतिज्ञ और मंत्रिगण इनको केवल व्यवसायियों की संस्था, धन-प्राप्ति के स्रोत और अपने भोग्य एवं अधीन देश ही समझते रहे। अन्तरदेश ( Inland ) में बस जाने के कारण जब इन लोगों को समुद्र-द्वारा प्रभावोत्पादक रीति से दंड देना अशक्य हो गया था तो उस समय के बहुत काल पश्चात् भी इनके साथ मानृभूमि की सहायहीन प्रजा की भाँति ही व्यवहार होता रहा।

यह बात स्मरण रखने योग्य है कि उन्नीसवीं शताब्दी का अधिकांश अंत जाने तक, समुद्र-पार के साम्राज्यों से संबंध स्थापित रखने के लिए एकमात्र साधन, पालों द्वारा चलनेवाले जहाज़ ही थे। और स्थल पर सबसे अधिक शीघ्रगामी यान घोड़ा था। स्थल पर राजनैतिक संस्थाओं का एकीकरण और संयोग उक्त समय घोड़े की क्षुद्र आवा-गमन-शक्ति तक ही परिमित था।



अठारहवीं शताब्दी के तृतीय चरण के अंत में उत्तरीय अमेरिका का दो तिहाई उत्तरीय अंश ब्रिटिश राज्य-मुकुट के अधीन था। फ्रांस ने यह महादीप छोड़ दिया था। और पुर्तगाल-अधीन ब्राजील प्रदेश एवं फ्रांस, ब्रिटिश, डैनिश और इन सरकारों के कतिपय छोटे-छोटे द्वीपों और भूभागों के अनिश्चित प्रलोभित, ल्यूशियाना, कैलिफ़ोर्निया और अमेरिका का नमन्त दक्षिणीय भाग इन नमय स्पेन ही की अधीनता में था। परन्तु यह बात सर्वप्रथम मेन तथा ओनटेरियो नामक भौल के दक्षिण ओर बने हुए ब्रिटिश-उपनिवेशों द्वारा ही निर दृष्ट कि समुद्र-पार की इन वस्तियों को उठने एवं फटफटाते वादवानों के बल पर चलनेवाले जहाज़ों के आघात पर एक ही गजनेतिक संस्था से संबद्ध रखना अशक्य था।



जार्ज वाशिंगटन

न था। परन्तु विभिन्नोत्पत्ति, एवं नैसर्गिक हेतुओं

ब्रिटिश (अर्थात् अंगरेज़ सरकार के) उपनिवेशों की उत्पत्ति एवं प्रवृत्ति विविध प्रकार की थीं। एक तो इनमें अंगरेज़, फ्रांस, स्वीड (स्वीडन के रहनेवाले) और डन्सों की वस्तियाँ थीं, दूसरे मेरिलैंड के अंगरेज़ यदि कैथोलिक पथानुयायी थे तो न्यू इंग्लैंड में रहनेवाली ब्रिटिश जन-संख्या कट्टर प्रोटेस्टेंट थी। और यदि न्यू इंग्लैंडवाले स्वयं अपने हाथों से खेती करते थे, तो वरजीनिय तथा दक्षिण ओर के अंगरेज़ वाटिकेश्वर (Planters) के और अन्यदेशीय हवशी दासों को अधिकाधिक संख्या में मोल लेकर उन्हीं के द्वारा कार्य-संपादन करते थे। इन विविध राज्यों में तनिक सी भी नैसर्गिक एकता न थी। यहाँ तक कि तटस्थ 'समुद्र-मार्ग' के द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना एटलांटिक पार करने से कम कष्टदायक के कारण एकता न होते हुए भी, इन

अमेरिका-निवासी अंगरेजों को लंदन को ब्रिटिश-गवर्नमेंट ने स्वार्थ तथा मूर्खतावश, अर्थां होकर, अंत में, ऐक्य स्थापित करने को विवश कर दिया। उन पर टैक्स या कर तो बांधा जाता था परंतु उसके व्यय के समय उनकी सम्मति न ली जाती थी अर्थात् व्यय में उनका हाथ बिलकुल न था। उनके व्यापार का बलिदान ब्रिटिश-गवर्नमेंट की स्वार्थ-सिद्धिरूपी वेदी पर किया जाता था।



बकर हिल की लड़ाई (वोल्टन के समीप)

वरजीनिया-निवासियों के तीव्र प्रतिवाद करने पर भी—जो दास-व्यापार से महमत न होते हुए भी कृष्ण वर्णों की संख्या अधिक हो जाने के भय में इन (दास-) प्रथा का विरोध कर रहे थे—अंगरेजी सरकार ने अत्यन्त लाभदायक 'दास व्यापार' को जारी रखा।

इंगलैंड का झुकाव उस समय एक तो वैसे ही घोर स्वच्छन्द राज-शासन की ओर हो रहा था, उस पर हठीले सम्राट् तृतीय जॉर्ज (१७६०-१८२०) के व्यक्तित्व ने मातृ-भूमि एवं उपनिवेश-सरकारों के बीच इन युद्ध में और भी अधिक जलती हुई अग्नि में घृत का काम किया।

अमेरिकन जहाज़ियों को हानि पहुंचाकर लंदन की ईस्ट इंडिया कंपनी को लाभ पहुंचाने की नीयत से कानून बनाते ही यह विरोधाग्नि और भी शीघ्रता से बढ़क उठी। और नवीन नियमानुसार जब चाय से लदे हुए तीन जहाज़ देश में आये तो उनका सब माल इंडियन का छद्म-वेश धरनेवाले एक समुदाय ने बोस्टन के बंदरस्थान (पटन) में समुद्र के अर्पण कर दिया (१७७३)। परन्तु लड़ाई वास्तव में १७७४ में प्रारंभ हुई जब बोस्टन के निकट लैक्सिंगटन नामक स्थान में ब्रिटिश सग्वार ने दो अमेरिकन नेताओं को पकड़ने का प्रयत्न किया था। लैक्सिंगटन में गोर्ला का चार सर्वप्रथम अंगरेज़ों द्वारा ही हुआ और पहला युद्ध कनकॉर्ट नामक स्थान में छिड़ा।

इस प्रकार अमेरिका का स्वातंत्र्य-युद्ध प्रारंभ हुआ परन्तु इस पर भी एक वर्ष में अधिक समय बीत जाने तक उपनिवेशों में बसनेवाले लोग मातृभूमि से नाता तोड़ने के सर्वथा विरोधी थे। १७७६ का आधा भाग बीत जाने के उपरांत ही विद्रोही राज्यों की कांग्रेस ने स्वतंत्रता की घोषणा की थी और तत्कालीन अन्य प्रवर्तनी नेताओं के समान फ्रांस-विरोधी युद्धों में रण-विद्या की शिक्षा प्राप्त करनेवाले जॉर्ज वॉशिंगटन सेनानायक बनाये गये। १७७७ में ब्रिटिश जेनेरल बरगोयन को, कैनेडा में न्यूयार्क पहुंचने का प्रयत्न करते हुए, फ्रीमैंस फार्म नामक स्थान में हारकर विवश हो सैराटोगा में आत्म-समर्पण करना पड़ा। इसी वर्ष फ्रेंच तथा स्पेनिश सरकारों से युद्ध छिड़ जाने के कारण, ब्रिटेन को समुद्र की राह आने-जाने में अत्यन्त रुकावटें हुईं। फिर १७८१ में जेनेरल कॉर्नवालिस की अध्यक्षता में एक अन्य ब्रिटिश सेना को वर्जीनिया के यॉर्क-टाउन प्रायद्वीप में विवश होकर आत्म-समर्पण करना पड़ा। अन्त में पेरिस नगर की संधि के अनुसार मेन से लेकर जॉर्जिया पर्यन्त तेरह उपनिवेश 'संयुक्त-स्वाधीन-राज्य' निर्धारित कर दिये गये (१७८३)। इस प्रकार इतिहास में अमेरिका के संयुक्त-राज्य का प्रारंभ हुआ। परन्तु कैनेडा पूर्ववत् ब्रिटिश पताका के नीचे ही रहा।

इन राज्यों के संयोजन के नियम कुछ ऐसे थे कि चार वर्ष तक इनका केन्द्रस्थ शासन अत्यंत ही क्षीण रहा। और भविष्य में इनका पृथक् हो स्वतंत्र होना निर्धारित सा था, परंतु ब्रिटेन के विद्वेष तथा फ्रांस के आक्रमण पर उतारू होने के कारण इनका पृथक्करण कुछ काल के लिए स्थगित रहा और यह भले प्रकार ज्ञात हो गया कि पृथक् होना कैसा प्रत्यक्षतया भयदायक है। अतएव नई व्यवस्था तैयार की गई और १७८८ में उसकी स्वीकृति हो जाने पर एक ऐसा अधिक कार्यापयुक्त संयुक्त शासन तैयार किया गया जिसमें प्रेसीडेंट को बहुत अधिक अधिकार प्रदान किये गये थे। जातीय ऐक्य के संबंध में जो थोड़ी बहुत निर्बलता

रह गई थी वह १८१२ के द्वितीय अंगरेज़ युद्ध द्वारा जाती रही। इन राज्यों का क्षेत्र इतना अधिक विस्तृत और इनके स्वार्थ इतने अधिक भिन्न थे कि आवागमन के साधन यदि पूर्ववत् बने रहते तो यह निश्चित था कि यूरोपीय राज्यों की भाँति ये भी निकट भविष्य में पृथक् हो स्वतंत्र हो जाते। सैनेट के सभासदों तथा कांग्रेसियों को दूर के ज़िलों में वाशिगटन पहुँचने के लिए अत्यंत ही लम्बी, भयावह एवं श्रमपूर्ण यात्रा करनी पड़ती थी। उस समय सार्वजनिक शिक्षा एवं साहित्य तथा मस्तिष्क-विकास के साधनों की राह में अलंघनीय अड़चनों की भरमार थी। परंतु इन भेदकायक प्रवृत्तियों की गति रोकने के लिए संसार में कुछ और शक्तियाँ भी कार्य कर रही थीं। शीघ्र ही नदियों में भाप-संचालित नावें चलने लगीं और फिर रेलगाड़ी तथा विजली के तार के आविष्कार ने अमेरिका के संयुक्त राज्यों को विभाजित होने से बचाकर, वहाँ की छिन्न भिन्न जातियों को पुनः संगठित कर आधुनिक जातियों में अग्रणी बना दिया।

अमेरिका के स्पेनिश उपनिवेशों ने भी चाईस वर्ष पश्चात् उपर्युक्त तेरह राज्यों का अनुकरण कर यूरोप से नाता तोड़ दिया। परंतु पर्वत-श्रेणी, मरुस्थल, घोर वन तथा पुर्तगाल-अधीन ब्राज़ील-साम्राज्य द्वारा एक दूसरे से पृथक् होने के कारण उन महाद्वीप पर फैले हुए ये राज्य आपस में वैसा मेल न कर सके। तारक-समूह-नम इन प्रजातंत्र राज्यों में क्रांति एवं पारस्परिक युद्ध-प्रवृत्ति सदा बनी रहती थी।

ब्राज़ील ने पृथक् होने के लिए एक नया रास्ता निकाला। १८०७ में जब नैपोलियन की फ्रेंच सेना ने पुर्तगाल देश पर अपना अधिकार जमाया तो तद्देशीय राज्य-शासन (Monarchy) ब्राज़ील की ओर पलायन कर गया। इस समय ने लेकर उनके संपूर्णतया पृथक् होने तक ब्राज़ील को पुर्तगाल के अधीन न कहकर पुर्तगाल ही को ब्राज़ील के अधीन कहना अधिक उपयुक्त होगा। फिर १८२२ में पुर्तगाल-नरेश के एक पुत्र पैड्रो प्रथम की अधीनता में ब्राज़ील का भी स्वतंत्र साम्राज्य बन गया। परंतु इस नवीन संसार की भूमि तो राज्य-शासन-रूपी वृद्ध के लिए कभी उपयुक्त ही न थी। निष्कर्ष यह हुआ कि १८८९ में सम्राट् को चुपके से समुद्र द्वारा यूरोप भेज ब्राज़ील भी शेष अमेरिका की भाँति प्रजातंत्र राज्य हो गया।

## फ्रांस में क्रांति और राज्य-शासन की पुनःस्थापना

इंगलिस्तान के हाथों से अमेरिका के इन तेरह उपनिवेशों को निकले हुए कुछ भी समय न बीता था कि महान् स्वच्छन्द राज्य-शासन के केन्द्र ( अर्थात् फ्रांस ) ही में एक ऐसा गहरा सामाजिक और राजनैतिक क्षोभ उत्पन्न हुआ कि जिसने संसार के राजनैतिक विधानों की निपट क्षणभंगुरता का यूरोप को अत्यंत स्पष्टतया पुनः स्मरण करा दिया ।

हम अभी बता चुके हैं कि यूरोप के व्यक्तिगत स्वच्छन्द राज-शासनो में फ्रांस के राज-शासन ने ही सबसे अधिक सफलता प्राप्त की थी । बहुत से छोटे-छोटे प्रतिस्पर्धी दरबारों का फ्रांस ही स्पृहर्णीय आदर्श था । परंतु उसकी वृद्धि अन्याय पर थी, इस कारण उसका नाटक के समान सहसा अंत हो गया । उसकी दीप्ति एवं आक्रमण-शक्ति दोनों ही में धन एवं प्राण की आहुतियाँ पड़ रही थीं । विशेष विधि-विधानों के कारण पादरी तथा उच्चकुलाभिभूत वर्ग करों से सर्वथा मुक्त थे और शासन का सारा भार मध्य-वर्ग तथा निम्न श्रेणी की जनता को उठाना पड़ता था । वेचारे किसान करों के बोझ से दबे जाते थे; और मध्यवर्ग, शिष्ट-समाज द्वारा दलित एवं अपमानित किया जाता था ।

फ्रांस का यह स्वच्छन्द राज-शासन १७८७ में दिवालिया हो गया, और उसने विवश हो राज्य की न्यून आय और अधिक व्यय संबंधी आकुलता के निवारण पर विचार-विमर्श करने के लिए भिन्न-भिन्न वर्गीय प्रतिनिधियों को बुलाया । प्राचीन ब्रिटिश पार्लियामेंट के अनुरूप, सरदारों पादरियों और जनसाधारण की 'स्टेट्स-जैनेरल' नामक इस सभा की बैठक भी १७८९ में वरसाई में की गई । सन् १६१० से इसकी एक भी बैठक न होने के कारण फ्रांस में राजाओं का अब तक स्वच्छन्द व्यक्तिगत शासन-चक्र ही चल रहा था । हृदयों में भरे हुए वर्षों के पुराने घोर असंतोषोद्गारों को प्रकट करने का लोगो ने अब यह अच्छा अवसर देखा । तृतीय वर्ग अर्थात् जनसाधारण के प्रतिनिधियों के यह निश्चय करते ही कि भविष्य में परिषद् ( Assembly ) का नियंत्रण उन्हीं के

हाथों में रहेगा—तीनों वर्गों (Estate) में कलह उत्पन्न हो गया। परंतु इन भ्रगड़ों में जीत जनता ही की हुई। स्टेट्स जैनेरल अत्र जातीय परिपद् हो गया; और उसने वृटिश पार्लियामेंट की भांति राज्य-शासन पर नियमित रूप से नियंत्रण करने का प्रकट रूप से निश्चय कर लिया। यह देख प्रान्तां से सेना बुलाकर जब सम्राट् सोलहवें लुई ने भगाड़ा ठाना तो पेरिस और फ्रांस (अर्थात् देश) विद्रोही हो गये।

फ्रांस के स्वच्छन्द राज्य-शासन का अत्यंत शीघ्रता-पूर्वक अंत हो गया पेरिस की जनता ने वैस्टील के घोराकृतीय बंदीगृह का, धावा बोलकर, विध्वंस कर डाला और विद्रोहानल अत्यंत शीघ्रता से समस्त फ्रांस में फैल गया। किसानों ने पूर्वीय तथा उत्तर-पश्चिमीय प्रान्तों में विशिष्ट-कुलाभिभूत व्यक्तियों के बहुत से प्रासादों में आग लगा दी और आगम-पत्रों को दक्षतापूर्वक विनष्ट कर मालिकों को या तो मार डाला या वहाँ से निकाल बाहर किया। इस प्रकार प्राचीन परंतु धुनी हुई उच्चकुलाभिभूत शासन-विधि का एक मास में ही अंत हो गया। सम्राज्ञी के पक्ष के बहुत से प्रमुख राजकुमार और दरवारी परदेशों को भाग गये। पेरिस तथा अन्य बहुत से बड़े-बड़े नगरों में नागरिक शासन स्थापित कर दिये गये। इन नागरिक सभाओं ने स्पष्ट रूप से सम्राट्-सैन्य का सामना करने के लिए ही नागरिकों की नेशनल-गार्ड नामधारी एक नवीन सशस्त्र सेना बनानी प्रारंभ कर दी। अब नेशनल असेम्बली अर्थात् जातीय परिपद् को इस नवयुग के लिए एक नूतन सामाजिक एवं 'राजनैतिक शासन-विधि के स्थापित करने की भी आवश्यकता प्रतीत हुई।

इस कार्य-संपादन में उपरोक्त परिपद् की शक्तियों की पूर्ण परीक्षा हो गई। स्वच्छन्द राज्य-व्यवस्था के अन्यायों को समूल उखाड़कर फेंक दिया गया। कर-मुक्ति और दास्यता, शिष्ट-वर्गीय उपाधियाँ और विशेषाधिकार सभी को उड़ाकर पेरिस में नियमित राज्य-शासन स्थापित करने की चेष्टा की गई। वरसाई और वहाँ की विभूतियों का परित्याग कर सम्राट् इस समय पेरिस के टुइलैरिये नामक स्थान में बने हुए प्रासाद में अल्प-राज्याधिकार-युक्त होकर रहने लगा था।


दो वर्ष तो तक यही प्रतीत होता रहा कि जातीय परिपद् प्रयत्न कर नवीन शासन को संभवतः सफल बनाकर ही रहेगी। उसका बहुत सा कृत्य निर्देश था और आज तक स्थित है। क्या हुआ यदि उसका बहुत सा भाग प्रयोगात्मक था और उलट दिया गया और बहुत सा अप्रभावकारी सिद्ध हुआ। दंड-विधान का संशोधन किया गया; श्रंग-पीड़न, अन्याय से कैंद करना, तथा नास्तिकता के कारण दंडनीय होना, बंद कर दिया गया। नॉरमंडी, बरगंडी इत्यादि फ्रांस के प्राचीन प्रांतों के स्थान में अर्त्सा विभाग

स्थापित किये गये और सेना के उच्च पदों का द्वार भी प्रत्येक वर्ग के पुरुष के लिए एक सा खोल दिया गया। न्यायालय के विधान मुंदर और सरल कर दिये गये, परंतु जनसाधारण द्वारा न्यायाधीशों का थोड़े काल के लिए निर्वाचन होने के कारण इसका महत्त्व बहुत कुछ घट गया था। जन-समूह ही अब एक प्रकार से अंतिम न्यायालय बन गया था; और जातीय परिपद् के सभासदों की भांति न्याय-पतियों का भी जनसाधारण को प्रसन्न रखना पड़ता था। चर्च की अमित संपदा का राज्य द्वारा अपहरण (ज़ब्ती) हो जाने के कारण उसका प्रवन्ध तथा शासन राज्य द्वारा ही होता था। दान अथवा शिना न देने-वाली धार्मिक संस्थाएँ बंद कर दी गईं, पादरियों के वेतन का भार जनता पर टाल दिया गया; और जहाँ तक निम्न पादरियों का संबंध था वहाँ तक तो इस बात में कुछ दोष न था क्योंकि उच्चपदस्थ धनी अधिकारियों की अपेक्षा वे निन्दनीय रूप से अल्प-वेतनभोगी थे। परंतु अब पादरी और वियाप इत्यादि की नियुक्ति भी निर्वाचन द्वारा होने लगी जिसके कारण रोमन चर्च के इस सिद्धांत की जड़ पर कुठाराघात हुआ कि छोटे से लेकर बड़े बड़े कार्यों तक को पोर ही के आशानुसार करना चाहिए। बात वास्तव में यह थी कि जातीय परिपद् यदि सिद्धांत में नहीं तो संगठन के रूप से ही फ्रांस के चर्च को एक ही धक्के में प्रोटेस्टैंट बनाया चाहती थी। फल यह हुआ कि उसके नियुक्त किये हुए राष्ट्र-पुरोहितों और उनके विद्वेषी रोम-भक्ति की शपथ लेनेवाले पुरोहितों के मध्य सर्वत्र ही झगड़े-टंटे हो गये।

महाराजा और महारानी ने व्यक्तिगत शासनानुयायी विदेशियों तथा उच्चकुलाभिभूत व्यक्तियों से ज्यों ही परामर्श किया, त्योंही १७९१ में फ्रांस के नियमित शासन-प्रयोग का अंत हो गया। विदेशी सेना इस समय पूर्वीय सीमा पर डटी खड़ी थी। महाराजा तथा महारानी एक दिन सकुटुम्ब चुपके से जून मास की रात्रि में टुइलैरिये नामक स्थान से निकलकर इन विदेशियों तथा उच्चकुलाभिभूत निर्वासित मित्रों से मिलाने के लिए भाग पड़े; परंतु वैरन्ने नामक स्थान ही में पकड़े जाकर पुनः पेरिस लाये गये। समस्त फ्रांस के हृदय में इस समय देश-प्रेम तथा प्रजातंत्र की प्रचंड अग्नि-ज्वाला भड़क उठी। (बस फिर क्या देर थी।) प्रजातंत्र घोषित कर दिया गया। आस्ट्रिया और प्रुशिया से युद्ध ठान दिया और प्रजा के विरुद्ध विद्रोह का अभियोग लगाकर हँगलैंड का आदर्श सामने रखते हुए महाराजा को प्राण-दंड दे दिया गया (जनवरी १७९३)।

फ्रांसीसियों के इतिहास में अब एक नवीन परंतु अद्भुत दृश्य उपस्थित हुआ। फ्रांस और प्रजातंत्र के लिए उत्साह-अग्नि की अत्यंत ही ऊँची लपटें उठ रही थीं। देश में अथवा विदेश में सर्वत्र ही अब समझौतों के लिए कोई स्थान न था। राजपक्ष एवं

प्रत्येक प्रकार के राजद्रोह का दमन करना ही देश की आंतरिक नीति थी, और देश के बाहर समस्त क्रांतिकारियों की रक्षा एवं सहायता करना अब फ्रांस का कर्तव्य था। अब तो यूरोप ही को नहीं वरन् समस्त भूमंडल को प्रजातंत्रवादी होना था। सेनाओं ने फ्रांस के युवा धड़ाधड़ भरती हो रहे थे, एक नवीन एवं अद्भुत गीत भी इसी समय समस्त देश में प्रचलित हो गया था। वह मार्सेलाई के नाम का प्रसिद्ध गायन आज भी हमारे रुधिर को नसों के भीतर मदिरापान के समान उद्वेजित करता है। इस संगीत की ध्वनि तथा



### लुई सोलहवें के मामले पर विचार

छलांग मारनेवाली पंक्ति बढ़ फ्रेंच संगीनों एवं उत्साहपूर्वक चलाई हुई उनकी तोड़ने के सम्मुख विदेशी सेनाएँ भाग खड़ी हुईं। चौदहवाँ लुई भी जहाँ तक न पहुँचा था उनमें भी कहीं आगे फ्रांस की सेना १७९२ में जा पहुँची। चारों दिशाओं में उनके टेरे अब विदेश भूमि में ही गड़ गये। वे ब्रुसेल्स में जा पहुँचे; सैरॉय को उन्होंने लूट लिया, मेयन्त (Mayence) पर उनके आक्रमण हुए और शैल्ट (Scheldt) को उन्होंने हॉलैंड से छीन लिया। फ्रेंच सरकार ने तत्परचात् (पिग) एन बुदि-



हीनता का कृत्य किया, अर्थात् लुई के वध के उपरांत इंग्लैंड से अपने प्रतिनिधि के निकाले जाते ही झुँझलाकर उस देश के विरुद्ध भी युद्ध घोषित कर दिया। उसका यह कार्य मूर्खतापूर्ण था। हेतु यह है कि क्रांति के कारण संकुचित नियमों और विशिष्टकुलाभिभूत उच्चपदस्थ कर्मचारियों के चंगुल से छूटते ही साहसी पैदल सैन्य और तेजस्वी तोपखाना तो फ्रांस को नसीब हो गया परंतु अवरोधकारी परिस्थितियों के कारण, नाविक (Navy) अनुशासन लुप्त हो गया था और समुद्र पर अंगरेज़ जाति ही सर्वे सर्वा थी। क्रांति की सहानुभूति में इससे पहले अत्यंत अधिकता से उदारभाव होते हुए भी, इस उत्तेजना के कारण अब समस्त इंग्लैंड एक स्वर से फ्रांस का विरोधी हो गया।

सम्मिलित यूरोप के विरुद्ध फ्रांस किस भाँति अगले कुछ वर्षों तक युद्ध करता रहा, इसका विस्तृत विवरण हम यहाँ नहीं दे सकते। फ्रांस ने ही ऑस्ट्रिया को सदा के लिए वेलजियम से खदेड़ दिया और हॉलैंड में प्रजातंत्र स्थापित किया। हिम में जम जाने के कारण डच लोगों के जहाज़ी वेड़े ने तो टैक्सैल नामक स्थान में बिना तोप दागे हुए ही सुट्टी भर फ्लैच गुड़सवारों को आत्म-समर्पण कर दिया। फ्रांसीसियों का इटली की ओर का धावा अवश्य कुछ काल तक स्थगित रहा; उस ओर तो भूखी और चिथड़े पहिरे हुई प्रजातंत्र की सैन्य को जयघोष करते हुए नैपोलियन बोनापार्ट नामक एक नया जेनरल १७९८ में पीडमोंट के पार मान्टुआ और वैरोना तक ले जाने में समर्थ हुआ था। सी० एफ़० ऐटकिन्स\* का कथन है कि “मित्र राज्यों को इन प्रजातंत्रवादियों की लुद्ध संख्या और तीव्र गति ने अत्यंत आश्चर्य में डाल दिया था। देर लगानेवाली कोई वस्तु तो इन सहसा धावा बोलनेवाली प्रजातंत्र की सेनाओं के पास वास्तव में थी ही नहीं। धनाभाव के कारण एक तो डेरों का मिलना ही सुलभ न था, दूसरे गाड़ियों की पर्याप्त संख्या न होने के कारण उनका ले जाना संभव न था और न उनकी कुछ आवश्यकता ही थी। क्योंकि जिन कष्टों के कारण अन्य व्यवसायी सेनाएँ रख-मैदान छोड़कर भाग जातीं उनको ये सहर्ष सहन कर लेते थे (१७९३-९४)। ऐसी अश्रुतपूर्व परिमाण की सैन्य के लिए रसद एवं अनुचारादिक का ले जाना अशक्य होने के कारण फ्रांसीसियों ने आक्रमित देश की वस्तुओं से ही निर्वाह करने की विधि को अत्यंत अल्पकाल में सीख लिया था। इस प्रकार कपटोपाय, व्यवसायियों की लुद्ध सेनाएँ, डेरे तम्बू, पर्याप्त रसद की योजना और मंद व्यपदेश के स्थान में सैन्य की द्रुत गति, जातीय बल का पूर्ण विकास, खुले हुए मैदानों

\* इनसाइक्लोपीडिया ( विश्वकोष ) में दिये हुए फ्रांसीसी क्रांति के युद्ध शीर्षक लेख को देखिए।

में डेरे इत्यादि के विना शिविर की स्थापना, शत्रु-देश में भोज्य पदार्थों का बलपूर्वक अपहरण, और बल-निदर्शन इत्यादि आधुनिक रणनीति-पद्धति का १७९३ में अभ्युदय हुआ। उपरोक्त दोनों नीतियों में से, प्रथम में यदि लुद्रे हानि सहन कर किंचित् लाभ की संभावना थी तो दूसरी निश्चयों को दृढ़ करनेवाले भाव की द्योतक थी।”

परंतु चिथड़े पहिरे ये साहसी योद्धा—स्पष्टतया विना विचारे हुए कि आक्रमण द्वारा वे किसी देश को लूटने जा रहे थे या उसका उद्धार करने के लिए—जिस समय ‘मारसेइ-लाइस’ गीत को गा-गाकर अपने देश फ्रांस के लिए युद्ध कर रहे थे उसी समय पेरिस के प्रजातंत्रीय उत्साह का असराहनीय रूप से अपव्यय हो रहा था। क्रांति की डोर इस समय रॉक्सपियर नामक एक उन्मत्त व्यक्ति के हाथ में थी। इस व्यक्ति को समझना एक कठिन कार्य है; इसकी देह दुर्बल थी और यह स्वभाव से भोरु एवं दंभी था; परंतु प्रयोगात्मक शक्ति के लिए जिस साधन की आवश्यकता थी वह—दृढ़ विश्वास—इसमें कूट-कूटकर भरा हुआ था। अपनी कल्पना के अनुसार प्रजातंत्र की रक्षा के लिए यह व्यक्ति अब खड़ा हो गया और इसकी यह धारणा थी कि मेरे सिवा कोई अन्य पुरुष प्रजातंत्र की रक्षा ही नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह हुआ कि रॉक्सपियर का बल अल्लुएण बने रहने पर ही प्रजातंत्र की रक्षा हो सकती थी। ऐसा प्रतीत होता था कि राजा तथा उसके पक्ष वालों का बध ही प्रजातंत्र के प्राण-संचारण का कारण था। वह विद्रोहों का समय था। फ्रौजों की लाज़िमी भरती करने तथा सनातन पादरियों के अधिकार छिन्नने के कारण पश्चिम की ओर के लायैन्दि नामक जिले की जनता ने भद्र लोगों एवं पादरियों के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था। दक्षिण में ल्यथों (Lyons) और मारसेलाइ (Marseilles) नामक नगर विद्रोही हो गये थे; और टौलों (Toulon) नामक नगर के रहनेवाले राजपक्ष-वालों ने एक अंगरेज़ी और एक स्पेनिश सेना देश के भीतर घुसा ली थी। अतएव लोगों की बुद्धि में राजपक्ष वालों का शिरच्छेदन ही इन सब का यथेष्ट प्रतीकार था।

क्रांतिकारी दल के न्यायालयों का कार्य प्रारंभ होते ही स्थिर रूप से जन-संहार होने लगा। ऐसी दशा में गिलोटीन\* का आविष्कार भी यथासमय हुआ था। महारानी

\* सिर काटने का यंत्र-विशेष जिसमें दो स्तम्भ एक दूसरे के सम्मुख लगाये जाते थे और इन दोनों पर एक तेज़ धार का, ऊपर-नीचे खिसकनेवाला, छुरा लगा रहता था। दोनों स्तंभों के बीच में बन्ध प्राणी का सिर टेक दिया जाता था और फिर बाध के कारण ऊपर से छुरा गिरते ही उसकी गर्दन देह से पृथक् हो जाती थी।

इसी गिलोटीन की भेंट हुई, रॉन्सपियर के बहुत से विरोधियों को भी यही प्रसाद मिला। ईश्वर की सर्वोच्च सत्ता में विश्वास न रखनेवाले नास्तिकों के सिर भी इसी के द्वारा काटे गये। आये दिन लोगों को काटने पर भी इस नारकीय यंत्र का पेट न भरता था और दिन प्रतिदिन अधिकाधिक सिरों की माँग बढ़ती जाती थी। रॉन्सपियर का शासन रुधिर के बल पर ही अवलंबित दीखता था और अफ्रीम खानेवाले की भाँति उमकी रुधिर-पिपासा अधिकाधिक मात्रा में बढ़ती जाती थी।



फ्रांस की रानी मेरी ऐण्ट्वायनेट का प्राण-दण्ड

अंत में १७९४ की ग्रीष्म ऋतु में स्वयं रॉन्सपियर भी पदच्युत हो गिलोटीन की भेंट चढ़ा दिया गया; और पाँच पुरुषों की 'डायरेक्टरी' (सभा-विशेष) स्थापित की गई जिसने पाँच वर्ष तक विदेशी आक्रमणों से रक्षा कर फ्रांस में ऐक्य स्थापित रखा। इस प्रबल परिवर्तनशील इतिहासाभिनय में यह शासन-काल भी एक विष्कम्भक के समान है। वस्तु-स्थिति के अनुकूल ही इन लोगों ने कार्य संपादन किया। क्रांतिकारियों के आंदोलन के उत्साह के कारण फ्रांसीसी सेनाएँ हालैंड, वेलजियम, स्विट्ज़रलैंड, दक्षिणीय

जर्मनी और इटली के उत्तरीय लोगों तक जा पहुँचीं, और इन सब स्थानों में राजाओं को सिंहासन-च्युत कर प्रजातंत्र स्थापित किये गये। परंतु इन देशों पर आक्रमण कर जनता को स्वातंत्र्य देकर भी फ्रेंच सेनाएँ जब अपने देश का आर्थिक संकट दूर करने के लिए इन विजित देशों का धनापहरण करती थीं तो अपने सिद्धांतों के प्रचारोत्साह से श्रोतप्रोत् ये डायरेक्टर भी उनको ऐसे कुकृत्यों से न रोकते थे। पवित्र स्वातंत्र्य-युद्धों के स्थान में ये युद्ध अब दिन प्रतिदिन परिवर्तित हो प्राचीन-शासन के आक्रमणों का रूप धारण कर रहे थे। फ्रांस के व्यक्तिगत महान् राज-शासन (Grand Monarchy) के वैदेशिक नीति रूपी अंतिम अवयव को देश छोड़ना चाहता था, परंतु डायरेक्टरी के शासन-काल में भी वह पूर्ववत् जोर-शोर से चलती हुई दीख पड़ती है मानों कोई क्रांति ही नहीं हुई।

परंतु फ्रांस एवं संसार के दुर्भाग्य से अब एक ऐसे मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ जो फ्रांसीसियों के इस प्रचंड जातीय अहंकार का मूर्त्तिमान् स्वरूप था। इसने दम बर्ष तक जगमगाहट दिखा अंत में दर्प-चूर्णित फ्रांस को पराजय के अंधकार में डाल दिया। यह व्यक्ति वही नेपोलियन बोनापार्ट था जिसके नेतृत्व में डायरेक्टरी की फ्रेंच सेनाएँ जयघोष करती हुई इटली में घुसी थीं।

डायरेक्टरी के पंचवर्षीय शासन-काल में यह व्यक्ति अपनी उन्नति के प्रयत्न साधता रहा। अंत में धीरे धीरे कोशिश करके इसने सर्वोच्च अधिकार हस्तगत कर लिये। इस पुरुष की बुद्धि अत्यंत ही परिमित थी, परंतु यह दृढ़निश्चयी, क्रूरकर्मा एवं महान् स्फूर्तिवाला था। रॉबसपियर के कट्टर मतानुयायी के रूप में इसके जीवन का प्रारंभ हुआ, और इस पक्ष का होने के कारण ही इसकी सर्वप्रथम पद-वृद्धि हुई। परंतु यूरोप में जो नवीन शक्तियाँ काम कर रही थीं, उनको यह व्यक्ति भली भाँति कभी न समझ सका। राजनैतिक वासनाओं की पराकाष्ठा उसके परिचामी साम्राज्य के पुनरुत्थान के कालातीत मिथ्या शोभा-युक्त प्रयत्नों की ओर ले गईं। प्राचीन पवित्र रोम-साम्राज्य के भग्नावशेषों के अस्तित्व को मिटाकर उनके स्थान में वह एक वैसा ही नवीन साम्राज्य पैरिस का केन्द्र बनाकर स्थापित करना चाहता था। वियेना (Vienna) का सम्राट् अब पवित्र रोम-सम्राट् न रहा; वह तो केवल ऑस्ट्रिया का सम्राट् था। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से विवाह करने की नीयत से नेपोलियन ने अपनी फ्रेंच पत्नी को तलाक दे दिया।

१७९९ में 'प्रथम-कॉन्सल' का पद प्राप्त कर वह फ्रांस का वास्तविक राजा बन गया और शार्लमैन का अनुसरण कर उसने प्रत्यक्ष रूप से १८०४ में फ्रांस के सम्राट् की उपाधि ग्रहण कर ली। उसका राज्याभिषेक करने स्वयं पोप पैरिस नगरी में आया और

उस समय ठीक शार्लमेन के आदेशानुसार उसने राजमुकुट पोप के हाथों से न लेकर स्वयं ही अपने शिर पर धारण कर लिया। इसका पुत्र भी रोम का अभिषिक्त राजा हुआ।

नैपोलियन का शासन कुछ वर्षों तक विजय का मूर्तिमान् स्वरूप था। प्रायः समस्त इटैली और स्पेन उसने जीत लिये; प्रुशिया और आस्ट्रिया को पराजित किया और रूस के पश्चिम और समस्त यूरोप में उसका बोलबाला था। परंतु इतना होने पर भी वह अंगरेजों से समुद्र-शासन न छीन सका; और प्रसिद्ध अंगरेज नौ-सेनापति नैलसन ने फ्रांसीसी जहाज़ी वेड़े को त्राफालगर में (१८०५) बुरी तरह परास्त किया। उसके विरुद्ध स्पेन में विद्रोह हुआ (१८०८) और अंगरेज सेना ने वैलिंगटन की अध्यक्षता में धीरे धीरे प्रायः समस्त प्रायद्वीप से फ्रेंच सेना को उत्तर की ओर धकेल दिया। १८११ में रूस के ज़ार ऐलेकज़ेंडर प्रथम से युद्ध छिड़ जाने के कारण नैपोलियन ने छः लाख मिश्रित सेना ले रूस पर भी धावा बोल दिया था; परंतु इसमें बहुतों को तो रूसियों ने मार भगाया और बहुत से कठोर रूसी जाड़े के कारण ही परलोक चल बसे। जर्मनी अब उसके विरुद्ध खड़ा हो गया था और स्वीडन उसका विरोधी बन बैठा। अंत में फ्रौन-टेनब्लो नामक स्थान में फ्रांसीसी सैन्यदल हार गया और नैपोलियन ने १८१४ में सिंहासन त्याग दिया। उसके एलवा नामक द्वीप में निर्वासित कर दिया गया परंतु वहाँ से लौटकर जब उसने पुनः एक बार अंतिम प्रयत्न करना चाहा तो ब्रिटिश, बेलजियन और प्रुशिया की संयुक्त सेनाओं ने उसके पुनः १८१५ में वाटरलू के मैदान में परास्त किया। अंत में अंगरेजों का बंदी बन उसने १८२१ में सेंट हैलेना नामक द्वीप में अपने प्राण त्यागे।

फ्रेंच-क्रांति के कारण जिन शक्तियों की उत्पत्ति हुई थी, अपव्यय होने के कारण, उन सभी का अब अंत हो गया। इस भयानक भ्रंभावात के वीत जाने पर वियेना की महान् कांग्रेस में एकत्रित विजयी मित्रराज्यों ने पूर्व परिस्थिति के भग्नावशेषों को पुनः स्थापन करने का यत्न किया था और तदुपरांत चालीस वर्ष तक यूरोप में एक प्रकार की शांति भी रही; परंतु वह तो थका मारनेवाले परिश्रम और प्रयत्नों के पश्चात् हुई मृत्यु जैसी क्षीणता की शांति थी।

## नैपोलियन के अधःपतन के उपरांत यूरोप में विषम शांति

उस समय सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय शांति संपूर्णतया स्थापित न होने के दो प्रधान कारण थे, जिन्होंने ( १८५४-१८७१ ) के मध्य युद्ध-चक्रों की गति के लिए मार्ग बना दिया। इनमें से एक कारण था प्रत्येक राज-दरवार की अनुचित राज्याधिकार प्राप्त करने की प्रवृत्ति तथा उसके द्वारा लेखन-शिक्षण एवं विचार-स्वातंत्र्य में व्यर्थ की रुकावट; और दूसरा था वियेना के राजनीतियों का देश-देश की सीमा निर्धारित करने की असंभव विधि।

व्यक्ति-शासित राज्यों की प्राचीन प्रथा और परिपाटी का अनुसरण करने की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति मुख्यतया स्पेन में सर्वप्रथम दृष्टिगोचर हुई थी। यहाँ तक कि वहाँ नास्तिकों को निर्दयता-पूर्वक दंड देनेवाले 'इनक्विज़िशन' नामक धार्मिक न्यायालय भी पुनः स्थापित हो गये। जिस समय नैपोलियन ने अपने भ्राता जोज़ेफ़ को १८१० में स्पेन की गद्दी पर बैठाया था उसी समय ऐटलांटिक पार के स्पेनिश उपनिवेशों ने संयुक्त-राज्यों का अनुसरण कर यूरोपीय महा शक्तिशाली राजप्रथा ( Great-Power-System ) के विरुद्ध विद्रोह खड़ा कर दिया। जनरल बोर्लावर ही तब दक्षिणीय अमेरिका का जार्ज वाशिंगटन था। स्पेन में उसके दबाने की शक्ति न होने के कारण संयुक्त-राज्य के स्वातंत्र्य-युद्ध की भाँति यह विद्रोह भी वर्षों तक चलता रहा; तदुपरांत ऑस्ट्रिया ने पवित्र मैत्री ( Holy Alliance ) के भावानुसार समस्त यूरोपियन नरनार्यों से स्पेन की सहायता करने का प्रस्ताव किया। यूरोप में इसका विरोधी केवल ब्रिटेन था; परंतु संयुक्त राज्यों के प्रेसीडेंट मुनरो के तीव्र प्रतिवाद के कारण वहाँ पर व्यक्तिगत राज-शासन का यह प्रयत्न निश्चित रूप से विफल हो गया ( १८२३ )। प्रेसीडेंट महोदय ने यह घोषित कर दिया था कि यूरोपीय शासन-विधि का पश्चिमीय गोलार्ध में तनिक-सा भी प्रसार होने पर संयुक्त-राज्य उसके शत्रु-कार्य समझेगा। इन प्रकार प्रनिष्ठ

‘मौनरो-सिद्धांत’ की सृष्टि हुई जिसके अनुसार अमेरिका में बाहर के किसी शासन का प्रसार नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि लगभग सौ वर्ष बीत जाने पर भी महान् शक्ति-शासन-विधान की जड़ वहाँ पर न जम पाई; और स्पेनिश अमेरिका के नवीन राज्य अपनी-अपनी विधि के अनुसार स्व-भाग्य-निर्माण में स्वंत्र रहे।

इस प्रकार उपनिवेशों के निकल जाने पर स्पेन के व्यक्तिगत राज-शासन का यूरोपीय सम्मंत्रण के होते हुए कम से कम यूरोप में तो सब कुछ मनचाहा करने का अधिकार प्राप्त था। स्पेन में सार्वजनिक विद्रोह खड़ा हो जाने पर यूरोपीय कांग्रेस के आदेशानुसार फ्रांसीसी सेना ने उसके बुरी तरह कुचल दिया (१८२३) और इसी समय आस्ट्रिया ने भी नैपिल्स में विद्रोह का दमन किया था।

१८२४ में अठारहवें लुई की मृत्यु के उपरांत दशम चार्ल्स गद्दी पर बैठा। राजा होते ही इसने विश्वविद्यालयों और छापाखानों की स्वाधीनता छीन अनियमित शासन ( Absolute Government ) की नींव पुनः डालनी प्रारंभ की और १७८९ में सरदारों को निकालने तथा उनके प्रासाद जला डालने के क्षति-पूर्त्यर्थ दस लाख फ्रैंक दिये जाने की आज्ञा दे दी। इस मूर्तिमान् प्राचीन शासन-विधि के विरुद्ध पेरिस-वासियों ने १८३० में विद्रोह कर लुई फिलिप को राजा बना दिया जो त्रास के समय बध किये जानेवाले ऑरलीन्स के ड्यूक फिलिप का पुत्र था। अन्य यूरोपीय राज्यों ने इंग्लैंड को इस विद्रोह का प्रत्यक्ष समर्थक और जर्मनी तथा आस्ट्रिया को अत्यन्त उदारतया सहानुभूति करते देख इस मुश्किल में हस्तक्षेप न किया; क्योंकि फ्रांस अंततोगत्वा राज-शासित देश तो बना रहा। लुई फिलिप अठारह वर्ष तक (१८३०-१८४८) फ्रांस का वैध शासक रहा।

वियेना की कांग्रेस द्वारा स्थापित संधि की ये विषम प्रेरणाएँ शासकानुयायियों के उन्नति-विरोधी कार्यों द्वारा और भी उत्तेजित की जा रही थीं। वियेना ( Vienna ) के राजनीतियों द्वारा अवैज्ञानिक रीति से निर्धारित इन देश-सीमाओं से उत्पन्न यह उत्पीड़न अब जान-बूझकर अधिकाधिक जोर पकड़ता जा रहा था। परन्तु यह उत्पीड़न मानव-जाति के लिए कहीं अधिक भयावह था। पृथक् भाषा-भाषी, अतएव पृथक् साहित्य पढ़ने तथा विभिन्न विचार रखनेवाली विविध जातियों को एक ही शासन-सूत्र में बाँधना अत्यन्त कठिन होता है और विशेषतया उस समय जब यह भेद धार्मिक भ्रूणों और टंटों के द्वारा उत्तेजित हुए हों। भिन्न भाषा-भाषी एवं भिन्न धर्मावलंबी व्यक्ति तो सार्वजनिक रक्षा इत्यादि किसी अत्यन्त प्रबल पारस्परिक हित के कारण ही पर्वतीय स्विज़ लोगों की भाँति एक हो सकते हैं और वह भी तब, जब स्विट्ज़रलैंड के समान उनमें स्थानीय पूर्ण स्वतंत्रता हो। मैसडोनिया जैसे प्रांतों में, जहाँ गाँवों तथा जिलों में जातियाँ मिली-जुली बसी हुई हैं, उक्त प्रकार

का स्थानीय पूर्ण स्वातंत्र्य अत्यन्त आवश्यक है। परन्तु वियेना की कांग्रेस द्वारा निर्मित यूरोप के मानचित्र को देखने से पता चलेगा कि स्थानीय ( पारस्परिक ) क्रोधोदीर्घन को मानों पराकाष्ठा पर पहुँचाने के लिए ही ये सीमाएँ निर्धारित की गई थी।

उच्च प्रजातंत्र को अकारण ही मटियामेट कर प्रोटेस्टैंट पंथानुयायी उच्च और कैथोलिक पंथानुयायी फ्रांसीसी वोलनेवाले प्राचीन स्पेनिश (ऑरिंटयन) नैदरलैंड को मिलाकर नैदरलैंड्स के नवीन राज्य की स्थापना की गई। न केवल प्राचीन प्रजातांत्रिक वेनिस वरन् मिलन नगर तक उत्तरीय इटैली का समस्त भू-भाग, जर्मन-भाषा-भाषी ऑस्ट्रियन्स को दे दिया गया। फ्रेंच-भाषा-भाषी सैवॉय को इटैली के कुछ भागों से सम्मिलित कर सार्डिनिया का राज्य पुनः स्थापित किया गया। पारस्परिक-विद्वेषी हंगेरियन, जर्मन, स्लाविक, जूगोस्लाव, रूमानियन और आधुनिक इटालियनों की जार्ता। विभिन्नता के कारण ऑस्ट्रिया और हंगेरी का मिश्रण पहले ही से स्फोटक था उस पर १७९२ और १७९५ के ऑस्ट्रिया द्वारा अधिभूत पोलैंड के भू-भाग को इसमें और सम्मिलित कर देने पर वह और भी शीघ्र दाह्य हो गया। प्रजातंत्र के भावों से भरे हुए कैथोलिक पंथानुयायी पोलैंड की बहुसंख्यक जनता का अधिकांश ग्रीक-चर्च के कट्टर अनुयायी और कहीं अल्प-मन्थ शासक ज्ञार के अधीन कर दिया गया था; और कुछ इलास ज़िले प्रोटेस्टैंट प्रुशिया को मिल गये थे। इसके अतिरिक्त संपूर्णतया भिन्न फ़िन ( Finns ) जाति पर भी ज्ञार का आधिपत्य स्वीकार कर लिया गया था। एक दूसरे से सर्वथा पृथक् स्वीड और नॉरवेजियन लोग भी एक राजा के अधीन कर मिला दिये गये। पाठक स्वयं देखेंगे कि जर्मनी की स्थिति इस समय भयंकर रीति से अव्यवस्थित छोड़ दी गई थी। प्रुशिया और ऑस्ट्रिया दोनों ही का कुछ अंश तो जर्मन संघ के भीतर था और कुछ बाहर, और इसमें बहुत सी छोटी रियासतें भी शामिल थीं। हौलस्टीन के जर्मन भाषा-भाषी कुछ स्थानों पर आधिपत्य के कारण डेनमार्क के राजा की भी इसी जर्मन संघ में गणना की गई। और लक्ज़मबर्ग भी इसमें सम्मिलित किया गया, परन्तु वह नैदरलैंड पर भी शासन करता था और उन्नी प्रजा अधिकांश में फ्रेंच वोलता था।

यहाँ इस बात की सर्वथा उपेक्षा की गई कि वे जातियाँ जो जर्मन-भाषा-भाषी थी और जिनके विचार जर्मन-साहित्य पर स्थित थे, वे जातियाँ जो इटैलियन-भाषा-भाषी थी और जिनके विचार इटैलियन साहित्य पर स्थित थे, तथा वे जातियाँ जो पोलिश-भाषा-भाषी थीं और जिनके विचार पोलिश साहित्य पर स्थित थे वे स्वयं अधिक नुर्ज़ी और शेष मानव-जाति के लिए कहीं अधिक सहायकारी और अत्यंत सूद्र मात्रा में हानिकारक होंगी—यदि वे अपने व्यवसाय को अपनी ही भाषा में व्यवहन कर






नैपोलियन ( राज्याभिषेक के समय का चित्र )

पद्धति द्वारा संपादन करें। फिर यदि जर्मन भाषा का वह लोक-प्रिय गीत कि "जहाँ जहाँ जर्मन भाषा बोली जाती है वहाँ हमारी मातृभूमि है" उस समय सर्वत्र फैल गया तो इसमें आश्चर्य क्या है ?

### योरप वियेना की कांग्रेस के बाद



फ्रांस की तत्कालीन क्रांति से उत्साहित हो फ्रेंच-भाषा-भाषी बेल्जियम ने उच्च संयोजन से उकताकर नैदरलैंड के राज्य में विद्रोह कर दिया ( १८३० )। यह देश और भय खाकर कि वह प्रजातंत्र की स्थापना कर डालेगा या फ्रांस में नभिमलित कर लिया जायगा, यूरोपीय शक्तियों ने आपत्ति-निवारण के लिए शीघ्रतया बेल्जियम को सैकन-कोवर्ग-गोथा के लियोपोल्ड प्रथम के शासन में कर दिया। १८३० में जर्मनी और इटली में तो विद्रोह विरल हो गये परंतु रूसी पोलैंड का नुआमिला अधिक भयानक निद्र हुआ। वारसा का प्रजातंत्र रूस के ज़ार निकोलस का ( जो ऐलेक्जेंडर का १८२५ में उत्तराधिकारी हुआ ) एक वर्ष तक मुकाबिला करने के पश्चात् अत्यंत नृशान अत्याचार

द्वारा चूर्णित कर दिया गया। पेलिश भाषा सर्वत्र अभिशप्त कर दी गई और रोमन कैथोलिक चर्च के हटाकर उसके स्थान में पुराणवादी ग्रीक-चर्च का राज्य-धर्म बना दिया गया।

१८२१ में यूनानियों ने तुर्कों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। छः वर्ष तक उन्होंने जी तोड़कर युद्ध किया और यूरोपीय शासक केवल बैठे-बैठे तमाशा देखा किये। परंतु उदार विचारवालों ने इस निश्चेष्टता का प्रतीकार किया और प्रत्येक देश से स्वयंसेवक (स्वेच्छा-पूर्वक) इन विद्रोहियों के सहायक बने, तब कहीं अंत में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने सम्मिलित सहयोग दिया। फ्रांसीसी तथा अंगरेजों ने ताँ नैवारिनो के युद्ध में (१८२७) उनका जहाज़ी वेड़ा तहस-नहस कर डाला; और रूसियों ने उनके देश पर आक्रमण कर दिया। अंत में एड्रियानोपल की संधि के अनुसार (१८२९) यूनान के स्वतन्त्रता तो मिली, परंतु उसके अपनी प्राचीन प्रजातांत्रिक शासन-प्रणाली के पुनः स्थापन करने की आज्ञा नहीं दी गई। व्हेरिया के औटो नामक एक जर्मन राजकुमार को वहाँ का राजा बना दिया गया और डेन्यूब नदी के ओर पास के प्रान्तों में (जहाँ अब रुमानिया है) और सर्बिया में (जो जूगोस्लाव का कुछ अंश है) ईसाई शासक (Governor) नियत कर दिये गये। परंतु यूरोप के इन भूभागों से तुर्कों को संपूर्णतया खदेड़ने के लिए उनको फिर भी भविष्य में अत्यन्ताधिक शोणित-सिंचन करना था।

## पदार्थ-ज्ञान की उन्नति

संपूर्ण सतरहवीं, अठारहवीं तथा उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में जब यूरोप के राजकुमार शक्ति-प्राप्त्यर्थ युद्ध कर रहे थे और वैस्टफ़ेलिया की संधि ( १६८८ ) का शीघ्रतया परिवर्तन-शील संग्रथन, सहसा वियेना की संधि ( १८१५ ) का अस्थायी रूप धारण कर रहा था, और जब पालों से चलनेवाले जहाज़ों द्वारा समस्त संसार में यूरोपीय प्रभाव फैल रहा था, उसी समय यूरोप तथा यूरोपीय पद्धति का अनुसरण करनेवाले भू-भाग में धीरे धीरे परंतु दृढ़ता-पूर्वक निज संसारविषयक मनुष्य की ज्ञान-वृद्धि एवं विचार अधिकाधिक व्यक्त रूप धारण करते जाते थे ।

ये बातें राजनैतिक जीवन से सर्वथा स्वतंत्र थीं और संपूर्ण सतरहवीं एवं अठारहवीं शताब्दियों में इनका न तो राजनैतिक जीवन में कुछ तात्कालिक स्पष्ट परिणाम हुआ और न उस समय इन्होंने जनसाधारण के विचारों पर ही कोई गहरा प्रभाव डाला । ये प्रतिक्रियाएँ तो बहुत काल पीछे हुईं । और इनका पूरा प्रभाव तो कहीं आधी उन्नीसवीं शताब्दी वीत जाने के पश्चात् दृष्टिगोचर हुआ है । आद्यावस्था में यह प्रयोग केवल कुछ धन-सम्पन्न और स्वाधीनचेता लोगों तक ही परिमित थे । उन व्यक्तियों के अभाव में जिनको हम स्वाधीनचेता भद्र लोग कहते हैं ( या जिनको अँगरेज़ी भाषा में Private gentleman कहा जाता है ) न तो इन वैज्ञानिक विधियों का प्रोत्साहन हो सकता था और न इनका यूरोप में पुनरुत्थान ही संभव होता । उस समय के विश्वविद्यालयों ने दार्शनिक एवं वैज्ञानिक विचारों में भाग तो अवश्य लिया, परंतु इस मार्ग में वे अग्रणी कभी न बने । स्वाधीनचेता पुरुषों का संसर्गोत्तेजन न होने पर धर्म-दाय ( Endowed ) द्वारा संचालित शिक्षणालयों की शिक्षा प्रायः भौंर और नव-विद्वेषी ( Conservative ) बना देती है अर्थात् इनमें शिक्षा पाये हुए पुरुषों में उपकरणहीनता तथा नूतन मार्गावलंबियों के विद्वेष का दोष आ जाता है ।

१६६२ में रॉयल सोसायटी की स्थापना और उसके द्वारा वेकन के स्वप्न अर्थात् 'न्यू एटलांटिस' नामक पुरतक में उल्लिखित बातों को कार्य-रूप में परिणत करने के प्रयत्नों का हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं। तत्पश्चात् समस्त अठारहवीं शताब्दी में भौतिक पदार्थ एवं उनकी गति-संबंधी साधारण धारणाएँ बहुत कुछ स्पष्ट हो गई थीं, गणित-शास्त्र के साथ ही साथ अणुवीक्षक यंत्र और दूरदर्शक यंत्र में व्यवहृत होनेवाले दृग्-संबंधी काँच ( Optical glass ) में भी स्थिरता-पूर्वक उन्नति हो रही थी; स्थावर-जंगम वर्गीकरण शास्त्र में अधिक उत्साह से कार्य हो रहा था, और हो रहे थे शरीर-संबंधी विज्ञान के पुनर्जीवित करने के प्रबल प्रयत्न। यही नहीं, वरन् ऐरिस्टॉटिल को जिसका पूर्वाभास हुआ, और लियोनार्दो-द-विन्सी ( १४५२-१५१९ ) ने जिसका पूर्व निरूपण कर लिया था उसी भूगर्भ-शास्त्र ने अब चट्टानों का पुरावृत्त लोगों को समझाने का कार्य प्रारंभ कर दिया था।



लिवरपुल मैनचेस्टर रेलवे की पहले पहल की मालगाड़ियाँ, रेलवे का प्रारंभिक युग

भौतिक विज्ञान की उन्नति का प्रभाव धातुशोधन-क्रिया पर पड़ा और उसमें उन्नति होने पर धातुओं तथा अन्य पदार्थों के पिंडों को पहले की अपेक्षा अधिक एवं विस्तृत रूप से व्यवहार में लाने की संभावना का सुयोग मिला और इसके कारण व्यवहारोचित आविष्कारों में उन्नति हुई जिससे औद्योगिक व्यवसायों में क्रांति उत्पन्न करनेवाले नवीन यंत्रों का निर्माण अभूत-पूर्व पैमाने पर बहुतायत से होने लगा।

वाष्प यंत्र ( Steam-engine ) में योजनाएँ कर, सर्वप्रथम द्रैविथिक ने बारबरदारी के योग्य एक चलनशील वाष्प-प्रेरित यंत्र ( Locomotive Steam engine ) १८०४ में बनाया था। १८२५ में स्टॉकटन और डारलिंगटन के मध्य पहली बार रेल की सड़क खोली गई और उस पर स्टिफैनसन का बनाया हुआ 'रॉकेट' ( Engine ऐंजिन ) तेरह टन बोझवाली गाड़ियाँ लेकर चौआलीस मील प्रति घंटा के वेग से चला था। १८३० के पश्चात् रेल की सड़कों में उन्नति हुई और शताब्दी का अर्ध भाग बीतते-बीतते प्रायः समस्त यूरोप में इनका जाल बिछ गया था।

स्थल पर गति-परिमाण की अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही मानव-मर्धादा में इस आविष्कार के कारण सहसा परिवर्तन हो गया। नैपोलियन को रूस में अपने ऊपर आई महान् आपत्ति के समय विलना से पैरिस लौटने में ३१२ घंटे लगे थे। यह यात्रा लगभग १४०० मील की थी और प्रत्येक प्रकार की सुविधा होने पर भी उसकी गति उपरोक्त हिसाब से सामान्यतः पाँच मील प्रति घंटा से कम बैठती है। साधारण यात्री तो यह यात्रा इससे दुगुने समय में भी न कर सकता था। ईसा की प्रथम शताब्दी में रोम से गॉल तक यात्रा की गति का जो परिमाण था, प्रायः वही इस समय था। इसके पश्चात् ही सहसा यह महान् परिवर्तन हुआ। और रेल द्वारा एक साधारण पुरुष भी इतनी लंबी यात्रा अड़तालीस घंटे से कम में समाप्त करने लगा; इसका अर्थ दूसरे शब्दों में यह हुआ कि यूरोप के प्रधान स्थानों की दूरी घटकर पहले की अपेक्षा अब  $\frac{1}{10}$  रह गई थी, इसी कारण अब पहले की अपेक्षा दसगुने अधिक भू-भाग पर भी एक देश के लिए शासन करना संभव हो गया। इस आविष्कार के कारण यूरोप में क्या क्या और लाभ संभवनीय हैं, इसका अनुभव अभी विचार-कोटि में है। सड़कों और घोड़ों के युग में निर्मित सीमाजाल अभी तक यूरोप में विद्यमान है। अमेरिका को इसका फल तुरंत मिला। पश्चिम की ओर अग्रसर होनेवाले संयुक्त राज्यों के लिए इसका अर्थ दूसरे शब्दों में यह था कि महाद्वीप में सीमा चाहे जितनी दूर बढ़कर पहुँच जाय परंतु वाशिगटन पहुँचना वैसा ही सुगम रहा। इसी आविष्कार के कारण वहाँ ऐसा घनिष्ठ ऐक्य स्थापित हो गया जो किसी अन्य प्रकार से होना शक्य न था।


प्रारंभ में 'स्टीम बोट' (अर्थात् भाप द्वारा चलनेवाली नाव) की दशा आदि-कालीन स्टीम इंजिन से अपेक्षाकृत अधिक उन्नत थी। क्लाइड-खाड़ी नहर में (Firth of Clyde) शार्लोट-डुंडाज़ (Charlotte- Dundas) नामक एक वाष्प द्वारा चलनेवाली नौका १८०२ में मौजूद थी; और १८०७ में न्यूयार्क से ऊपर की ओर हटसन नदी में फुलटन नामक एक अमेरिका-निवासी का क्लैरमोंट नामक स्टीमर चलता था जिसमें इंग्लिस्तान के बने हुए इंजिन काम करते थे। समुद्र में वाष्प द्वारा चलनेवाला फ्रिनिक्स नामक सर्वप्रथम जहाज़ अमेरिका का था जो न्यूयार्क (हॉबोकेन) से फ्रिलेटेल-क्रिया तक जाता था। इसी प्रकार ऐटलांटिक के सर्वप्रथम पार करनेवाला वाष्प-चालित (और पाल-संयुक्त) सैंवेनाह नामक जहाज़ भी इसी देश का था (१८१६)। ये समस्त जहाज़ चक्र-संचालित पतवार-संयुक्त (Paddle-wheel) थे जो लुन्ध सागर के लिए सर्वथा अनुपयुक्त हैं। कारण यह कि ऐसी दशा में पतवार तो तुरंत चूर-चूर हो जाते हैं और उनके टूटते ही जहाज़ बेकार हो जाते हैं। व्यावर्तन कौल

( Screw ) नामक यंत्र-विशेष का प्रचार तो जहाज़ों में बहुत धीरे-धीरे बढ़ा है । बहुत सी कठिनाइयों को पार करने के उपरांत यह यंत्र-विशेष व्यवहार-योग्य हुआ था । लगभग अर्ध शताब्दी बीत जाने के उपरांत वाष्प-चलित जहाज़ों का वहन-भार पाल-चालित जहाज़ों से अधिक बढ़ पाया था और उसके उपरांत समुद्र द्वारा आवागमन में अत्यंत उन्नति हो गई । समुद्र एवं महासागर को पार कर विदेश पहुँचने का तिथि-निर्णय भी सर्वप्रथम इसी समय कुछ-कुछ निश्चयपूर्वक किया जाने लगा । ऐटलांटिक पार की यात्रा—जो पहले भयंकर एवं अनिश्चित समझी जाती थी, और कई सप्ताह और कभी-कभी तो महीनों में समाप्त होती थी—अब शीघ्रता और सुगमता से समाप्त होने लगी । यहाँ तक कि १९१० में अत्यंत द्रुतगामी जहाज़ पाँच दिन से कम में ही इस राह को समाप्त कर निश्चित समय पर पहुँचने लगे ।

जिस समय जल तथा स्थल पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जानेवाले वाष्प-शक्ति-संचालित साधनों की उन्नति हो रही थी उसी समय वौल्टा, गैलवानी और फ़ैराडे की विद्युत्-संबंधी नवीन गवेषणा एक नवीन एवं आश्चर्यदायक रीति से मानव-संसर्ग को सुसाध्य बना रही थी । 'तार' द्वारा समाचार भेजना १८३५ में प्रारंभ हुआ, और सर्व-प्रथम इंग्लैंड तथा फ़्रांस के मध्य तार समुद्र-तल में १८५१ में डाले गये । इसके पश्चात् विद्युत् तार द्वारा समाचार भेजने की प्रथा का कुछ वर्षों में समस्त सभ्य-संसार में ऐसा प्रचार हुआ कि वे समाचार—जिनको प्राचीन काल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचने में बहुत समय लगता था—अब प्रायः एक साथ पृथ्वी के समस्त छोरों पर पहुँचने लगे ।

ये वस्तुएँ अर्थात् वाष्प-संचालित रेल तथा तड़ित्-प्रेषित समाचार, जो उन्नीसवीं शताब्दी के मध्यकालीन साधारण जनसमाज को अत्यंत ही क्रांतिकारी एवं आश्चर्यकारक प्रतीत होते थे, वास्तव में अत्यंत विशद परिणामयुक्त क्रम के अत्यंत स्पष्ट भद्दे एवं प्राथमिक फल थे । उस समय कला-कौशल-संबंधी ज्ञान और नैपुण्य में ऐसी द्रुत गति से विस्तार हो रहा था कि प्राचीनकालीन किसी उन्नति की उससे तुलना नहीं की जा सकती । सर्वप्रथम नित्यप्रति की जीवनक्रिया में भले प्रकार स्पष्ट न होते हुए भी, निर्माण-संबंधी पदार्थों पर मनुष्य का अधिकार—मानव-शक्ति का प्रसार होने के पश्चात् से अत्यंत ही महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुआ । अठारहवीं शताब्दी का अर्धभाग बीतने से प्रथम खानों के असम्कृत (Ore) लोहे को लकड़ी के कोयलों द्वारा गलाकर पृथक् किया जाता था तथा हथौड़ों से ठेक-पीटकर उसके छोटे-छोटे टुकड़ों की वस्तुएँ निर्माण की जाती थीं । और यह सब कारी-गर के हाथ की बात थी । लुहार जितना अधिक बुद्धिमान्, दक्ष और तजुबेकार होता था, लोहा तथा लोहे के बने पदार्थ भी उतने ही अधिक अच्छे होते थे । उस समय ( अर्थात्

सोलहवीं शताब्दी में) लोहे के दो या तीन टन से अधिक भारी टुकड़ों का वस्तु-निर्माण में उपयोग नहीं हो सकता था ! और इसी कारण अधिक भारी और बड़े आकार की तोपों का बनाना भी संभव न था । वायु द्वारा उत्तापित भट्टी\* ( Blast Furnace )



स्टीम बोट क्लैरमोंट

के अठारहवीं शताब्दी में आविष्कार एवं पत्थर के कोयले के व्यवहार से उसमें अपूर्व उन्नति हुई । लोहे की चादरें ( १७२८ ) और लोहे की छड़ें तथा डंडे ( १७८३ )

\* यह भट्टी कच्चे लोहे को अन्य धातुओं तथा अन्य मिश्रित पदार्थों से पृथक् कर शुद्ध करने के काम में लाई जाती है । कच्चे लोहे को खनिज कोयले तथा चूने के पत्थर के साथ खूब गरम करके पुनः उपरोक्त पदार्थों के मिश्रण को इस भट्टी में ऊपर की ओर से भर देते हैं । नीचे की ओर से प्रचंड तप्त वायु को, जिसकी उष्णता ६०० से ९०० डिग्री तक होती है, एंजिन द्वारा प्रवाहित करते हैं । भट्टी में उत्पन्न हुई वायुओं को दूसरे छिद्र द्वारा निकाल देते हैं । इस प्रकार लोहा पिघलकर नीचे से द्रुत लोहे के रूप में निकाला जाता है । प्रचंड तप्त वायु द्वारा गरम किये जाने के कारण इस भट्टी को ब्लास्ट फ़रनेस कहते हैं ।



अठारहवीं शताब्दी से प्रथम निर्माण न हो सके थे। और वाष्प द्वारा चलनेवाला नैसमिथ का हथौड़ा\* तो कहीं १८३८ में बनाया गया है।

धातुशोधन-संबंधी ज्ञान न्यून होने के कारण प्राचीन समय में वाष्प का उपयोग न हो सकता था। वाष्प-संचालित एंजिन तो क्या पानी देनेवाले प्राथमिक एंजिनों तक की, लोहे की चादरें अप्राप्य होने से, उस समय उन्नति न हो सकती थी। उन एंजिनों को केवल देखने ही से आधुनिक नेत्रों को तत्कालीन भद्दी और हीन अयस्कारी ( लुहारी ) का पता चलता है; परन्तु धातु-शोधन-विज्ञान के अत्यन्त परिमित होने के कारण उस समय और अधिक उन्नति असभव थी। अब हाल ही में अर्थात् १८५६ में कहीं† वैस्समर की वैज्ञानिक विधि का आविष्कार हुआ है और १८६४ में Open Hearth Process:‡ अर्थात् खुली भट्टी की विधि का।

नवीन प्रणाली के प्रचलित होने के कारण प्रत्येक प्रकार का इस्पात और लोहा गला साफ़ कर अभूतपूर्व परिमाण और विधि से ढाला जा सकता है। आजकल तो आप विद्युत्-भट्टियों में शतशः टन ( १ टन में २८ मन होते हैं ) अत्युष्ण इस्पात कड़ाही में उबलते दूध के समान नित्यप्रति खौलता देख सकते हैं। स्टील और लोहे की महान्

\* विशेष शक्ति से घन पर गिरनेवाला वाष्प-हथौड़ा:—एक सिलिंडर (Cylinder) जो हथौड़े से जुड़ा होता है वाष्प के प्रवाह से इच्छित ऊँचाई तक उठता है। पुनः वाष्प के निस्सरण से हथौड़ा घन पर बड़े वेग से गिरता है। इस वेग में पृथ्वी का आकर्षण ही नहीं प्रत्युत वायुशक्ति का प्रयोग भी काम करता है। यदि सिलिंडर स्थायी हो और हथौड़ा पिस्टन से बद्ध हो तो वह उपरोक्त प्रकार का हथौड़ा कहलाता है।

† लोहे से फ़ौलाद बनाने की क्रिया—यह विधि सस्ती है। बड़े कड़ाह में, जो नाशपाती के आकार का होता है, ढला हुआ लोहा भरकर तीव्र वायु का प्रवाह तली के छिद्र द्वारा पहुँचाया जाता है जिससे लोहे का मैल जल जाता है। फिर धुले हुए लोहे में कोयला और मैंगनीज़ मिश्रित सफ़ेद लोहा ( जो Spiegel स्पिजिल नाम से विख्यात है ) मिलाकर वायु प्रभाव द्वारा पुनः मिला दिया जाता है और जो पदार्थ बनता है वह फ़ौलाद है।

‡ वह लोहा, जिसमें अन्य पदार्थ बहुत मात्रा में मिले नहीं होते, पिघलाकर एक कोठरी में वायु-प्रवाह द्वारा भेजा जाता है और ढंडा होकर वह लोहा बाहर निकल जाता है, मैल जमकर वही रह जाता है। लोहा साफ़ करने की यह विधि ( जो विशेषतया सीसा साफ़ करने की क्रिया है ) उपर्युक्त नाम से विख्यात है।

राशियों के मनुष्य इस समय जिस प्रकार उपयोग में ला इच्छानुसार उत्तम रंग रूप प्रदान कर सकते हैं, उसके मुकाबिले में तद्विषयक अतीत-कालीन मानवोन्नति नहीं के बराबर है। रेल तथा प्रारंभिक एंजिन तो इस नवीन धातु-शोधन-क्रिया में प्राथमिक विजय-चिह्न मात्र थे। इसके पश्चात् लोहे और स्टील के जहाज़, लवे-चौड़े पुल और नवीन पद्धति के स्टील-संयुक्त भीमकाय भवन भी निर्माण होने लगे। सुदीर्घ काल पश्चात् मनुष्यों के यह पता चला है कि बहुत बड़े पैमाने पर चौड़ी-चौड़ी पटरियाँ डाल सुख-दायक रेल-गाड़ियाँ न बनाकर उन्होंने भीरुता-वश सँकरी पटरियों पर अत्यंत ही लुद्र रेल बना डाली है।


जहाँ उन्नीसवीं शताब्दी से पूर्व संसार में २००० टन से अधिक बोझ ढोनेवाला एक भी पोत न था, वहाँ अब ५०००० टन का जहाज़ देखकर भी किसी के तनिक सा भी आश्चर्य नहीं होता। ऐसे पुरुष भी इस समय विद्यमान हैं जो इस प्रकार की उन्नति के 'आकारों की उन्नति' वता अवशा-पूर्वक उपहास कर बैठते हैं; परंतु इससे केवल उनके संकुचित और परिमित बुद्धिबल का आभास मिलता है। आजकल के बड़े-बड़े पोत अथवा स्टील के ढाँचे के भव्य भवन अतीतकालीन लुद्र पोतों अथवा मकानों के विशद एवं बड़े हुए प्रतिरूप नहीं हैं, जैसा कि ये पुरुष विचार करते हैं। वरन् ये तो पदार्थ ही दूँते हैं। अधिक उत्तम और दृढ़ धातुओं द्वारा निर्मित होने के कारण एक तो ये उनसे कहीं हलके और अधिक मज़बूत होते हैं, दूसरे इनमें प्राचीन परिपाटी का अनुसरण एवं हस्तलाभ ही नहीं वरन् (इनमें तो) अत्यंत कुशाग्र बुद्धि एवं दुर्वोध गणनाओं की भी अत्यंत आवश्यकता है। प्राचीन जहाज़ों अथवा मकानों में तो प्रधानता थी तत्त्वों की, भौतिक पदार्थों की और इन्हीं भौतिक पदार्थों और तत्संबंधी अन्य आवश्यकताओं के दासवत् स्वीकार करने की; परंतु वर्तमान काल में वे भौतिक पदार्थ बरबत बंदी कर बल-पूर्वक दबाये एवं परिवर्तित किये गये हैं। सोचिए तो सही कहाँ खानों का कोयला, लोहा तथा नदी एवं समुद्र तट का रेता और कहाँ जनाकीर्ण नगरों की ६०० फ़ीट ऊँची लौह-काच-निर्मित तुंग अट्टालिकाएँ! परंतु बुद्धिबल द्वारा तट तथा खानों से बल-पूर्वक रींच, कूट-पीट तथा गला-साफ़ कर—साँचे द्वारा आकार-प्रकार दे, परिवर्तित कर—अंत में वही, इतनी ऊँचाई पर पहुँचा दिया जाता है।

हमने इस्पात-शोधन-संबंधी मानव-ज्ञानोन्नति तथा उनके परिणाम का उल्लेख उदाहरण रूप से विस्तार-पूर्वक कर दिया है। उन्नीसवीं शताब्दी से पूर्व अज्ञात निकल और ऐल्यूमिनियम आदि का तथा ताँबा, राँगा आदि अनेक धातुओं का शोधन-विधि का वर्णन भी इसी के समान किया जा सकता है। इन द्रव्यों तथा विविध भाँति के काच, चट्टान,

लेप और रंग तथा वस्त्रों पर दिन प्रतिदिन अधिक प्रभुत्व प्राप्त करने के कारण ही यंत्र-क्रांति ( Mechanical Revolution ) में इतनी सफलता मिली है। परंतु स्मरण रखना चाहिए कि अभी तक हम प्राथमिक फल ही प्राप्त कर सके हैं। शक्ति तो हममें है, परंतु उसका किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए यह हमको अभी और सीखना है। विज्ञान-रूपी वृक्ष के बहुत से फलों को हमने असभ्यों और मूर्खों की भाँति मिथ्या शोभा-प्रदर्शन हेतु ही बड़ी भद्दी एवं भयावह रीति से व्यवहार किया है। शिल्पियों तथा संयोजकों ने उन अनंत भाँति के पदार्थों को, जो हमारी इच्छा पर नाचते हैं, यथावत् व्यवहार करना अभी नहीं सीखा है।

यंत्र-शास्त्र के संभावित प्रयोग के प्रसार के साथ ही साथ नवीन विद्युत्-विज्ञान में भी उन्नति हुई; परंतु उन्नीसवीं शताब्दी के लगभग अस्सी वर्ष बीत जाने के पश्चात् ही जनसाधारण के मस्तिष्क में इन आविष्कारों के परिणाम का प्रभाव हुआ था। तदनंतर सहसा विद्युत्-प्रकाश, विद्युद्बहन और विद्युत् का रूपांतर करने की संभावना का साधारण मनुष्यों को ज्ञान हुआ और यह भी उनके हृदयंगम हो गया कि यह शक्ति इच्छानुसार यंत्र-चालन, प्रकाश अथवा उष्णता में परिवर्तित हो प्रयुक्त की जा सकती है, एवं नल के जल की भाँति ताँबे के तार द्वारा स्थानांतरित भी हो सकती है।

अंगरेज़ और फ्रांसीसी लोग ही इस अनंत-फल-दायक ज्ञान के सर्व-प्रथम नेता और अग्रणी थे। परंतु नैपोलियन की अधीनता में नम्रता का पाठ पढ़नेवाली जर्मन जाति ने



अठारहवीं शताब्दी का चर्ख़ा

शिक्षा-प्रणाली में जैसुआइट ( कैथोलिक सम्प्रदाय का दल-विशेष ) सिद्धांतों की साहित्यिक

भी वैज्ञानिक गवेषणाओं में ऐसे अदम्य उत्साह और लगन से काय किया कि ये बुढ़े नेता भी पिछड़ गये। यह भी स्मरण रखने योग्य है कि अंगरेज़ और स्कॉट वैज्ञानिकों ने पांडित्य के केन्द्रों से प्रायः पृथक् रहकर ही वृद्धि ज्ञान की सृष्टि की थी।

ब्रिटेन के विश्वविद्यालय, इस समय ग्रीक और लैटिन साहित्य के पांडित्य-पूर्ण अध्ययन में निमग्न होने के कारण शिक्षा को अवनति की ओर ले जा रहे थे; और फ्रांस की

परंपरा का प्राधान्य था, अतएव वैज्ञानिक निरूपकों के एक बड़े समूह को सुसज्जित करने में जर्मनी को तनिक सी भी कठिनाई न हुई। ये समूह ( अर्थात् जर्मन वैज्ञानिक ) कार्य की महत्ता की दृष्टि से तो अवश्य कम थे परंतु इन थोड़े से अंगरेज तथा फ्रांसीसी आविष्कारकों और प्रयोग-कर्त्ताओं के अनुपात से कहीं अधिक बड़े थे। इन गवेषणाओं और प्रयोगों के कार्य ने फ्रांस और इंग्लैंड को तो संसार में अत्यंत धनाढ्य एवं शक्तिशाली बना दिया; परंतु वैज्ञानिक एवं आविष्कारक धन एवं बल को प्राप्त न कर सके। सच्चे वैज्ञानिक तो संसार के ऐश्वर्य से सर्वथा उदासीन रहते हैं। अपनी गवेषणाओं में संपूर्णतया लीन रहने के कारण उसके द्वारा धनागम के उपायों को सोचने का उनको अवकाश ही नहीं मिलता। अतएव उनके आविष्कारों द्वारा अर्थलाभ करने का अवकाश तो सहज ही में उन्हीं को मिलता है जो स्वभावतया अधिगमनशील बुद्धि से युक्त होते हैं। यही कारण है कि वैज्ञानिक एवं कला-कौशल-संबंधी उन्नति के प्रत्येक नवीन अवसर पर उत्पन्न होनेवाले इंग्लैंड के धनाढ्य-वर्ग ने सोने का अंडा देनेवाली जातीय मुर्गी का—साहित्यिकों तथा पुरोहितों के समान वास्तविक रूप से—अपमान एवं हत्या करने में उत्साह प्रदर्शित न कर इस लाभदायक प्राणी को भूखा मारने ही में संतोष प्रकट किया है। वैज्ञानिकों और आविष्कारकर्त्ताओं की सृष्टि तो उनके मतानुसार अधिक चतुर पुरुषों के लाभार्थ ही हुई है।

जर्मन इस विषय में कुछ अधिक बुद्धिमान् थे। वहाँ के विद्वानों ने, इस नवीन ज्ञान से इतनी घृणा न होने के कारण, इसकी उन्नति होने दी। जर्मन व्यापारी तथा पक्का माल तैयार करनेवाले—अपने प्रतिस्पर्धी अंगरेजों की भाँति—विज्ञानवेत्ताओं को हेय न समझते थे। जर्मनों का विश्वास था कि विद्या भी कृपि की भाँति खाद मिलने पर अधिक फल-फूल सकती है; इसी कारण उन्होंने वैज्ञानिक मस्तिष्कों को यथेष्ट अवसर दे, अन्य सार्वजनिक विभागों की अपेक्षा वैज्ञानिक विभाग में कहीं अधिक धन-व्यय किया। और इस परिश्रम तथा व्यय का उनको प्रचुर फल भी मिला। उन्नीसवीं शताब्दी का उत्तरार्ध आते न आते, जर्मन वैज्ञानिकों की उन्नति के कारण जर्मन भाषा का ज्ञान विज्ञान के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए, जो अपने विभाग में अत्यंत अर्वाचीन प्रयोगों की जानकारी का इच्छुक था, आवश्यक हो गया था। विज्ञान की कुछ शाखाओं और विशेष कर रसायनशास्त्र में जर्मनी ने अपने पश्चिमीय पड़ोसियों की अपेक्षा कहीं अधिक उन्नति कर ली थी। १८६०-७० में किये हुए प्रयत्नों का फल जर्मनी को १८८० के लगभग मिलना प्रारंभ हुआ और कला-कौशल तथा औद्योगिक वैभव के लिहाज़ से यह देश फ्रांस और इंग्लैंड दोनों ही को उत्तरांतर परारत करता गया।

## औद्योगिक क्रांति


जो मानवीय अनुभव में एकदम नई वस्तु थी, सुव्यवस्थित वैज्ञानिक उन्नति से जिसका जन्म हुआ था, जो कृषि-आविष्कार अथवा धातु-ज्ञान के सदृश एक नवीन चरण-पात था, उसी यन्त्र-क्रांति को बहुत सी इतिहास-पुस्तकों में अन्य एवं सर्वथा भिन्नोद्गमयी औद्योगिक क्रांति नामधारी, सामाजिक और आर्थिक उन्नति से जिसका इतिहास में पूर्वोदाहरण मौजूद है, भ्रमवश मिला देने की कुछ टेव सी पड़ गई है। उपरोक्त दोनों क्रम अथवा परिपाटियों का प्रसार एक समय में हो रहा था और वह एक दूसरे को प्रभावित भी कर रही थीं; परंतु दोनों में मौलिक एवं तात्त्विक भेद था। अनेक प्रकार की औद्योगिक क्रांति तो कोयला, वाष्प-शक्ति और यन्त्रों के अभाव में भी संभव थीं, परंतु उस दशा में ये संभवतः रोम प्रजातंत्र की पश्चात्कालीन सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति के मार्ग का ही अनुकरण करतीं; अर्थात् इनमें भी वही लुताधिकार-स्वतंत्र कृषक, दलबंद श्रमिक, बड़ी-बड़ी ज़मींदारियाँ, आर्थिक संपदा एवं समाज-विनाशक आर्थिक परिपाटियों की पुनरावृत्ति होती। शक्ति-प्रयोग (Power) एवं यन्त्र-ज्ञान से प्रथम शिल्पगृह-पद्धति (Factory method) का जन्म हो चुका था। और इन शिल्पशालाओं का आधार थी श्रम-विभाग की व्यवस्था, न कि यंत्र-कला। औद्योगिक कार्यों के लिए जल-चक्र-प्रयोग करने से पहले ही, सीखे हुए मज़दूर-दल पसीना बहाते, स्त्रियों के उपयुक्त परिच्छद, पट्टे के बक्स, उपकरण, रंग-बिरंगे मानचित्र तथा पुस्तकों के लिए चित्र इत्यादि-इत्यादि अन्य वस्तुएँ तैयार किया करते थे। सम्राट् ऑगस्टस के समय में भी रोम में ऐसी बहुत सी शालाएँ विद्यमान थीं। उदाहरणार्थ— पुस्तक-विक्रेताओं की शालाओं में ही बोल-बोलकर नवीन पुस्तकें पंक्तिबद्ध लेखकों को लिखाई जाती थीं। फ़ील्डिंग (Fielding) की राजनैतिक लुद्र पत्रिकाओं और डैफ़ो के लेखों को ध्यानपूर्वक पढ़नेवाले पाठक समझ सकते हैं कि सत्रहवीं शताब्दी का अन्त होने से प्रथम स्वयं ब्रिटेन ही में निर्धन पुरुषों को उनके निर्वाह के लिए एक ही स्थान में एकत्रित

कर काम लेने का विचार जन-साधारण की समझ में भले प्रकार बैठ गया था। अधिक क्या लिखें, मूर की यूटोपिया नामक पुस्तक लिखे जाने के समय (१५१६) सर्राखे अर्थात् काल में भी जनता में इन विचारों का चिह्न मौजूद था। परंतु यह सब सामाजिक उन्नति थी, यंत्र-संबंधी नहीं।

ईसा मसीह से पूर्व की तीन शताब्दियों में रोम-राज्य जिस पथ पर चला था उसी मार्ग का अनुसरण पश्चिमीय यूरोप के सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास ने भी अठारहवीं शताब्दी का अर्धभाग बीत जाने तक किया। परंतु वहाँ के राजनैतिक विभेद, व्यक्तिगत शासन के विरुद्ध राजनैतिक लोभ, जन-साधारण का विद्वेष और संभवतया पश्चिमीय जातियों के लिए अधिक सुलभ, यंत्र-संबंधी विचार तथा आविष्कारों के कारण इस परिपाटी ने एक सर्वथा नवीन मार्ग का अनुसरण किया। इसके अतिरिक्त एक तो क्रिश्चियन धर्म के प्रभाव से नवीन यूरोपीय जगत में समस्त मानव-समाज की समानता के भाव अधिक व्यापक हो गये थे और दूसरे राजनैतिक शक्ति भी पूर्ववत् केन्द्रस्थ न थी। इसलिए धनों पार्जन के इच्छुक साहसी पुरुषों की चित्तवृत्तियाँ दास्य एव दलबंद मज़दूर (Gang Labour)-प्रथा-विषयक प्राचीन विचारों को अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक त्यागकर यंत्र (Machine) एवं यंत्र-शक्ति (Mechanical Power) की ओर झुक गईं।

यंत्र-क्रांति अर्थात् यंत्रों का आविष्कार और उपलब्धि मानव-अनुभव में एक नवीन वात थी और राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्रों पर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बात की सर्वथा उपेक्षा करके वह उत्तरोत्तर उन्नति करती गई। इसके विपरीत मनुष्य के अन्य व्यवहारों के सदृश औद्योगिक क्रांति तो मानव-दशा में यंत्र-क्रांति-जनित भेद पड़ने के कारण अत्यंत परिवर्तित एवं विचलित हुई है और हो रही है। रोम प्रजातंत्र की अंतिम शताब्दियों में होनेवाले द्रव्य-संचय, लुद्ध किसानों एवं व्यापारियों के अंत तथा महान् पूँजीपतियों के युग में और उसी के समान अठारहवीं तथा उन्नीसवीं शताब्दी के पूँजी-केन्द्रीकरण में भेद केवल श्रम के रूप और दशा का है जो यंत्रों में क्रांति के कारण उत्पन्न हो रहा था। प्राचीन संसार की शक्ति तो मनुष्य-बल पर निर्भर थी। लोगों को उस समय धरने प्रत्येक व्यवहार में भुजबल और वह भी अनजान एवं परार्थीन व्यक्तियों के बल का ही अंत में आसरा लेना पड़ता था। बोझ ढोनेवाले बैलों एवं खींचनेवाले घोड़ों तथा अन्य ऐसे पशुओं की शक्ति का भी इसमें थोड़ा सहारा ले लिया जाता था। बोझ उठाते थे तो मनुष्य और चट्टान काटते थे तो मनुष्य। खेती की आवश्यकता होती थी तो मनुष्य और बैल हल चलाते थे। वर्तमानकालीन वाष्पपोतों के स्थान में रोमवालों के पास पत्नीना

बहा रहे दंडित-दास नाविकों द्वारा खेये जानेवाले लुद्र जलयान थे। अतीत सभ्यकाल में अधिकांश मानव-जाति के कृत्य केवल शारीरिक श्रम एवं कष्ट उठाकर ही संपादित होते थे। कलाशक्ति (Power) संचालित यंत्रों के आविष्कार के प्रारंभ में विवेचनाहीन श्रम से छुटकारा पाने की कोई संभावना दृष्टिगोचर न होती थी। और नहरे खोदने, रेल की राह बनाने और बांध इत्यादि तैयार करने में नर-समूहों का उपयोग किया जाता था। खनन-कार्य में भी मनुष्यों की संख्या उत्तरोत्तर बहुत बढ़ गई। मानव-सुविधाओं के विस्तार एवं विविध वस्तुओं के उत्पादन में पहले से कहीं अधिक उन्नति हो गई। उन्नी-




### दास-विक्रय-युग की एक घटना

सवीं शताब्दी के जैसे जैसे अधिक वर्ष बीतते गये, तैसे-तैसे इस नई परिस्थिति का प्रभाव भी मानव-जाति पर अधिकाधिक स्पष्ट होता गया। विवेचनाहीन श्रमकार्य में मनुष्य अब सर्वथा अनावश्यक हो गया। जो कार्य केवल मनुष्य-श्रम द्वारा संपादित होता था वही अब यंत्रों द्वारा और भी अधिक सुगमता और शीघ्रता से पूरा किया जाने लगा। विवेक एवं बुद्धि द्वारा संपादित होनेवाले कार्यों के लिए ही अब मनुष्यों की आवश्यकता शेष रह गई। अथवा दूसरे शब्दों में इसको यों भी कह सकते हैं कि मनुष्य अब केवल मनुष्यत्व के लिए ही शेष

रह गया था। प्राचीन सभ्यता के आधार प्रयोजन-हीन मस्तिष्कवाले नर-शरीरधारी आज्ञा-नुवर्ती कायिक श्रमी रूप जंतु अब मानव-कल्याण के लिए सर्वथा अनावश्यक हो गये।

यह ध्रुव सत्य कृषि तथा खान खोदने आदि प्राचीन उद्यमों से लेकर अत्यंत नवीन धातुशोधन क्रिया तक सभी कार्यों में एक सा घटित होता है। खेती के जोतने-बोने और काटनेवाले वीसियों मनुष्यों का कार्य अब केवल तीव्र यंत्रों द्वारा हो जाता है।



प्रारम्भिक काल का कारखाना ( कोलम्बुकडेल में )

रोमन-सभ्यता जहाँ सस्ते और अवनत मनुष्यों के आधार पर स्थापित थी वहाँ आधुनिक सभ्यता का पुनर्निर्माण उत्पादित सस्ती यंत्र-शक्ति पर रहा है। लगभग सौ वर्ष से कला शक्ति (Power) तो दिन-दिन सस्ती हो रही है और मज़दूर मँहगे। यदि एक अथवा अनेक पीढ़ियों तक मशीनों का उपयोग नहीं हुआ तो उसका कारण यह था कि उस समय मानव शक्ति कलाशक्ति (Power) से सस्ती थी।

फिर मानव-व्यवहार-विषयक महान् परिवर्तन हो गया। अतीतकालीन सभ्यता में धनाढ्य एवं शासक दोनों ही हीनवृत्ति दासों का संचय करने के लिए प्रधानतया



उत्सुक रहा करते थे। परंतु उन्नीसवीं शताब्दी ज्यों-ज्यों बीतती गई त्यों-त्यों बुद्धिमानों को अधिकाधिक स्पष्ट होता गया कि हीनवृत्ति दासों की अपेक्षा जनसाधारण को अधिक उत्तम होना उचित है। यदि और किसी कारण से नहीं तो कम से कम 'औद्योगिक दक्षता' प्राप्त करने के लिए तो मनुष्य को शिक्षित होना ही चाहिए; और उसके यह तो जानना ही चाहिए कि वह क्या कर रहा है। वैसे तो जिस प्रकार एशिया में इस लाभ के प्रचार के साथ ही साथ धर्मानुयायियों में धार्मिक विश्वास द्वारा परलोक सुधारने और पवित्र पुस्तक के पाठ द्वारा धार्मिक विचारों का प्रचार करने के लिए कुछ न कुछ शिक्षाग्नि सुलगी थी, ठीक उसी प्रकार यूरोप में भी क्रिश्चियन धर्म-संबंधी सर्वप्रथम आंदोलन के प्रारंभ ही से सार्वजनिक शिक्षा की अग्नि मंद गति से बल रही थी। और क्रिश्चियन धर्म-संबंधी वाद-विवादों द्वारा अनुयायियों की संख्या बढ़ाने की इच्छा से जनसाधारण-रूपी भूमि को सार्वजनिक शिक्षा-रूपी उपज के लिए जोता भी गया। उदाहरण-तया इंग्लैंड ही में उन्नीसवीं शताब्दी की तीसरी और चालीसवीं का अंत होते न होते विविध पंथों ने पारस्परिक विद्वेष के कारण और युवा पुरुषों को अपनी ओर खींचने की इच्छा से बालकों को शिक्षा देने के लिए चर्च की जातीय (National) पाठशालाएँ, विरोधी 'वृटिश पाठशालाएँ' और रोमन कैथोलिक 'प्रारंभिक पाठशालाएँ' भी प्रतिस्पर्धावश स्थापित कर दी थीं। परंतु उन्नीसवीं शताब्दी का उत्तरार्ध तो समस्त पश्चिमीय संसार में सार्वजनिक शिक्षा की उन्नति का समय था। इसके समान उच्च वर्गों में शिक्षा की उन्नति नहीं हुई, थोड़ी-बहुत उन्नति उनमें अवश्य हुई परंतु इस महान् प्रगति के सामने वह नहीं के बराबर थी और इसी कारण पढ़ों और अनपढ़ों का संसार में उस समय तक पृथक् करनेवाली महान् खाड़ी भी प्रायः पट गई थी। अर्थात् ऊँच तथा नीच वर्गों में शिक्षा-संबंधी भेद घटकर बहुत ही न्यून रह गया था। इस परिवर्तन का भीतरी कारण तो वही यंत्र-क्रांति क्रम था जो सामाजिक अवस्थाओं की तनिक सी भी परवा न कर समस्त जगत् से निरक्षरता का नाम-निशान तक अत्यंत निर्दयता-पूर्वक मिटा देने का घोर प्रयत्न कर रहा था।

रोम प्रजातंत्र की आर्थिक क्रांति को वहाँ के जनसाधारण भली भाँति कभी न समझ सके। रोम की साधारण प्रजा तत्कालीन परिवर्तनों को हमारे समान व्यापक एवं स्पष्ट रूप से नहीं देख सकी। परंतु उन्नीसवीं शताब्दी के अंत तक हुई इस औद्योगिक क्रांति से प्रभावित जनसाधारण इसको एक समस्त क्रम अनुमान कर दिन प्रति दिन अधिकाधिक-अधिक-दृष्टता से देखने लगे। कारण यह कि एक तो पढ़ने, वादाविवाद एवं विचार-वस्तुओं को अपनी आँखों से अभूतपूर्व प्रकार से

## आधुनिक राजनैतिक एवं सामाजिक विचारों का विकास

अतीत सभ्यताओं की संस्थाओं, परंपराओं एवं राजनैतिक विचारों का उद्देश्य अथवा पूर्ण निरूपण किये बिना ही युग युग में शनैः शनैः वृद्धि हुई थी। ई० पू० छठी शताब्दी, मानव-जातियों के यौवन-दशा प्राप्त करने की वह महान् शताब्दी थी जब पुरुषों ने पारस्परिक संबंध के विषय में स्पष्टता से विचार करना प्रारंभ किया। और उसी समय मानव-शासन-संबंधी निर्णय विश्वासों, नियमों और पद्धतियों पर आपत्ति उठा उनको परिवर्तित एवं पुनर्व्यवस्थित करने पर विचार किया गया।

यूनान और ऐलेक्ज़ैंड्रिया के मानसोत्कर्ष-रूपी महोज्ज्वल उषःकाल का हम ऊपर वर्णन कर चुके हैं। और यह भी बता चुके हैं कि दासप्रथावाली सभ्यताओं के लय, और धार्मिक असहिष्णुता तथा अनियमित शासन के बादलों का अंधकार तत्कालीन आशा-छटा पर शीघ्र ही छा गया। तदनंतर निर्भय विचारों का प्रकाश उस यूरोपीय अंधकार को पन्द्रहवीं और सोलहवीं शताब्दी से पूर्व पुनः पूर्णतया छिन्न-भिन्न न कर सका। अरब-जिज्ञासा एवं मंगोलविजय-रूपी प्रचंड वायु ने यूरोपीय मानसिक आकाश-मंडल को धीरे-धीरे स्वच्छ करने में क्या भाग लिया है, इसके कुछ वर्णन का हमने प्रयत्न किया है। सर्व-प्रथम भौतिक ज्ञान की ही मुख्यतया वृद्धि हुई थी। भौतिक बल एवं उन्नति ही मानव-जाति की पुरुषत्व-प्राप्ति का प्राथमिक फल था। मानव-पारस्परिक संबंध-शास्त्र, वैयक्तिक तथा सामाजिक मानव-विज्ञान (Psychology) और शिक्षा तथा अर्थ-शास्त्र-विज्ञान तो अत्यंत सूक्ष्म एवं दुर्बोध होने के अतिरिक्त मानव-भावनाओं से अनुद्धार्य रूप से सम्यक् हैं और यही कारण है कि इनकी विकास-गति मंद एवं विरोधाकर्षी थी। हम मनुष्यों का स्वभाव है कि तारा (Stars) और अणु (Molecules) के संबंध में तो एक दूसरे से सर्वथा विपरीत उक्तियों को अत्यंत शांति-पूर्वक सुन लेते हैं, परंतु अपने जीवन-संबंधी विचारों की चर्चा होते ही हम मर्माहत-से हो एक दूसरे की आलोचनाएँ करने लग जाते हैं।

यूनान में जिस प्रकार प्लेटो की साहसपूर्ण धारणाएँ ऐरिस्टोटिल की “सत्य की खोज” से प्रथम प्रकट हुई थीं, ठीक उसी प्रकार यूरोप में भी नवीन युग की प्रथम राज-नैतिक मीमांसाओं को—प्लेटो-लिखित, प्रजातंत्र (Republic) और नियम (Laws) नामक ग्रंथों का अनुकरण कर—यूटोपिया की कहानियों के रूप में लिखा गया था। सर टॉमस मोर की यूटोपिया प्लेटो का अत्यंत ही आश्चर्यजनक अनुकरण है जिसके फल-स्वरूप इंग्लिस्तान में (Poor Law) निर्धन-संबंधी एक नवीन विधान का निर्माण हुआ। नैपिल्स-निवासी कैम्पवैला की, सूर्यनगर (City of the Sun) नामक पुस्तक, जो अत्यंत अधिक असंगत थी, और निष्फल रही।

प्रचुर एवं उन्नतिशील राजनैतिक तथा सामाजिक विज्ञान-संबंधी साहित्य की सृष्टि सत्रहवीं शताब्दी का अंत होने तक हो रही थी। इस संबंध में एक प्रजातंत्रवादी अंगरेज़ का पुत्र—अॉक्सफ़ोर्ड का विद्यार्थी—जॉहन लॉक भी मार्ग-दर्शकों में गिना जाता था। इसने प्रथम अपना समय रसायन एवं आयुर्वेद-शास्त्र के अध्ययन में व्यतीत किया था। शासन-प्रणाली, सहिष्णुता और शिक्षा-संबंधी विषयों पर इसकी पुस्तकें देखने से पता चलता है कि सम्भाव्य सामाजिक संगठन के संबंध में इसका मस्तिष्क कैसा सतर्क था। इंग्लैंड के जॉन लॉक के कुछ समय पश्चात् उसी के समान फ्रांस-निवासी मॉनटैस्क (१६८९-१७५५) सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक संस्थाओं का अत्यन्त सूक्ष्म एवं मौलिक रूप से विश्लेषण कर रहा था। यहाँ तक कि फ्रांस के अनियमित व्यक्तिगत शासन और चिर-प्रतिष्ठित परंतु ऐंद्रजालिक गौरव को भी उसने झिल्लके के सदृश चीरकर उतार फेंका। मानव-समाज को पुनर्संगठित करने के लोगों द्वारा किये गये दृढ़ एवं सतर्क प्रयत्न में जिन थोथे विचारों के कारण रुकावटें पड़ती थीं उन्हीं थोथे विचारों को लॉक के सदृश जड़ मूल से उखाड़कर फेंकने का श्रेय इस महापुरुष को भी प्राप्त है।


उसके द्वारा अठारहवीं शताब्दी के मध्य एवं अंतिम दशकों वाली उसकी उत्तर-कालीन पीढ़ियों ने बुद्धि एवं नीति संबंधी (उसके द्वारा किये हुए) विचार-शोधन पर दृढ़ता-पूर्वक परिकल्पनाएँ प्रारंभ कर दीं। और विद्यासागर (Encyclopædists) नामधारी प्रभावशाली लेखक-समूह ने तो—जो अधिकांश में जैसुआइट संप्रदाय की उत्तम पाठशालाओं में पढ़े हुए विद्रोह-भावना-युक्त थे—अब एक नये संसार की योजना पर विचार करना प्रारंभ कर दिया (१७६६) और इन विद्यासागर लेखकों के साथ ही साथ अर्थ-शास्त्री तथा (Physiocrats) भोज्य-शास्त्री भोजन-सामग्री एवं अन्य वस्तुओं की उत्पत्ति तथा सम विभाग करने के लिए भद्दी परंतु साहसपूर्ण गवेषणाएँ कर रहे थे। (कोड-द-ला-नेचर) प्राकृत चाय नामक तत्कालीन पुस्तक के लेखक मोरली (Morelly)

ने तो वैयक्तिक संपदा की समस्त व्यवस्था को धिक्कार कर समाज का समष्टिवाद संगठन करने की राय दी थी। उन्नीसवीं शताब्दी के—साम्यवादी कहकर पुकारे जानेवाले—विस्तृत एवं विविध पंथानुयायी दार्शनिकों एवं विचारकों का यही पुरुष वास्तव में अग्रयायी था।

साम्यवाद (Socialism) क्या है? साम्यवाद की सैकड़ों परिभाषाएँ हैं और साम्यवादियों के सहस्रों पंथ हैं, परन्तु साम्यवाद वास्तव में, सार्वजनिक कल्याण के दृष्टिकोण से, संपत्ति-विचार की विवेचना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस विषयक युग-युगांतर के इतिहास की अत्यंत संक्षेप में यहाँ आलोचना करेंगे। साम्यवाद एवं अंतरराष्ट्रीयता, इन्हीं दो विचारों पर हमारे राजनैतिक जीवन का परिवर्तन अवलंबित है।

प्राणि-विशेष (Species) की सामरिक नैसर्गिक वृत्ति (Combative instincts) के कारण ही स्वामित्व के विचार की उत्पत्ति हुई है। मनुष्य के वर्तमान रूप एवं प्रकृति प्राप्त करने से बहुत समय पूर्व उसका पूर्वज—वानर—भी स्वामित्व रखता था। जिसके लिए पशु युद्ध करे वही आद्य-संपत्ति है। कुत्ता और उसकी हड्डी, शेरनी और उसकी गुहा, गर्जन करनेवाला वारहसिंगा और उसका भुंड सभी स्वामित्व के ज्वलन्त उदाहरण हैं। समाजशास्त्र (Sociology) में जो आद्य-समष्टिवाद (Primitive Communism) पद व्यवहृत किया गया है, उससे अधिक असंगत उक्ति तो ध्यान में भी नहीं आ सकती। प्राचीन पाषाण-युग में प्रत्येक कुनवे का बड़ा-बूढ़ा भी स्त्रियों, दुहिताओं, औज़ारों और अपने को दीख पड़नेवाले समस्त सांसारिक पदार्थों पर दृढ़तापूर्वक स्वामित्व जमाये हुए था। दिखाई देनेवाले अपने उस संसार में किसी अन्य पुरुष के हस्तक्षेप करते ही वह उससे युद्ध करने, और संभवतया उसको मारने, के लिए उद्यत हो जाता था। जैसा कि ऐटकिनसन ने आद्य न्याय (अर्थात् Primal Law) नामक पुस्तक में निश्चयात्मक रूप से दर्शाया है, युग-युगांतर में बड़े-बूढ़ों द्वारा शनैः-शनैः नवयुवकों का अस्तित्व एवं वंश के बाहर की अपहरण की हुई बधुओं, उनके स्वयं बनाये हुए आभूषणों, औज़ारों तथा अपने हाथ से मारे हुए आखेट में उनका स्वामित्व स्वीकार करने की सहिष्णुता दिखाने पर, वंश-वृद्धि हुई थी। अपने स्वामित्व एवं दूसरों के अस्तित्व तथा अधिकार-विषयक समझौते होते रहने पर ही मानव-समाज की वृद्धि हुई है। दिखाई देनेवाले संसार से किसी अन्य वंश को निकाल बाहर करने की आवश्यकता के कारण ही मनुष्यों का विवश हो स्वाभाविक प्रवृत्ति (Instincts) के विरुद्ध समझौतों की शरण लेनी पड़ी। पर्वतमालाएँ, वन और नदियाँ 'मेरी' या 'तुम्हारी' किसी एक की मिल्कियत न थीं तो उसका कारण यह था कि प्रत्येक की वृत्ति तो उस पर अपना अधिकार जमाने की थी, परन्तु

वह बात संभव न थी; क्योंकि उस दशा में दूसरे लोग आकर हमारा सत्यानाश कर डालते अतएव वैयक्तिक स्वामित्व का न्यूनीकरण ही समाज का आदि-कारण है। आद्यकालीन असभ्य मनुष्य और पशुओं में स्वामित्व के ये भाव, वर्तमान सभ्य संसार की अपेक्षा अधिक उग्र थे और हमारी विवेचना-शक्ति की अपेक्षा स्वाभाविक प्रवृत्तियों (Instincts) में अधिक दृढ़तापूर्वक जड़ जमाये हुए हैं।



कोयले की खान का भीतरी दृश्य

प्राकृतिक जंगली एवं अशिक्षित पुरुषों में अमित स्वामित्व के भाव आजकल भी पाये जाते हैं। स्त्रियाँ, युद्ध-वंदी, पकड़े हुए पशु, वन-गुल्म तथा पथरीली गुहा आदि सभी वस्तुएँ जिनके लिए युद्ध या भगड़ा हो सकता है उनके विचार में अधिकार करने अथवा स्वामित्व की वस्तुएँ हैं। फिर जैसे-जैसे समाज का विकास होता गया तैसे-तैसे प्राणा-पहारी पारस्परिक युद्धों की रोक-थाम के लिए भी प्रकार-विशेष के विधान बन गये, और लोगों ने प्रत्युत्पन्नमति द्वारा उलट्टे सीधे नियम बना 'स्वामित्व' का भी निर्णय कर दिया। (उस नियम के अनुसार) जिस वस्तु को जो सर्वप्रथम बनाता, पकड़ता या अधिकृत करता था, वही उसका स्वामी माना जाता था। ऋण न चुकानेवाला ऋणी उनकी

दृष्टि में नैसर्गिकतया महाजन की संपत्ति हो जाता था। इसी प्रकार किसी धरती के टुकड़े पर अधिकार प्रतिपादन करने पर उसको वरतनेवाले अन्य पुरुष से बलात् मूल्य ग्रहण करना भी भू-स्वामी के लिए युक्तिसंगत माना जाता था। फिर शनैः-शनैः सुव्यवस्थित जीवन के विकास की संभावना होने पर प्रत्येक वस्तु में ऐसे अमित अधिकार बाधारूप प्रतीत होने लगे। यहाँ तक कि संसार में जन्म लेते ही मनुष्य ने अन्य समस्त वस्तुओं पर ही नहीं वरन् अपने शरीर पर भी दूसरों को स्वत्व जमाते एवं अधिकार प्रतिपादन करते पाया। अधिक प्राचीन सभ्य संसार के सामाजिक भ्रमों को चिह्नित करना तो इस समय कठिन है परंतु रोम प्रजातंत्र के उपरोक्त इतिहास से यह अवश्य पता चलता है कि ऋण के लोक-अहितकर हो जाने पर उसको चुकाना अनावश्यक हो जाता है; और धरती पर भी अमित वैयक्तिक अधिकार मानना क्लेशदायक है। पश्चात्कालीन वैविलोनिया में भी “दासों” पर स्वामियों के अधिकार अधिक संकुचित कर दिये गये थे। और अंत में महान् क्रांतिकारी नैज़रेथ के जीसस द्वारा दिये हुए उपदेशों में तो ‘सम्पत्ति’ पर अभूतपूर्व रूप से अत्यंत प्रचण्ड आक्रमण पाया जाता है। उनका तो यहाँ तक कहना था कि संपत्तिशाली पुरुषों के स्वर्ग-राज्य-प्रवेश की अपेक्षा ऊँट का सुई के नाके के भीतर से होकर निकलना कहीं अधिक सुगम है। सम्पत्ति-अधिकार की न्यायोचित सीमा क्या है इस विषय में गत बीस-पच्चीस शताब्दियों से संसार में निश्चल रूप से निरंतर विवेचनाएँ होती देख पड़ती हैं और नैज़रेथ के जीसस के उन्नीस सौ वर्ष उपरांत समस्त क्रिश्चियन धर्मानुयायी जगत् की यह धारणा हो गई है कि ‘मानव-तनु-धारी’ किसी की संपत्ति नहीं हो सकता। ‘प्रत्येक मनुष्य अपनी संपत्ति का चाहे जैसा उपयोग कर सकता है’ यह भाव अब अन्य वस्तुओं के संबंध में भी बहुत कुछ अस्थिर हो गया है।

परंतु अठारहवीं शताब्दी के अंतिम वर्षों तक संसार में यह विषय केवल प्रश्नात्मक रूप में ही था। इस संबंध में उस समय तक कोई बात स्पष्ट ही नहीं हुई थी फिर क्रियात्मक रूप में लाने के लिए निश्चय किस प्रकार हो सकता था। उन समय प्राथमिक प्रवृत्ति यही थी कि राजाओं के लोभ एवं अपव्यय तथा विशेष कुलाभिभूतों के विक्रांत कर्मों से संपत्ति की रक्षा किस प्रकार की जाय। मुख्यतया राज-घरों से वैयक्तिक संपत्ति की रक्षा करने के लिए ही फ्रांस की क्रांति का जन्म हुआ था। परंतु क्रांति का ‘सर्माकरण’ मिद्वान्त, जो ‘संपत्ति’ की रक्षा करने के लिए था, अब स्वयं संपत्ति की विवेचना में लग गया। “मनुष्य स्वतंत्र और एक दूसरे के समान क्योंकि हो सकते हैं कि जब बहुतों के खड़े होने के लिए भूमि और भोजन के लिए यत्किंचित् अन्न भी नसीब नहीं होता; बिना भ्रम के मालिक या पूँजीरति न तो भोजन ही देते हैं और न विश्राम !” यही था निर्धनों का लोकव्यापी रुन्दन।

एक प्रभावशाली राजनैतिक दल के विचारानुसार इस समस्या की पूर्ति 'विभाजन-नीति' द्वारा हो सकती थी; और 'विभाजन-नीति' को चरम सीमा तक पहुँचाकर ये लोग संपत्ति को सार्वजनिक बनाया चाहते थे। परंतु आद्य-साम्यवादी, जिनको यथार्थ में समष्टि-वादी कहना चाहिए, इस ध्येय पर दूसरी राह से—अर्थात् वैयक्तिक संपत्ति का विनाश कर—पहुँचा चाहते थे। इनके मतानुसार समस्त संपत्ति पर राज्य ही का (जिससे यहाँ तात्पर्य प्रजातंत्र का है) स्वामित्व है।

स्वतंत्रता एवं सुख के उसी अंतिम ध्येय पर पहुँचने के लिए एक समूह का संपत्ति-स्वामित्व को यथासंभव अनियंत्रित करना और दूसरे समूह द्वारा उसका सर्वथा विनाश करने का प्रयत्न होना, असत्याभास सा है परंतु उस समय वास्तव में हो यही रहा था। स्वामित्व तो एक अधिकार-विशेष न होकर भिन्न भाँति के अधिकार-समूह का नाम है, और यह बात समझ लेने पर उपरोक्त असत्याभास ही का लोप हो जाता है।

उन्नीसवीं शताब्दी का अधिकांश वीत जाने पर मनुष्यों ने कहीं यह अनुभव किया कि स्वामित्व तो एक सरल अधिकार-विशेष न होकर न्यूनाधिक उपादेय एवं भिन्न फलप्रद महान् अधिकार संकुल का नाम है। और जहाँ एक ओर (मनुष्य-देह, शिल्पी के यंत्र, वस्त्र-अवधान, दाँत साफ करने के ब्रुश इत्यादि) कुछ ऐसी वस्तुएँ हैं जो सर्वतोभावेन अपरिहार्य रूप से वैयक्तिक संपत्ति हैं वहाँ दूसरी ओर रेल, विविध भाँति के यंत्र (मेशीन), निवासस्थान, सुसजित उपवन और केलि-नौका इत्यादि अन्य ऐसे अमित वस्तुवर्ग भी हैं जिनमें से प्रत्येक के संबंध में यह बात विशेष रूप से विचारणीय है कि उनमें से प्रत्येक में किस परिमाण एवं विशेषावस्थाओं में वैयक्तिक संपत्ति मानी जा सकती है और किस दशा में सार्वजनिक अधिकार मानकर उस पर राज्य-प्रबन्ध होना और सार्वजनिक व्यवहार (Interests) के लिए उसका राज्य द्वारा नियमित होना अधिक उचित होगा। व्यवहार्य दृष्टि से ये प्रश्न राजनीति एवं शासन निर्माण तथा उसकी व्यवस्था के अंग हैं। इनसे सामाजिक मानस-विज्ञान (Social Psychologists)-विषयक समस्याएँ भी उठ खड़ी होती हैं और शिक्षा-विज्ञान संबंधी गवेषणाएँ भी प्रभावित होती हैं। संपत्ति की वैज्ञानिक विवेचना आज तक नहीं हुई है और अभी तक वह अपरिमित एवं प्रचण्ड मनोवेगों के रूप में ही विद्यमान है। एक ओर तो वैयक्तिकवादी हैं जो हमारे वर्त्तमानकालीन यत्किंचित् अवशेष अधिकारों का संरक्षण एवं विस्तार किया चाहते हैं और दूसरी ओर हैं साम्यवादी जो बहुत दिशाओं में हमारे स्वत्वाधिकारों एवं स्वत्व व्यवहारों (Proprietary Acts) को संकुचित एवं नियंत्रित करने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। शासन-पद्धति को स्थिर करने के लिए भी राजकर लगाने में आपत्ति उठानेवाले घोर वैयक्तिकवादियों से लेकर

वैयक्तिक रूप से अवशिष्ट कुछ भी भोगाधिकार न माननेवाले समष्टिवादियों तक उत्तरोत्तर विचारवादी अनेक श्रेणी के पुरुष हमको व्यवहार रूप से दृष्टि-गोचर होते हैं। आज-कल के साधारण साम्यवादियों को तो वास्तव में (Collectivists) समूहवादी कहना चाहिए। इनके मतानुसार बहुत अधिक वस्तुएँ तो वैयक्तिक संपत्ति ही रहनी चाहिए; परंतु शिक्षा, आवागमन के साधन, खानें, भू-स्वामित्व (Land owning), बहुत से खाद्य पदार्थों का सांघिक रूप से उत्पादन इत्यादि का विशेष सुव्यवस्थित राज्यों के अधिकार ही में रहना योग्य है। आज-कल समझदार लोगों का मुकाब वैज्ञानिक रूप से अनुशीलन एवं आयोजित किये हुए साम्यवादीय क्रम की और शनैः-शनैः हो रहा है। बड़े-बड़े उपक्रमों में अशिक्षित मनुष्य सुगमता एवं सफलता-पूर्वक सहयोग नहीं कर सकते, इसका भी अब अधिकाधिक स्पष्टता से अनुभव होने लगा है। शासन-पद्धति को अधिक विपन्न बनाने और प्रत्येक वैयक्तिक व्यवसाय के अंश को राज्य द्वारा हस्तगत करने पर पद-पद में, उसी के अनुरूप शिक्षावृत्ति और युक्तिसंगत विवेचना के विधान एवं सुव्यवस्थित नियंत्रण की अत्यंत आवश्यकता होती है। और वर्तमानकालीन राज्यों के प्रेस (छापाखाना) और राजनैतिक-मार्ग दोनों ही सामूहिक व्यवसायों के (Collective activities) और भी अधिक विस्तृत करने के लिए सर्वथा भेदे और अपूर्ण हैं।

परंतु कुछ काल तक मज़दूरों और मालिकों—और वह भी विशेषतया स्वार्थी मालिकों और असंतुष्ट श्रमिकों—की आपस की तनातनी के कारण एक ऐसा अत्यंत क्रूर प्रारंभिक-समष्टिवाद समस्त संसार में फैला जो कार्ल मार्क्स के नाम से संयोजित किया जाता है। मार्क्स ने अपने सिद्धांत इस तर्क के आधार पर स्थापित किये थे कि आर्थिक आवश्यकताओं के कारण मनुष्यों की मति (Minds) संकुचित हो जाती है; और ऐसी दशा होने पर आधुनिक सभ्यता के समय में ऐश्वर्यशाली स्वामिवर्ग (Employing class) और मज़दूर-समूह का पारस्परिक हित-विषयक विरोध अवश्यम्भावी है। शिक्षावृत्ति होने पर, जो चंद्रक्रांति के कारण आवश्यक है, यह बहुसंख्यक मज़दूर दल अधिकाधिक वर्ग-शक्ति-ज्ञान (Class Consciousness) लाभ कर अपने ऊपर शासन करनेवाले इन वर्ग-शक्ति-ज्ञान-युक्त अल्पसंख्यकों का अधिकाधिक दृढ़ता से विरोधी बन जायगा। और फिर वर्ग-शक्ति संज्ञा प्राप्त ये मज़दूर लोग किसी न किसी प्रकार से शक्ति ग्रहण कर एक नवीन साम्यवादी (Socialist) राज्य स्थापित करेंगे, यही मार्क्स की भविष्यवाणी थी। विरोध, विद्रोह और संभवतः क्रांति—इन तीन बातों का होना तो समझ में आ सकता है; परंतु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि समाज को छिन्न-भिन्न करने के अतिरिक्त कोई नवीन साम्यवादी राज्य, या कोई अन्य उपादेय वस्तु या समाज-विधान इसके द्वारा किसी प्रकार



उत्पन्न हो सकता है। परीक्षण करने पर, जैसा कि हम आगे चलकर दिखायेंगे, यह मार्क्स-पंथ भी रूस में अत्यंत आश्चर्यकारक रूप से निरर्थक सिद्ध हुआ है।

मार्क्स ने जातीय विरोध के स्थान में, वर्ग (Class)-विरोध की स्थापना का प्रयत्न किया और उसके अनुयायियों ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय अंतर-राष्ट्रीय मज़दूर सम्मेलन की क्रमशः आयोजना की। परंतु आधुनिक वैयक्तिकवाद का अनुसरण करते हुए भी हमारे लिए अंतर-राष्ट्रीय विचारों तक पहुँचना संभव है। धुरंधर अँगरेज़ अर्थ-शास्त्री ऐडम स्मिथ (Adam Smith) के समय से यह बात दिन-दिन अधिकाधिक स्पष्ट हो रही है कि जगत्-व्यापी ऐश्वर्ययुग लाने के लिए समस्त भू-मंडल पर स्वतंत्र एवं अप्रतिबाधित रूप से व्यापार होना आवश्यक है। वैयक्तिकवादी भी अपने राज्य-विद्वेष के कारण आयात-निर्यात कर, राज्य-सीमा और उन समस्त-बन्धनों के घोर विरोधी होते हैं जो अप्रतिबाधित कार्य एवं गति की रोक-थाम के लिए राज्य-सीमाओं के कारण उचित प्रतीत होते हैं। एक दूसरे से सर्वथा भिन्न भाव एवं तत्त्व वाले ये दोनों मत अर्थात् मार्क्स-अनुयायियों द्वारा वर्गीय-विरोधोपदेशी साम्यवाद और विक्टोरिया-युग के अँगरेज़ व्यापारियों का वैयक्तिकवादमय स्वतंत्र व्यापार का दार्शनिक वाद—प्राथमिक विभिन्नताओं के होते हुए भी—विश्वव्यापी मानव-व्यवहारों के नवीन उपचार के लिए, राज्य-सीमा एवं राज्य-प्रतिबन्धों को छेँककर अग्रसर हो रहे हैं। यह कम आश्चर्य की बात नहीं है। सैद्धान्तिक तर्क वास्तविकता के सामने नहीं ठहर सकता। और हम भी अब यह समझने लगे हैं कि संपूर्णरूपेण विभिन्न आधारों पर स्थित होते हुए भी वैयक्तिकवाद और साम्यवाद दोनों एक ही सर्वसामान्य गवेषणा के अंग हैं। सामाजिक एवं राजनैतिक भावों तथा उनकी व्याख्याओं को विशद करना इस गवेषणा का ध्येय था जिससे सब मनुष्य सम्मिलित होकर कार्य कर सकें। और जैसे-जैसे मनुष्यों का विश्वास पवित्र रोम-साम्राज्य एवं क्रिश्चियन धर्म में कम होता गया वैसे-वैसे इस गवेषणा में तीव्रता की मात्रा भी बढ़ती गई और जैसे-जैसे मानव-ज्ञान-क्षेत्र विशद होता गया तैसे-तैसे भूमध्य-सागर-सरीखे छोटे भू-भाग का स्थान समस्त भू-मंडल लेता गया।

सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक विचारों की आज तक जिस प्रकार उन्नति एवं विकास हुआ इसका पूरा विवरण लिखने पर तो ऐसे विवादग्रस्त प्रश्न उठ खड़े होंगे जो इस पुस्तक के विषय एवं अभिप्राय दोनों ही से सर्वथा भिन्न होंगे। संसारेतिहास के विद्यार्थी के विशद दृष्टिकोण से (कि जिससे यह पुस्तक लिखी गई है) हमको यह मानना पड़ता है कि ऐसे निर्देशक विचारों के, मानव-मस्तिष्क में पुनर्निर्माण का कार्य अभी तक अधूरा पड़ा है। और इस समय हम यह भी नहीं बता सकते कि यह कार्य कहाँ तक पूरा

हो सका है। कुछ ऐसे सर्वसामान्य विश्वास अवश्य प्रकट हो रहे प्रतीत होते हैं जिनका राजनैतिक घटनाओं तथा वर्त्तमानकालीन सार्वजनिक कार्यों पर स्पष्टतया प्रभाव पड़ रहा है। परंतु वे अर्थात् सर्वसामान्य विश्वास इतने स्पष्ट एवं विश्वासोत्पादक नहीं हुए हैं कि विवश होकर लोग सुव्यवस्थित एवं नियमित विधि से उनकी दृढ़तापूर्वक अनुभूति कर सकें। परंपरागत (Traditions) और नूतन विचारों के मध्य, मनुष्यों की प्रवृत्तियाँ दोलायमान हो रही हैं। और अधिकांश में वे परंपरागत विचारों की ओर ही अधिक झुकती हैं। परंतु अभी हाल के किसी मानव जीवन-काल की तुलना करने पर हमें पता चल जायगा कि इस समय मानव व्यवहारों में एक नवीन व्यवस्था की बाह्य रेखा अंकित हो रही है। यह बाह्यरेखा अभी अपूर्ण और यत्र-तत्र धुँधली तथा मिटी हुई भी है और इसके भिन्न-भिन्न अंश नियमादिक भी स्थिर नहीं हैं। परंतु यह सब होते हुए भी यह दिन-प्रतिदिन दृढ़तापूर्वक अधिक स्पष्ट हो रही है और इसकी प्रधान रेखाएँ भी अधिकाधिक न्यून परिवर्त्तनशील होती जाती हैं।

यह भी अब प्रत्येक वर्ष अधिकाधिक स्पष्ट हो रहा है कि मनुष्य-जाति बहुत से विषयों एवं उन्नतोन्मुख मानव-व्यापार-पर्यों में एक समाज अथवा वर्ग सदृश बनती जाती है अतः यह अधिकाधिक आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसे विषयों में जगद्-व्यापी एक ही सार्वजनिक नियंत्रण स्थापित हो जाय। उदाहरणार्थ यह कहना अधिक ठीक है कि इस समय आर्थिक दृष्टि से समस्त भूमंडल एक ही समाज सा बन गया है और उसके नैसर्गिक साधनों से उचित रूप से लाभ उठाने के लिए एक व्यापक निर्देश की आवश्यकता है; और उपलब्धियों (Discovery) के कारण मानव-प्रयत्नों का बल एवं विस्तार बढ़ जाने से वर्त्तमान-कालीन परस्पर-विरोधी खंडशासन द्वारा इन मानव-व्यवहारों का संपादन करना अधिकाधिक नाशकारी एवं भयदायक हो गया है। इसी प्रकार धन तथा धन (Financial and monetary)-विषयक साधन भी सार्वभौमिक कल्याण की वस्तु हो जाते हैं और उनका सकल व्यवहार उसी दशा में हो सकता है कि जब उनका भी नियंत्रण सार्वभौमिक विधि से किया जाय। संक्रामक रोग, जन-संख्या की वृद्धि और उसका प्रवास इत्यादि विषय भी अब स्पष्टतया जगद्-व्यापी समस्याएँ हुए प्रतीत होते हैं। इनके अतिरिक्त मानव-प्रगतियों की शक्ति एवं विस्तार की वृद्धि ने युद्ध को पहले की अपेक्षा अब कहीं अधिक नाशकारी और अव्यवस्थापक बना दिया है। वे भद्दे तरीक़े (अर्थात् युद्ध) राज्यों तथा जातियों के पारस्परिक झगड़े तथा समस्याएँ सुलभाने में विफल होते हैं। अतएव ये सब विषय एक ऐसी नियंत्रणकारी एवं अधिकारयुक्त संस्था की आवश्यकता के घोषक हैं जो अद्यावधि नियंत्रणों से कहीं अधिक विस्तृत एवं व्यापक हो।

परंतु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि इन प्रश्नों का समाधान करने के लिए वर्तमान राज्यों को जीतकर अथवा उनके संयोजन द्वारा एक सर्वोपरि चक्रवर्ती शासन स्थापित किया जाय। मानव-जाति की विद्यमान संस्थाओं के अनुरूप लोगों ने समस्त पृथ्वी-मंडल की पार्लियामेंट कांग्रेस अथवा सार्वभौमिक प्रेसीडेंट या चक्रवर्ती सम्राट् की भी कल्पना की है। मानव-स्वभाव की प्रतिक्रिया ( Natural reactions ) तो सर्वप्रथम इसी निष्कर्ष की ओर झुकती है। परंतु गत अर्ध-शताब्दी के उपदेशों एवं प्रयत्नों के संबंध में जो वादविवाद एवं अनुभव हुआ है उससे मनुष्य-जाति का विश्वास इस प्राथमिक स्पष्ट विचार से सर्वथा शिथिल हो गया। संसार में इस विधि से ऐक्य स्थापित करने की राह में अत्यंत अधिक रुकावटें हैं। इन तथा अन्य विषयों के संबंध में आजकल की विचार-धारा तो ऐसी विशेष कमेटियों अथवा संस्थाओं के अनुकूल है कि जिनके वर्तमान राज्यों द्वारा जगत् व्यापी अधिकार प्राप्त हो। नैसर्गिक संपदा का विकास अथवा क्षय संबंधी प्रश्न, मज़दूरों की परिस्थिति के समीकरण की समस्या, संसार की शांति, मुद्रा-प्रचार, प्रजा, स्वास्थ्य आदि इसी प्रकार के अन्य विषयों पर कमेटियों का अधिकार रहना चाहिए।

सार्वभौमिक शासन की विद्यमानता न प्रतीत होते हुए भी सब संसार यह अनुभव कर सके कि उसकी सर्वहितसाधक समस्याओं का एक व्यापार की भाँति प्रबन्ध किया जा रहा है। इतना भी मानवैक्य जब तक स्थापित न हो और जब तक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते देश-प्रेमियों की शंका, संदेह और मत्सर-सीमा की पहुँच के बाहर न हो जायँ तब तक इस बात की आवश्यकता है कि प्रत्येक जाति के मस्तिष्क मानवैक्य के भावों से श्रोत-प्रोत हो जायँ और समस्त मानव-जाति एक कुटुम्ब के सदस्य है। यह भाव सार्वजनिक शिक्षा द्वारा सबकी बुद्धियों में वैद्य देना चाहिए।

गत बीस और इससे भी अधिक शताब्दियों से सर्वमान्य महान् धर्मों के उद्देश्य की यही चेष्टा रही है कि मनुष्य मात्र में भ्रातृत्व के भाव फैल जायँ परंतु जातीय, वर्गीय और राष्ट्रीय ईर्ष्या, द्वेष एवं अविश्वास-संघर्ष इस कार्य में बाधा डाल रहे हैं और प्रत्येक मनुष्य को मानव-समाज का सेवक बनानेवाले विशद विचार एवं उदार भावों का सफलता-पूर्वक विरोध कर रहे हैं। ईसा की छठी और सातवीं शताब्दियों में अव्यवस्था एवं व्यग्रता फैल जाने पर क्रिश्चियन-धर्म-प्रसार के भाव ने जिस प्रकार यूरोप की आत्मा को वर्शाभूत करने का प्रयत्न किया था उसी प्रकार इस समय भ्रातृत्व के भाव मानव-आत्माओं को अधिभूत करने की चेष्टा कर रहे हैं। इन भावों के प्रसार एवं मनुष्यों के हृदयगम करने के कार्य के लिए तो सहस्रों अलक्षित एवं निष्ठावान् धर्मप्रचारकों ( Missionaries )

को नियुक्त करना चाहिए। यह कार्य कितना निवट चुका है, अथवा इसमें कहाँ तक सफलता प्राप्त हुई है यह तो कोई समसामयिक लेखक अनुमान या तर्क द्वारा भी नहीं बता सकता।

सामाजिक और आर्थिक समस्याएँ राष्ट्रीय समस्याओं में अपृथक् रूप से मिली हुई प्रतीत होती हैं। परंतु यह गुत्थी ऐसे सेवा-भाव ही से सुलभ सकती है जो मानव-हृदय में प्रवेश कर उसको उत्साहित कर सके। सर्वहितकारी साधनों के विरोधी, वैयक्तिक आधिपत्य एवं कार्यशीलता में पाये जानेवाले अविश्वास, अदम्यता तथा अहंकार के भाव, जातिगत अविश्वास, अदम्यता, एवं अहंकार के रूप में विवित और प्रतिविवित होते हैं। जातियों और सम्राटों की मुष्टिवंध लोलुपता व्यक्तिगत अधिकारलोलुपता का बृहत् प्रतिविवित रूप है। और ये फल हैं व्यक्तिगत स्वाभाविक प्रवृत्तियों (Tendencies), अज्ञान तथा प्राचीन परंपराओं के (Traditions)। जातियों का साम्यवाद ही अंतर्-राष्ट्रवाद के नाम से पुकारा जाता है। इन समस्याओं को सुलभाने का प्रयत्न करनेवाला कोई भी पुरुष यह अनुभव नहीं करता कि मनुष्यों के पारस्परिक समागम एवं सहयोग रूपी समस्या को सुलभाने के लिए मानस-विज्ञान (Psychological Science) में इस समय पर्याप्त बल एवं गंभीरता तथा बुद्धिपूर्वक तैयार की हुई किसी वर्तमान शिक्षा संबंधी योजना वा संस्था में इतनी क्षमता या गई है कि यह कार्य वास्तविक रूप से पूर्णतया सफल हो सके। सन् १८२० में लोगों में विजली द्वारा चलनेवाली रेलगाड़ियाँ बनाने की जिस प्रकार योग्यता नहीं थी उसी प्रकार संसार में सफलतापूर्वक शांति स्थापित करनेवाली किसी संस्था की योजना करने की हममें भी इस समय क्षमता नहीं है। परंतु जितना भी ज्ञान हमको इस समय प्राप्त है उससे इस प्रश्न की साधना सुखसाध्य है, और हो सकता है कि वह साधना हमारे अत्यन्त ही निकट हो।

मनुष्य की गति अपने ज्ञान तक ही परिमित है और विचारों की दौड़ समसामयिक विचारों से आगे नहीं जा सकती। अतएव युद्ध और अपव्यय, शंका और आपदा में रहकर मनुष्य-समाज को अभी और कितनी पीड़ियाँ वितानी होंगी और उद्देश्यहीन तथा अपव्यय-ग्रसित जीवन-रूपी रात्रि का अंत कर व्यक्तियों के हृदय एवं समस्त संसार को शांति देनेवाला उपकाल—जिसकी और समस्त इतिहास इंगित करते हुए प्रतीत होते हैं—कब प्रारंभ होगा, अनुमान द्वारा यह बताना अथवा इसका भविष्य-ज्ञान होना हमारे लिए अशक्य है। हमारी उपरोक्त प्रस्तावित साधनाएँ अभी अपक्व और संदिग्ध हैं; शंका और उद्देश्यों ने उनको घेर रखा है। वैदिक पुनर्निर्माण का महान् कार्य चल रहा है, परंतु अभी तक वह अधूरा है और हमारे विचार दिन-प्रतिदिन अधिक स्पष्ट एवं यथार्थ होते जा रहे हैं,

शीघ्रता से अथवा धीरे-धीरे, यह बताने में हम असमर्थ हैं। ज्यों-ज्यों वे अधिक स्पष्ट होंगे त्यों-त्यों मनुष्यों के मस्तिष्क एवं कल्पनाओं पर उनका प्रभाव अधिक होता जायगा। इस समय विश्वास और यथार्थ ज्ञानहीनता ही उनके ग्रहण-शक्ति के अभाव का कारण है। अव्यवस्थित एवं विविध भाँति से प्रदर्शित होने के कारण ही उनका मिथ्या-ज्ञान हो रहा है। परंतु विश्वास और यथार्थ ज्ञान प्राप्त होते ही संसार का यह नवीन दृश्य आकर्षक शक्ति प्राप्त कर लेगा और इसका शीघ्रतया प्रादुर्भाव होना भी संभव है। अधिक स्पष्ट विवेचना-शक्ति के होते ही शिक्षा-संबंधी पुनर्निर्माण-कार्य न्यायतः प्रारंभ होना अवश्यम्भावी है।

---

## संयुक्त राज्य की विस्तार-वृद्धि

उत्तरीय अमेरिका ही एक ऐसा भू-भाग है जहाँ आवागमन-संबंधी नवीन आविष्कारों ने शीघ्रता से अत्यंत अद्भुत फल दिखाये हैं। राजनैतिक दृष्टि से मध्यभागीय अटारहवीं शताब्दी के उदार भावों का न केवल संयुक्त राज्य में समावेश था वरन् वे उसकी राज्य-व्यवस्था में स्फटिक की भाँति घनीभूत हो रहे थे। उस देश ने राज्य-धर्म एव राज-मुकुट का वहिष्कार कर दिया और उपाधियों का भी प्रयोजन न रखा। अल्लुखण स्वातन्त्र्य का अंग मानकर 'संपत्ति' की रक्षा भी वहाँ अत्यंत सावधानी से की जाती थी। प्रारंभ में इस कार्य का संपादन विभिन्न राज्यों में भिन्न भाँति से होता था; और प्रायः प्रत्येक युवा नागरिक ( मनुष्य ) को 'वोट' ( सम्मति ) देने का अधिकार प्राप्त था। वोट देने की प्रथा असम्भ्य एवं असंस्कृत होने के कारण तद्देशीय राजनैतिक जीवन अत्यंत शीघ्रता-पूर्वक सुव्यवस्थित पार्टी ( अर्थात् दलबंदी ) रूपी मशीन में आ पड़ा। परंतु तिस पर भी यह नूतन स्वातंत्र्य-प्राप्त प्रजा शक्ति, साहस एवं सार्वजनिक भावों की उन्नति में अपने समस्त समसामयिकों से अधिक आगे बढ़ गई।

इसके पश्चात् स्थानांतर-गमन के उपरोक्त साधनों की गति में उन्नति का प्रादुर्भाव हुआ। कैसे आश्चर्य की बात है कि स्थानांतर-गति के साधनों की इस उन्नति को अमेरिका देश ने—जिसका सर्वस्व उन्हीं पर अवलंबित है—सबसे कम प्रतीत किया है। रेल-गाड़ी, स्टीम-जलयान ( वाष्प द्वारा चलनेवाली नाव ) और विजली के तार इत्यादि को संयुक्त-राज्य ने अब ऐसा अपनाया है मानों ये भी उसकी उन्नति के अंग थे। परंतु बात ऐसी न थी; ये वस्तुएँ तो अमेरिका में ठीक ऐसे समय पहुँचीं कि वहाँ की एकता मुरझित रह गई। वर्त्तमान-कालीन संयुक्त-राज्य का निर्माण सर्वप्रथम तो स्टीम-वोट और तत्पश्चात् रेल द्वारा हुआ है। इनके बिना आधुनिक संयुक्त-राज्य या यों कहें कि महाद्वीप-निचोर्णयात् इस जाति का अस्तित्व ही असंभव था। उस दशा में तो जन-संख्या का प्रसार भर बढ़ा भी

यही प्रश्न उत्पन्न हो जाते थे कि राज्य में समस्त नागरिकों को स्वतंत्रता दी जाय या वैयक्तिक संपदा तथा दास-प्रथा के विधान जारी रहें। सन् १८३३ से अमेरिका की एक दास-विरोधिनी सभा भी इस कुप्रथा का न केवल विरोध प्रत्युत देश से इसका सर्वथा बहिष्कार करने के लिए आन्दोलन द्वारा प्रयत्न कर रही थी। परंतु टेक्सास नामक प्रदेश के यूनियन ( अर्थात् गोष्ठी ) में सम्मिलित करने पर इस समस्या के संबंध में प्रकाश्य रूप से झगड़ा खिड़ गया। यह प्रदेश सर्वप्रथम मैक्सिको प्रजातंत्र के अंतर्गत था, परंतु मुख्यतः दास-प्रथा के अनुयायी राज्या की अमेरिकन प्रजा द्वारा बसाये जाने के कारण उससे संबंध-विच्छेद हो सन् १८३५ में स्वतंत्र हो गया था। तत्पश्चात् सन् १८४४ में इसको संयुक्त-राज्य की गृह ( गांठी ) में मिला लिया गया। मैक्सिको के कानून के अनुसार टेक्सास में दास-प्रथा का निषेध कर दिया गया था। अब दक्षिणीय राज्यों ने टेक्सास से फिर दासों को लेना प्रारंभ कर दिया।

परंतु ममुद्र-यात्रा के माधनों में उन्नति हो जाने पर यूरोपीय प्रवासियों के दल के दल अब उत्तरीय राज्यों की जन-संख्या बढ़ाने के लिए उधर जा रहे थे। और इसी कारण आयोवा, विस्कॉन्सिन, मिन्सोटा और श्रीरिगॉन की समस्त उत्तरीय ज़मींदारियों को राज्यों के समकक्ष मान लेने पर दास-प्रथा-विरोधी उत्तरीय राज्यों के सैनेट ( Senate ) और प्रतिनिधि-सभा ( House of Representatives ) में अधिक प्रतिनिधियों के आने की संभावना हो गई। दास-प्रथा-विनाशिनी प्रगति की ऐसी उन्नति होती देख, काँग्रेस में पराजित होने की आशंका से कपास-प्रधान दक्षिण ने भुँझलाकर अब यूनियन ( गोष्ठी ) से पृथक् होने की चर्चा छोड़ दी। और उत्तर से पृथक् हो ये लोग दक्षिण की ओर मैक्सिको और पश्चिमीय द्वीप-समूह में दास-प्रथा जारी रखनेवाले पनामा तक के राज्यों में सम्मिलित होने के सुख-स्वप्न देखने लगे।

सन् १८६० में विस्तार-विरोधी ऐब्रेहम लिंकन के प्रेसीडेंट चुने जाने के कारण, दक्षिणीय राज्यों ने यूनियन (गृह) से पृथक् होने की ठान ली। और (दक्षिणीय) 'कैरोलिना' ने पृथक् होने का एक आदेश निकालकर युद्ध की तैयारियाँ भी प्रारंभ कर दीं। मिसीसिपी, फ्लोरिडा, ऐलावेमा, जैरजिया, लूसियाना और टेक्सास के इनका साथ देने के पश्चात् ऐलावेमा के मॉट गोमरी नामक स्थान में एक सभा द्वारा जैफ़रसन डैविस इस अमेरिकन राज्य-संघ के प्रेसीडेंट चुने गये और राज्य-व्यवस्था में इस हवशी दास-प्रथा को भी स्थिर रूप में स्वीकृत किया गया।

संयोग-वश ऐब्रेहम लिंकन, स्वतंत्रता के युद्ध के उपरांत उत्पन्न होनेवाली नवीन लक्षण-युक्त ज्ञाति का आदर्श रूप था। पश्चिम और अग्रसर होनेवाले जनसाधारण-जन-

निवासियों में पाया जाता है। और अंगीकरण की यह विधि दिन-प्रतिदिन विना किसी रुकावट के उन्नति कर रही है। रेल तथा तार के जालों के प्रसार के साथ ही साथ संयुक्त राज्य में यह ऐक्य भी अब नित्य-प्रति मनसा वाचा कर्मणा फैलता जा रहा है। आशा होती है कि वायु-मार्ग द्वारा आवागमन होने पर इस कार्य में और भी अधिक उन्नति होगी।

संयुक्त राज्य का यह महान् समाज इतिहास में एक सर्वथा अपूर्व वस्तु है। दस करोड़ से अधिक जन-संख्यावाले बड़े-बड़े साम्राज्य पूर्व-काल में भी थे परंतु वे विविध जातियों के एकत्रीकरण मात्र थे; इतने भारी परिमाण में कोई एक जाति किसी (साम्राज्य) में न थी। इस नवीन वस्तु के लिए अब एक नई परिभाषा आवश्यक है। हॉलैंड अथवा फ्रांस के सदृश संयुक्त-राज्य को भी हम एक देश कहते हैं; परंतु दोनों में लड़कड़े और मोटर का भेद है। उन देशों की विविध दशाओं एवं भिन्न-भिन्न समय में उत्पत्ति हुई, और वे विभिन्न दशाओं की ओर विभिन्न गतियों से अग्रसर हो रहे हैं। परिमाण और संभावनाओं की दृष्टि से इस संयुक्त-राज्य का स्थान किसी एक यूरोपीय राज्य और सार्व-भौमिक संयुक्त राज्य के मध्यवर्ती है।

परंतु वर्तमान-कालीन ऐश्वर्य और महत्ता के पथ पर अग्रसर होने से प्रथम अमेरिका-वालों को युद्धरूपी घोर अग्नि में तपना पड़ा था। स्टीम-रेलवे, विजली के तार और तत्समान अन्य सुविधाओं का प्रादुर्भाव तो वहाँ अवश्य हुआ परंतु यथासमय न होने के कारण वे, उत्तरीय एवं दक्षिणीय राज्यों के भेद-भावों, हित-साधनों तथा विचारों की वृद्धि हुई विभिन्नता को न रोक सके। दक्षिणीय राज्यों में दास-प्रथा अब भी जारी थी; परंतु उत्तर में सबको स्वतंत्रता प्राप्त थी। रेल और स्टीम-बोट का आगमन होते ही सर्वप्रथम तो उत्तरीय तथा दक्षिणीय राज्यों का यह पुराना भेद-भाव और भी अधिक तीव्र हो गया। मेल बढ़ानेवाले आवागमन-संबंधी इन नये साधनों के कारण यह प्रश्न—कि दक्षिणीय विचारों की विजय होगी अथवा उत्तरीय की—अब और भी अभूतपूर्वरूप से आवश्यक हो गया। समझौते की तब कोई संभावना न थी; क्योंकि उत्तरीय राज्य के तो स्वतंत्र विचार एवं नैतिकवादी थे और दक्षिणवाले बड़ी-बड़ी जागीरों एवं उच्च वर्गों द्वारा काली प्रजा के समूह पर शासन किया चाहते थे।

जैसे-जैसे जनसंख्या की वृद्धि होकर उसका प्रवाह पश्चिम की ओर बढ़ता गया और नवीन भू-प्रदेश व्यवस्थित होकर राज्य का रूप धारण करते गये तैसे-तैसे, उन राज्यों के उन्नतिशील अमेरिकन विधान (System) में संमिलित होने ही वे (अर्थात् नवीन सम्मानित राज्य) भी इन परस्पर-विरोधी विचारों की रंगभूमि बनते गये। और वहाँ भी



दिशा की ओर मंथर गति से होता और बहुत संभव है कि बीच के बड़े-बड़े मैदानों को वह पार ही न कर सकती। समुद्र-तट से मिससौरी तक ( जो महाद्वीप के अद्रम से कम में स्थित है ) पक्के उपनिवेश स्थापित करने ही में लगभग दो सौ वर्ष लग गये थे। सन् १८२१ में मिससौरी पार का सर्वप्रथम स्टीम-बोट राज्य स्थापित हुआ और फिर प्रशान्त महासागर तक शेष भूमि में उपनिवेश कुछ ही वर्षों में स्थापित हो गये।

हमारे पास यदि सिनेमा के उपयुक्त साधन होते तो सन् १६०० के पश्चात् के उत्तरीय अमेरिका के वर्ष-वर्ष के चित्र दिखाना अत्यंत ही कौतूहलजनक होता। इनमें सहस्रों पुरुषों की जन-संख्या को छोटे विंदुओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता। प्रत्येक सौ मनुष्यों के लिए एक विंदु लगाया जाता और एक लाख मनुष्यों की जन-संख्यावाले नगरों को तारा चिह्न द्वारा दिखाया जाता। पाठकों को इन चित्रों में यह विंदुजाल, दो सौ वर्ष तक, तटस्थ ज़िलों और नौ-गम्य नदियों के किनारे-किनारे, इंडियाना, कैंटकी इत्यादि के इलाकों में होकर धीरे-धीरे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके पश्चात् सन् १८१० के लगभग एक परिवर्तन दृष्टिगोचर होगा और नदियों के तट पर अधिक चहल-पहल होती दिखाई देगी और इन विंदुओं की संख्या में भी अधिक शीघ्रतापूर्वक वृद्धि एवं विस्तार प्रतीत होगा। इसका हेतु होगा स्टीम-बोट। फिर कुछ ही काल पश्चात् पुरोगामी विंदु, कन्तास और नैत्रास्का में स्थान-स्थान पर बड़ी-बड़ी नदियों के पार कूदते एवं शीघ्रतापूर्वक फैलते हुए देख पड़ेंगे। सन् १८३० के पश्चात् रेलवे के चिह्न-रूप काली रेखाएँ प्रकट होंगी और तदनंतर ये लुप्त कृष्णविंदु रंग-रंगकर बढ़ने के स्थान में दौड़ने लग जायेंगे। द्रुत गति से इनकी वृद्धि होने के कारण ऐसा प्रतीत होगा कि छिड़काव करनेवाली किसी मशीन द्वारा ये फेंके जा रहे हैं। फिर सहसा लक्षजनपूरित बड़े-बड़े नगरों के चिह्न-प्रदर्शक तारे भी सर्वप्रथम यत्र-तत्र दिखाई देंगे। तदनंतर एक-दो के स्थान में इन तारों के झुंड के झुंड बढ़ती हुई रेलवे-लाइन के विछे हुए जाल में गाँठों सहश दृष्टिगोचर होंगे।

संयुक्त-राज्य के विकास के समान संसार के इतिहास में कोई अन्य पूर्वादाहरण नहीं मिलता। यह घटना वास्तव में अद्वितीय है। पूर्वकाल में ऐसे समुदाय का अस्तित्व असंभव था और यदि ऐसा होता भी तो रेल न होने के कारण अत्र से बहुत काल पूर्व ही यह कभी का खंड-खंड हो जाता। रेल और तार के बिना तो कैलिफ़ोर्निया का शासन वाशिंगटन की अपेक्षा पैकिन से करना अधिक सुगम होता। परंतु अत्यंत उग्र रूप से उद्भि होने हुए भी संयुक्त-राज्य की जन-संख्या में न केवल समानता विद्यमान रही है वरन् की अन्तर्गत बढ़ती ही होती जाती है। नौ वर्ष पूर्व वर्जीनिया और न्यू-इंग्लैंड के में भी इतना नाट्यय न था कि जितना हम समय गैन्-मिस्को और न्यूयार्क के

निवासियों में पाया जाता है। और अंगीकरण की यह विधि दिन-प्रतिदिन विना किसी रुकावट के उन्नति कर रही है। रेल तथा तार के जालों के प्रसार के साथ ही साथ संयुक्त राज्य में यह ऐक्य भी अत्यन्त-प्रति मनसा वाचा कर्मशा फैलता जा रहा है। आशा होती है कि वायु-मार्ग द्वारा आवागमन होने पर इस कार्य में और भी अधिक उन्नति होगी।

संयुक्त राज्य का यह महान् समाज इतिहास में एक सर्वथा अपूर्व वस्तु है। दस करोड़ से अधिक जन-संख्यावाले बड़े-बड़े साम्राज्य पूर्व-काल में भी थे परंतु वे विविध जातियों के एकत्रीकरण मात्र थे; इतने भारी परिमाण में कोई एक जाति किसी (साम्राज्य) में न थी। इस नवीन वस्तु के लिए अब एक नई परिभाषा आवश्यक है। हॉलैंड अथवा फ्रांस के सदृश संयुक्त-राज्य को भी हम एक देश कहते हैं; परंतु दोनों में कुछे और मोटर का भेद है। उन देशों की विविध दशाओं एवं भिन्न-भिन्न समय में उत्पत्ति हुई, और वे विभिन्न दशाओं की और विभिन्न गतियों से अग्रसर हो रहे हैं। परिमाण और संभावनाओं की दृष्टि से इस संयुक्त-राज्य का स्थान किसी एक यूरोपीय राज्य और सार्व-भौमिक संयुक्त राज्य के मध्यवर्ती है।

परंतु वर्तमान-कालीन ऐश्वर्य और महत्ता के पथ पर अग्रसर होने ने प्रथम अमेरिका-वालों को युद्धरूपी घोर अग्नि में तपना पड़ा था। स्टीम-रेलवे, विजली के तार और तत्समान अन्य सुविधाओं का प्रादुर्भाव तो वहाँ अवश्य हुआ परंतु यथासमय न होने के कारण वे, उत्तरीय एवं दक्षिणीय राज्यों के भेद-भावों, हित-साधनों तथा विचारों की बढ़ती हुई विभिन्नता को न रोक सके। दक्षिणीय राज्यों में दास-प्रथा अब भी जारी थी; परंतु उत्तर में सबको स्वतंत्रता प्राप्त थी। रेल और स्टीम-बोट का आगमन हांते ही सर्वप्रथम तो उत्तरीय तथा दक्षिणीय राज्यों का यह पुराना भेद-भाव और भी अधिक तीव्र हो गया। मेल बढ़ानेवाले आवागमन-संबंधी इन नये साधनों के कारण यह प्रश्न—कि दक्षिणीय विचारों की विजय होगी अथवा उत्तरीय की—अब और भी अभूतपूर्व-रूप से आवश्यक हो गया। समझौते की तब कोई संभावना न थी; क्योंकि उत्तरीय राज्य के तो स्वतंत्र विचार एवं वैयक्तिकवादी थे और दक्षिणवाले बड़ी-बड़ी जागीरों एवं उच्च वर्गों द्वारा काली प्रजा के समूह पर शासन किया चाहते थे।

जैसे-जैसे जनसंख्या की वृद्धि होकर उसका प्रवाह पश्चिम की ओर बढ़ता गया और नवीन भू-प्रदेश व्यवस्थित होकर राज्य का रूप धारण करते गये तैसे-तैसे, उन राज्यों के उन्नतिशील अमेरिकन विधान (System) में सम्मिलित होने ही वे (अर्थात् नवीन सम्मानित राज्य) भी इन परस्पर-विरोधी विचारों की रंगभूमि बनते गये। और वहाँ भी

यही प्रश्न उत्पन्न हो जाते थे कि राज्य में समस्त नागरिकों को स्वतंत्रता दी जाय या वैयक्तिक संपदा तथा दास-प्रथा के विधान जारी रहें। सन् १८३३ से अमेरिका की एक दास-विरोधिनी सभा भी इस कुप्रथा का न केवल विरोध प्रत्युत देश से इसका सर्वथा बहिष्कार करने के लिए आन्दोलन द्वारा प्रयत्न कर रही थी। परंतु टैक्सास नामक प्रदेश के यूनियन ( अर्थात् गोष्ठी ) में सम्मिलित करने पर इस समस्या के संबंध में प्रकाश्य रूप से झगड़ा छिड़ गया। यह प्रदेश सर्वप्रथम मैक्सिको प्रजातंत्र के अंतर्गत था, परंतु मुख्यतः दास-प्रथा के अनुयायी राज्यों की अमेरिकन प्रजा द्वारा बसाये जाने के कारण उससे संबंध-विच्छेद हो सन् १८३५ में स्वतंत्र हो गया था। तत्पश्चात् सन् १८४४ में इसको संयुक्त-राज्य की गुट्ट ( गोष्ठी ) में मिला लिया गया। मैक्सिको के कानून के अनुसार टैक्सास में दास-प्रथा का निषेध कर दिया गया था। अब दक्षिणीय राज्यों ने टैक्सास से फिर दासों को लेना प्रारंभ कर दिया।

परंतु समुद्र-यात्रा के साधनों में उन्नति हो जाने पर यूरोपीय प्रवासियों के दल के दल अब उत्तरीय राज्यों की जन-संख्या बढ़ाने के लिए उधर जा रहे थे। और इसी कारण आयोवा, विस्कॉन्सिन, मिन्सोटा और औरिगॉन की समस्त उत्तरीय ज़मींदारियों के राज्यों के समकक्ष मान लेने पर दास-प्रथा-विरोधी उत्तरीय राज्यों के सैनेट ( Senate ) और प्रतिनिधि-सभा ( House of Representatives ) में अधिक प्रतिनिधियों के आने की संभावना हो गई। दास-प्रथा-विनाशिनी प्रगति की ऐसी उन्नति होती देख, काँग्रेस में पराजित होने की आशंका से कपास-प्रधान दक्षिण ने भुँकलाकर अब यूनियन ( गोष्ठी ) में पृथक् होने की चर्चा छेड़ दी। और उत्तर से पृथक् हो ये लोग दक्षिण की ओर मैक्सिको और पश्चिमीय द्वीप-समूह में दास-प्रथा जारी रखनेवाले पनामा तक के राज्यों में सम्मिलित होने के सुख-स्वप्न देखने लगे।


सन् १८६० में विस्तार-विरोधी ऐब्रेहम लिंकन के प्रेसीडेंट चुने जाने के कारण, दक्षिणीय राज्यों ने यूनियन (गुट्ट) से पृथक् होने की ठान ली। और (दक्षिणीय) 'कैरोलिना' ने पृथक् होने का एक आदेश निकालकर युद्ध की तैयारियाँ भी प्रारंभ कर दीं। मिसीसिपी, फ्लोरिडा, ऐलावेमा, जॉर्जिया, लूिसियाना और टैक्सास के इनका साथ देने के पश्चात् ऐलावेमा के मॉट गॉमरी नामक स्थान में एक सभा द्वारा जैफ़रसन डैविस इस अमेरिकन राज्य-संघ के प्रेसीडेंट चुने गये और राज्य-व्यवस्था में इस हृवशी दास-प्रथा को भी स्पष्ट रूप से स्वीकृत किया गया।

संयोग-वश ऐब्राहम लिंकन, स्वतंत्रता के युद्ध के उपरान्त उत्पन्न होनेवाली नवीन लक्षणयुक्त जाति का आदर्श रूप था। पश्चिम और अग्रसर होनेवाले जनसाधारण-जन-

प्रवाह में इस व्यक्ति का प्राथमिक जीवन-काल भी कृष्ण की भाँति व्यतीत हुआ था। कैटकी में जन्म होने पर भी ( १८०९ ) बाल्यावस्था में उनका प्रथम तो इंडियाना और तत्पश्चात् इल्लिनोयस में लालन-पालन हुआ था। उन दिनों इंडियाना के पार्श्ववर्ती वनों में अत्यंत कठोर जीवन बिताना पड़ता था। घोर वन में बने हुए काठ के छोटे से अस्थायी मकान में इनकी पढ़ाई-लिखाई भी कुछ यों ही हुई। परंतु माता ने बहुत छोटी अवस्था से ही इनको पढ़ने का अभ्यास कराया और यह आगे चलकर अमित अध्ययन-शील हो गये। सतरह वर्ष की अवस्था में व्यायाम-कुशल पहलवान तथा दौड़नेवाले दृढ़ युवा के रूप में इनकी प्रसिद्धि हो गई थी। फिर कुछ काल तक इन्होंने एक स्टोर में क्लर्क की; तदुपरांत एक मद्यक की सहकारिता में स्टोर खोलने के कारण ये इतने अधिक ऋणी हो गये थे कि पंद्रह वर्ष तक उस बोझ से मुक्त न हो सके। सन् १८३४ में पचास वर्ष की अवस्था में ये इल्लिनोयस राज्य की ओर से प्रतिनिधि-सभा के सभासद चुने गये। उन समय दास-प्रथा-विषयक प्रश्न इल्लिनोयस में विशेषतया अधिक जोर पर था; और इसका कारण था काँग्रेस में दास-प्रथा के सबसे बड़े हामी ( पोपक ) सैनेटर डौंगोलस का इल्लिनोयस में निवास। निस्संदेह डौंगोलस एक अत्यंत विद्वान् एवं योग्य व्यक्ति थे। परंतु लेखों तथा व्याख्यानों द्वारा विरुद्ध आंदोलन कर लिंकन भी कुछ वर्षों में उन्नति कर अपने शक्ति-शाली एवं विजयी प्रतिस्पर्धी का सामना करने योग्य हो गये। सन् १८६० में प्रेसीडेंट पद के लिए इन दोनों प्रतिद्वंद्वियों का चरम सीमा तक पहुँचनेवाला युद्ध हुआ। और सन् १८६१ की चौथी मार्च को प्रेसीडेंट होने पर लिंकन ने दक्षिणीय राज्यों को वाशिंगटन के संयुक्त-राज्य से पृथक् हो युद्ध की तैयारी करते पाया।

अमेरिका के जन-प्रकोप में युद्ध करनेवाली परिशीण सेनाओं की संख्या सर्वप्रथम कुछ सहस्र होने पर भी पीछे से बढ़कर धीरे-धीरे लाखों तक पहुँच गई थी। यहाँ तक कि अंत में अकेले संयुक्त-राज्य की ओर से लड़नेवाले ही दस लाख से अधिक थे। न्यू मैक्सिको से लेकर पूर्वीय समुद्र-पर्यंत सरीखे विस्तृत क्षेत्र में होनेवाले इस युद्ध का ध्येय था वाशिंगटन और रिचमंड को जीतना। टेनेसी और वर्जिनिया के वनों पर्वतमालाओं और मिनी-सिपी के नीचे मैदानों में कभी आगे बढ़ने और कभी पीछे हटनेवाले इस वीरोचित युद्ध की अदम्य शक्तियों का वर्णन करना हमारे विषय से बाहर की बात है। इसमें भयानक जन-संहार एवं विनाश हुआ। आक्रमणों के प्रत्युत्तर आक्रमणों द्वारा दिये गये। आशा के पश्चात् निराशा और निराशा के पश्चात् आशा बार-बार उत्पन्न होती थी। ( यह चक्र इसी प्रकार चलता रहा। ) कभी वाशिंगटन संघ-राज्यों के हस्तगत होता हुआ प्रतीत होता था तो कभी संयुक्त-राज्यवाले रिचमंड की ओर धावा बोलते नज़र आते थे। अत्यंत

अधिक संख्या तथा हीन साधन होते हुए भी संघ-राज्यों की सेनाएँ जैनेरल ली नामक एक अत्यंत ही योग्य सेनानायक की अधीनता में थीं। इसके विरुद्ध यूनियन-सेनाओं के नायक अत्यंत अयोग्य थे। परंतु बार-बार पुरानों को हटाकर उनके स्थान में नये सेनापति नियत करते रहने पर, अंत में शर्मन और ग्रांट की अध्यक्षता में उत्तरवालों ने जर्जर एवं साधन-शून्य दक्षिण पर विजय प्राप्त कर ली। सन् १८६४ के अक्टोबर मास में संयुक्त-राज्यों की एक सेना शर्मन की अध्यक्षता में सांघिक सैन्य को बाईं ओर से चीर, टैनेस्सी में जॉर्जिया होती हुई, सांघिक-प्रदेशों को पारकर समुद्र-तट पर जा पहुँची।




अमेरिका का नदी में चलनेवाला पहला-पहल का एक स्टीमर

श्रीर वहाँ से फिर कैरोलिनान की ओर मुड़कर उन सेना ने संघ-सेनाओं को पार्श्व-भाग से घेरा कर लिया। इन बीच में ग्रांट ने भी ली के शर्मन के पुन. लौट आने तक रिचमंड के निरुद्ध ही रोक रखा। इन प्रकार ली ने, लाचार होकर, ९ अप्रैल १८६५ को ऐप्पोमेटॉक्स (Appomattox) गैटहाउस के सम्मुख सेना-निरत आत्मसमर्पण कर दिया। तदनंतर एक ही नाम के भीतर जेफ बिट्रोरी (Secessionist) सैन्य ने हथियार उलट दिये और संघ-राज्य का तट के निष्ठा अंत हो गया।

## सयुक्त राज्य की विस्तार-वृद्धि

१८५

चार ही वर्ष के इस युद्ध के कारण सयुक्त-राज्य निवासियों पर महान कायिक एवं नैतिक कष्ट आ पड़ा था। राज्य स्वातन्त्र्य के तत्त्व को जी जान से माननेवाले बहुत



ऐब्रेहम लिंकन

मनुष्यों की दृष्टि में उत्तरीय-राज्य दास-प्रथा उठाने की नीति का भार दक्षिण पर  
दस्ती लादना चाहते थे। सीमा-स्थित राज्यों में भाई और कुटुंबी तो क्या बरन् पिता  
फा० २४

और पुत्र तक प्रतिद्वंद्वी सेनाओं में भरती हो एक दूसरे का सामना करने के लिए उतारू हो गये थे। उत्तरवाले अपने पक्ष को न्यायानुकूल समझते थे, परंतु बहुत से मनुष्य उसको पूर्णतया यथार्थ न मानते थे। हाँ, लिंकन के हृदय में संदेह के लिए तिलमात्र भी स्थान न था। इस घोर अव्यवस्था में भी उनका चित्त एवं मस्तिष्क पूर्णतया शांत था। वे एकता के हामी थे और समस्त अमेरिका में शांति फैलाना उनका उद्देश्य था। यह ठीक है कि वे दाम-पथा के विरोधी थे, परंतु यह प्रश्न तो गौण था। संयुक्त-राज्य आपस में विभक्त होकर कहीं छिन्न-भिन्न न हो जायँ—इस ध्येय का साधन ही उनका प्रधान कर्त्तव्य था।

युद्धारंभ होते ही कांग्रेस और संयुक्त-राज्य के जेनरलों (सेनाध्यक्षों) ने जब सहसा दास मुक्त करने प्रारंभ किये तो लिंकन ने इस नीति का विरोध कर उनके जोश को बहुत कुछ ठंडा कर दिया था। वे तो मूल्य देकर क्रमशः दासों को मुक्त करने के पक्ष में थे। इस प्रकार कार्य करने पर कहीं जनवरी सन् १८६५ में परिस्थिति इतनी दृढ़ हो पाई कि कांग्रेस में दास-प्रथा के लोप करने का प्रस्ताव संशोधन के रूप में उपस्थित किया जा सका। और इस संशोधन के संबंध में सम्मिलित-राज्यों की स्वीकृति होने से पूर्व युद्ध कभी का समाप्त हो चुका था।

जब सन् १८६२ और १८६३ में भी युद्ध चलता रहा तो प्राथमिक औत्सुक्य एवं उत्साह क्षीण हो गये और अमेरिका को युद्ध-जनित श्रम एवं अरुचि का पता चल गया। इस समय प्रेसीडेंट ने देखा कि अटर्चन डालनेवाले, देशद्रोही पदच्युत जेनरल, कुटिल दलबंद राजनीतिज्ञ तथा शांतिचिंतित श्रांत प्रजागण उनके पृष्ठ पर थे; और उत्साहहीन जेनरल तथा म्लान सैन्यदल उनके सम्मुख। ऐसी दशा में यदि उनको संतोष होता होगा तो केवल इस विचार से कि रिचमंड में उनका प्रतिद्वंद्वी जेम्स डेविस भी कुछ इससे अधिक अच्छी दशा में न हो सकता था। संघ-राज्यों के प्रतिनिधियों को अँगरेज़-सरकार ने अपने देश (इंग्लैंड) में तीन जहाज़—जिनमें ऐलवेमा का नाम अत्यंत ही प्रसिद्ध है—मुसजित करने देकर संयुक्त-राज्य के नायक अत्यंत ही दुरचेष्टा का व्यवहार किया था। इन जहाज़ों ने वहाँ के पोतों का पोंछा कर उनको मार भगाया। इसी समय फ्रेंच सेनाएँ भी मैक्सिको पर आक्रमण कर 'सुनरो मिलांत' की अवहेलना कर रहीं थीं। ऐसे समय में रिचमंड में वह मार्मिक प्रस्ताव आया कि युद्ध बंद कर दो। जिस प्रश्न को लेकर युद्ध किया गया है उन्को, पुनः विचार के लिए, स्वीकृत कर दो। इस समय तो 'नायिक' एवं 'संयुक्त' राज्यों को मिलाकर मैक्सिको में फ्रान्सीसियों का नामना करना चाहा। परंतु लिंकन ने संयुक्त-राज्य का प्रमुख स्थापित हुए बिना इन प्रस्तावों पर ध्यान देना भी

उचित न समझा। उनका मत तो यह था कि अमेरिकन लोग ऐसे कार्य एकजाति बनकर करेंगे, न कि दो।

महीनों के श्रमजनक दैव-दुर्विपाकों, असफल प्रयत्नों तथा भेद की घनी घटाओं से घिरने और उत्साह के शिथिल होने पर भी उन्होंने संयुक्त राज्य को कभी एकता से विचलित न होने दिया। अपने ध्येय से वे कभी अणुमात्र भी विचलित हुए हों, इसका कोई भी उल्लेख नहीं मिलता। किसी समय तो वे निवृत्तकार्य हो उग्र एवं दृढ़ निश्चय की मूर्त्तिवत् मूक निश्चल भाव से हाइट हाउस में बैठ जाते थे और कभी चिन्त-शांति के लिए आमोद-प्रमोद करने एवं कहानियाँ कहने लग जाते थे।

अंत में उन्होंने यूनियन सरकार के गले में जयमाल पहिरा ही तो दी। रिचमंड के पतन के दूसरे दिन वे वहाँ गये और ली के आत्म-समर्पण की बात सुनी। इसके पश्चात् वे वाशिंगटन को लौट आये जहाँ उन्होंने ग्यारह अप्रैल के दिन अपना अंतिम सार्वजनिक भाषण दिया। इसमें मेल करने और विजित राज्यों में यूनियन-आज्ञानुवर्त्ती शासन-प्रणाली स्थापित करने का वर्णन किया गया था। चौदह अप्रैल की रात्रि को वे फ़ोर्ड-थियेटर में बैठे हुए अभिनय देख रहे थे कि बूथ नामक एक ऐक्टर ने, जो उनसे कुछ द्वेष रखता था, चुपके से उनके बैठने के स्थान में आ पीछे से उनके सिर पर गोली चला दी जिसके कारण उनका तुरंत प्राणान्त हो गया। परंतु लिंकन का कार्य तो अब समाप्त हो चुका था। उनका प्यारा यूनियन अब भली भाँति सुरक्षित था।

युद्ध के आरंभ में प्रशांत तट तक रेल न थी; परंतु उसके पश्चात् ही वह, तीव्र गति से बढ़नेवाली बेल के समान, बढ़ गई और समस्त देश को जकड़कर संयुक्त-राज्य सरीखे विस्तृत देश के बहुसंख्यक जन-समाज में उसने अत्यंत अविलयनशील ऐसा मान-सिद्ध एवं भौतिक ऐक्य स्थापित कर दिया कि यह जाति समस्त संसार में—चीन देश का साधारण जनता के साक्षर होने तक—अद्वितीय रहेगी।



## यूरोप में जर्मनो की ऐश्वर्यमय प्रगति

फ्रां च क्रांति एवं नैपोलियन के साहसी कृत्यों के क्षोभ के लय होने पर यूरोप ने पन्चान वर्ष पूर्वोक्त राजनैतिक दशा को पुनर्जीवित कर और उसके प्रकार-विशेष का आधुनिक रूप दे किम प्रकार अस्थिर अस्थिर शांति प्राप्त की थी, इसका उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं। स्टील-उपयोग संबंधी नये साधनों तथा रेल और वाष्प-चालित जहाजों के व्यवहार किये जाने पर भी १९वीं शताब्दी के मध्य तक कोई प्रत्यक्ष राजनैतिक फल दृष्टि-गोचर न हुआ। परंतु नागरिक औद्योगिक उन्नति के कारण सामाजिक तनातनी खूब पैदा हो गई थी और इनका प्रभाव फ्रांस ही में अधिक स्पष्ट हुआ। सन् १८३० की क्रांति के अनंतर उन देश में एक और क्रांति हुई (१८४८); तत्पश्चात् नैपोलियन बोनापार्ट का भतीजा तृतीय नैपोलियन के नाम ने प्रथम प्रेसीडेंट हुआ और फिर सन् १८५२ में उसने सम्राट् की पदवी ग्रहण कर ली।

शान्ति नियत होते ही उसने पेरिस का पुनर्निर्माण प्रारंभ कर मध्य शताब्दी के विचार परंतु अन्वय नगर के आधुनिक स्टाटिकमय विशद लैटिनीय नगर में परि-वर्तित कर दिया। यही नहीं, अपितु फ्रांस का भी पुनर्निर्माण कर सम्राट् ने उसको तत्कालमान आधुनिक राज-तंत्र (Imperialism) का रूप प्रदान कर दिया। मध्य शताब्दी और अठारहवीं शताब्दी में यूरोप को व्यर्थ ही युद्धमयी में निमग्न करनेवालों की रीति-रिवाजों ने प्रतिस्पर्धा को उस राजा की प्रशंसा के कारण ही अब पुनर्जीवित होने का प्रारंभ मिलता था। रूस के त्तर प्रथम निशोलम (१८२५-५६) आक्रमण करने के बाद से, तुर्कस्तानिका पर दृष्टि लगाये, साम्राज्य ने दक्षिण की ओर अधिकधिक दृष्टि को रीति।

उस एक शताब्दी नवीन होने पर यूरोप में नवीन युद्धनक प्रारंभ हुआ। ये युद्ध समस्त यूरोप का संतुलन (Balance-of-Power) तथा उत्कर्ष-प्राप्ति के निष्पत्ति किये

गये थे। क्रीमिया के युद्ध में फ्रांस, इंग्लैंड और सार्डिनिया ने तुर्की के बचाव के लिए रूस से युद्ध किया; प्रुशिया ने जर्मनी में प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए ( इटैली से सहायता ले ) ऑस्ट्रिया से युद्ध किया; फ्रांस ने सेवोय खोकर भी उत्तरीय इटैली को ऑस्ट्रिया के पंजे से छुड़ाया; और फिर धीरे-धीरे संगठित होकर इटैली भी एक राज्य बन गया। उधर अमेरिकन जन-प्रकोप के समय तृतीय नैपोलियन ने कुमंत्रणा में पड़ मैक्सिको में अपने हित-साधन के लिए मैक्समिलियन को वहाँ का सम्राट् घोषित कर दिया था, परंतु विजेता संयुक्त-राज्य के आँखें दिखाते ही उसको भाग्य के भरोसे छोड़ नैपोलियन आप तो शीघ्रतापूर्वक अलग हो गया और वेचारे मैक्समिलियन को मॅक्सिकन गोलियों का शिकार बनना पड़ा।

उत्कर्ष-प्राप्ति के लिए फ्रांस और प्रुशिया के मध्य, सन् १८७० में, यूरोप में चिरस्थायी कलह प्रारंभ हुआ। पूर्वज्ञान के कारण प्रुशिया तो इसके लिए तैयार था, परंतु दूषित आर्थिक दशा में पड़ा हुआ फ्रांस निःसत्त्व हो रहा था और अभिनय के सदृश उसकी पराजय भी शीघ्र हो गई। अगस्त मास में जर्मनी ने फ्रांस पर धावा बोला। एक बृहत् फ्रेंच सेना ने सम्राट् की अध्यक्षता में सितंबर मास में सैडान में हथियार डाल दिये और दूसरी ने सेटुज़ नामक स्थान में आक्टोबर में आत्मसमर्पण कर दिया। फिर जनवरी सन् १८७१ में पेरिस भी जर्मनी के गोलावारी करने और मुहासिरा डालने पर उनके हस्तगत हो गया। फलतः ऐलसैस और लौरैन नामक सूबे जर्मनी को देकर फ्रैंक-फ्रीट में सधि-पत्र पर हस्ताक्षर किये गये। और ऑस्ट्रिया के अतिरिक्त समस्त जर्मन राज्यों ने ऐक्य-सूत्र में ग्रथित हो एक नवीन साम्राज्य की नींव डाली। इस प्रकार यूरोपीय सीतारों के सुवास्तु-मंडल (Galaxy) में प्रुशिया के राजा भी अब जर्मन सम्राट् के रूप से स्थापित कर दिये गये।

तदनंतर आगामी तैंतालीस वर्ष तक यूरोपीय महाशक्तियों में जर्मन साम्राज्य अग्रणी रहा। और सन् १८७७-७८ के तुर्क-रूसी युद्ध के अतिरिक्त, तथा बलकान-संबंधी घट-बढ़ (संशोधन) के छोड़ यूरोप में तीस वर्ष तक, अनिच्छा होते हुए भी, सीमा-संबंधी कोई अन्य परिवर्तन न हुआ।

## समुद्र-पोत और रेलवे द्वारा स्थापित समुद्र-पार का नवीन साम्राज्य

षोडशवीं शताब्दी का अंतिमांश ही साम्राज्यों के छिन्न-भिन्न होने और विस्तारेच्छुकों के उत्थान का समय था। उस समय ब्रिटेन और स्पेन से तत्संबंधी अमेरिका के उपनिवेशों को सुदीर्घ यात्रा के कारण, मातृ-भूमि और पुत्री-भूमि के बीच स्वेच्छापूर्वक आवागमन में रुकावट होती थी। इस प्रकार वे उपनिवेश पृथक् होकर नवीन एवं भिन्न जातियों में परिणत हो गये और उनमें रहनेवाली जातियों के विचार, हिताहित एवं भाषोच्चारण की विधि भी भिन्न हो गईं। और जैसे-जैसे इन नवीन जातियों की वृद्धि

भारत प्रायद्वीप का ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शासित लगभग एक तृतीयांश था; अफ्रीका में गुडहोप अंतरीप के तटस्थ ज़िले थे जहाँ आदिम कृष्णवर्ण मनुष्य तथा विद्रोही उच्च प्रवासी निवास करते थे। इनके अतिरिक्त पश्चिमीय अफ्रीका-तटस्थ कुछ व्यापारी मंडियाँ, जिव-राल्टर शैल, मालटा द्वीप, जमैका, दास कुलियों द्वारा आवाद पश्चिमीय द्वीप-समूह में कुछ लुद्ध स्थान, दक्षिणीय अमेरिका का वृटिश गायना और संसार के दूसरी ओर टैंग्मैनिया तथा ऑस्ट्रेलिया की बौटनी वे ( बौटनी की खाड़ी ) थीं जहाँ बंदियों के रहने के लिए दो ग्लानि-जनक स्थान थे। स्पेन के पास क्यूबा और फिलिपाइन द्वीप-समूह में कुछ उप-निवेश शेष रह गये थे; पुर्तगाल का भी प्राचीन अधिकारों के चिह्न-रूप अफ्रीका के कुछ स्थानों पर कब्ज़ा था। उच्च गायना और पूर्व भारतीय द्वीप-समूह के भिन्न द्वीपों को होलड अपनाये हुए था। डेनमार्क के पास पश्चिमीय द्वीप-समूहों में एक-आध द्वीप था; और फ्रेंच गायना तथा पश्चिम भारतीय द्वीप-समूहों के एक या दो द्वीपों पर फ्रान्स का आधिपत्य था। यूरोपीय शक्तियाँ संसार में जो कुछ हस्तगत कर सकी थीं वा जिनकी उनको आवश्यकता थी, उसकी इतनी ही सीमा थी। केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिक विस्तृत होने की उत्सुकता प्रदर्शित की।

जिस समय यूरोप नैपोलियन से युद्ध करने में फँसा हुआ था उन्हीं नमय अपने पूर्वाभिगामी तुर्क तथा अन्य उत्तरीय आक्रमणकारियों के समान ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारतीय रंगमंच पर क्रमानुसार आनेवाले अपने गवर्नर-जनरलों की अघ्यत्ता में एक वैसा ही अभिनय कर रही थी। और यह अर्ध-स्वतंत्र राज्य—अथवा वह राज्य कि जिसका मुख्य उद्देश्य उस देश के धन को पश्चिम ओर ले जाना था—वियेना की संधि के पश्चात् राजकर-ग्रहण, युद्ध-संचालन एवं एशिया की शक्तियों के दरबारों में राजदूत प्रेषण करता रहा।

कभी किसी शक्ति की मित्र बन, कभी किसी से मेल कर और अंत में विजेता की भाँति यह अँगरेज़ कंपनी उस देश में किस प्रकार प्रभुत्व के पथ पर अग्रसर हुई, इनका विस्तृत विवरण हम यहाँ पर नहीं दे सकते। आत्तम, निधु और अदध नन्ही न्यानों पर इसका आधिपत्य फैल गया। अँगरेज़ विद्यार्थियों की परिचित आधुनिक भारतीय (मान) चित्र की बहिरेखा भी—जिसमें जहाँ-तहाँ स्थित देशी राज्य, प्रत्येक वृटिश शासनार्थीन बड़े बड़े प्रान्तों द्वारा घिरकर ऐक्य-मूढ़ में बंधे हुए हैं—इन्हीं नमय निर्माण हो रही थी।

भारतीय सेना के भयानक विद्रोह के अनंतर सन् १८५९ में कंपनी का यह बृहत् साम्राज्य वृटिश राज-मुकुट से संयोजित कर दिया गया। “भारत में अधिक उच्चन शासन-विधि स्थापित

## स्टोम-पोत और रेलवे द्वारा स्थापित समुद्र-पार का नवीन साम्राज्य

अठारहवीं शताब्दी का अंतिमांश ही साम्राज्यों के छिन्न-भिन्न होने और विस्तारेच्छुकों के स्वप्न-भंग का समय था। उस समय ब्रिटेन और स्पेन से तत्संबंधी अमेरिका के उपनिवेशों की सुदीर्घ यात्रा के कारण, मातृ-भूमि और पुत्री-भूमि के बीच स्वेच्छापूर्वक आवागमन में रुकावट होती थी। इस प्रकार वे उपनिवेश पृथक् होकर नवीन एवं भिन्न जातियों में परिणत हो गये और उनमें रहनेवाली जातियों के विचार, हितहित एवं भाषोच्चारण की विधि भी भिन्न हो गईं। और जैसे-जैसे इन नवीन जातियों की वृद्धि हुई तैसे-तैसे इनसे संबंध स्थिर रखनेवाले हीन एवं अनिश्चित जल-वाही साधन क्षीण होते गये। दुर्गम वनों में स्थित हीन व्यापारी मंडियों (जैसी कि कैनेडा में फ्रांस की थीं) अथवा महान् विदेशीय जातियों के मध्य बसी हुई तिजारती कोठियों के लिए (जैसी कि अंगरेजों की भारत में थीं) अपना अस्तित्व बनाये रखने के निमित्त पोषक एवं अवलंबदायिनी जाति के आश्रय का भिन्न होना संभव है। उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में बहुत से विचारशील पुरुषों की धारणा थी कि समुद्र-पार के शासन का यही हेतु था; अन्य नहीं। अठारहवीं शताब्दी के मध्य-कालीन (मान) चित्रों में यूरोपीय सीमा के बाहर जिन बड़े-बड़े यूरोपीय साम्राज्यों के चित्र सुव्यक्त रूप से अंकित किये जाते थे, वही अब सन् १८२० में सिकुड़कर अत्यंत नुद्ध सीमा से परिमित हो गये। केवल रूस (पशुओं की भाँति) अव्यवस्थित रूप से अंग फैलाकर एशिया के पार तक पूर्व जैसा बना रहा।

सन् १८१५ में, ब्रिटिश-साम्राज्य के अंतर्गत कैनेडा प्रदेश में नुद्ध जन-संख्या-युक्त समुद्रतटस्थ नद एवं हृद प्रदेश और अरण्यों में कुछ निर्देशित स्थान थे जहाँ उस समय समुद्र का व्यापार करनेवाली हडसन वे कंपनी के अतिरिक्त एक भी अन्य उपनिवेश न था,

भारत प्रायद्वीप का ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शासित लगभग एक तृतीयांश था; अफ्रीका में गुडहोप अंतरीप के तटस्थ जिले थे जहाँ आदिम कृष्णवर्ण मनुष्य तथा विद्रोही उच्च प्रवासी निवास करते थे। इनके अतिरिक्त पश्चिमीय अफ्रीका-तटस्थ कुछ व्यापारी मटियाँ, जिन-राल्टर शैल, मालटा द्वीप, जमैका, दास कुलियों द्वारा आवाद पश्चिमीय द्वीप-समूह में कुछ लुद्र स्थान, दक्षिणीय अमेरिका का ब्रिटिश गायना और संसार के दूसरी ओर टेन्सैनिया तथा ऑस्ट्रेलिया की वौटनी वे ( वौटनी की खाड़ी ) थी जहाँ बंदियों के रहने के लिए दो ग्लानि-जनक स्थान थे। स्पेन के पास क्यूबा और फिलिपाइन द्वीप-समूह में कुछ उपनिवेश शेष रह गये थे; पुर्तगाल का भी प्राचीन अधिकारों के चिह्न-रूप अफ्रीका के कुछ स्थानों पर कब्जा था। उच्च गायना और पूर्व भारतीय द्वीप-समूह के भिन्न द्वीपों को हॉलंड अपनाये हुए था। डेनमार्क के पास पश्चिमीय द्वीप-समूहों में एक-प्राध द्वीप था; और फ्रेंच गायना तथा पश्चिम भारतीय द्वीप-समूहों के एक या दो द्वीपों पर फ्रांस का आधिपत्य था। यूरोपीय शक्तियाँ संसार में जो कुछ हस्तगत कर सकी थी या जिनकी उनको आवश्यकता थी, उसकी इतनी ही सीमा थी। केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिक विस्तृत होने की उत्सुकता प्रदर्शित की।

जिस समय यूरोप नैपोलियन से युद्ध करने में फँसा हुआ था उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्ध में तुर्क तथा अन्य उत्तरीय आक्रमणकारियों के समान ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारतीय रंगमंच पर क्रमानुसार आनेवाले अपने गवर्नर-जनरलों की अध्यक्षता में एक वैसा ही अभिनय कर रही थी। और यह अर्ध-स्वतंत्र राज्य—अथवा वह राज्य कि जिसका मुख्य उद्देश्य उस देश के धन को पश्चिम ओर ले जाना था—वियेना की संधि के पश्चात् राजकर-ग्रहण, युद्ध-संचालन एवं एशिया की शक्तियों के दरबारों में राजदूत प्रेषण करता रहा।

कभी किसी शक्ति की मित्र बन, कभी किसी से मेल कर और अंत में विजेता की भाँति यह अंगरेज कंपनी उस देश में किस प्रकार प्रभुत्व के पथ पर अग्रसर हुई, इनका विस्तृत विवरण हम यहाँ पर नहीं दे सकते। आसाम, सिंधु और अवध सभी स्थानों पर इसका आधिपत्य फैल गया। अंगरेज विद्यार्थियों की परिचित आधुनिक भारतीय (मान) चित्र की बहिरेखा भी—जिसमें जहाँ-तहाँ न्यून देशी राज्य, प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासनाधीन बड़े बड़े प्रान्तों द्वारा घिरकर ऐक्य-सूत्र में बंधे हुए हैं—उनकी समय निर्माण हो रही थी।

भारतीय सेना के भयानक विद्रोह के अनंतर मन् १८५९ में कंपनी का यह बृहत् साम्राज्य ब्रिटिश राज-मुकुट से संयोजित कर दिया गया। “भारत में अधिक उत्तम शासन-विधि स्थापित

करनेवाला कानून (An act for the Better Government of India) नाम के एक नव-विधान द्वारा गवर्नर-जनरल सम्राट् का प्रतिनिधि अर्थात् वाइसरोय हो गया, और लंदनस्थ कंपनी के स्थान में बृटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी एक भारत-सचिव नियुक्त कर दिया गया। तत्पश्चात् रानी विकटोरिया को भारतवर्ष की सम्राज्ञी घोषित कर लॉर्ड वेकन्सफ़ील्ड ने शेष कार्य भी सन् १८७७ में समाप्त कर दिया।

इस लोकोत्तर रीति से भारत आज इंग्लैंड से संबद्ध है, तथापि वह देश अभी तक 'महान् मुगल-साम्राज्य' की भाँति ही चला जाता है। परंतु महान् मुगल सम्राट् का स्थान अब इंग्लैंड के मुकुट-धारी प्रजातंत्र ने ले लिया है। वहाँ की शासन-प्रणाली में अनियंत्रित शासन के समस्त दोषों के साथ ही साथ अपौरुषेय एवं अनुत्तरदायी प्रजा-सत्तात्मक अधिकारिवर्गीयता भी विद्यमान है। भारतीयों के दुःख निवेदन के लिए कोई सम्राट् नहीं है जिसकी वे शरण लें। सुनहरा चिह्न (Golden Symbol) ही उनके लिए सम्राट् है। इंग्लैंड में क्षुद्र पत्रिकाएँ वितरित करना और बृटिश हाउस ऑफ कामन्स में प्रश्न कराना ही उनका एकमात्र अवलंब है। बृटिश कार्यों में पार्लियामेंट जितना ही अधिक व्यस्त होगी उतनी ही न्यून आसक्ति उसकी भारत पर रहेगी और उतना ही अधिक भारत क्षुद्र-संख्यक उच्चपदस्थ कर्मचारियों की दया पर अवलंबित रहेगा।

जब तक रेलवे और वाष्पचालित जहाज़ प्रभावोत्पादक विधि से चालित न हुए तब तक भारत को छोड़ किसी अन्य स्थान पर किसी यूरोपीय साम्राज्य का विस्तार न हो सका। स्वयं इंग्लैंड ही के बहुत से राजनीतिज्ञ समुद्र पार के इन अधिकृत देशों को अपने देश के लिए दुर्बलता का कारण समझते थे। ऑस्ट्रेलिया के उपनिवेशों की भी धीरे-धीरे वृद्धि हुई थी। परंतु सन् १८४२ में बहमल्य ताँबे की तथा सन् १८५१ में सोने

और समुद्र के नीचे विछे हुए विजली के तार समस्त उपनिवेशोन्नति के हेतुओं में परिवर्तन कर रहे हैं।

न्यूजीलैंड में अँगरेज़ी उपनिवेश सन् १४४० से पूर्व ही स्थापित होने लगे थे। और उस द्वीप के संभवनीय लाभ को प्राप्त करने के लिए न्यूजीलैंड-भू-कंपनी नामक एक नवीन संस्था भी बना ली गई थी। सन् १८४० में न्यूजीलैंड ब्रिटिश-मुकुटाधीन उपनिवेशों में सम्मिलित कर लिया गया।

कैनेडा—जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं—ब्रिटेन के अधिकृत देशों में ऐसा प्रथम देश था जिसने आवागमन-संबंधी नये साधनों के कारण उत्पन्न होनेवाली नवीन आर्थिक संभावनाओं को खूब जी खोलकर अपनाया। इसके अनंतर दक्षिण अमेरिका के प्रजातंत्रों को भी (जिनमें अरजैन्टाइन प्रजातंत्र का नाम विशेषतया उल्लेख योग्य है) अपने द्वारों के व्यापार और क्रहवा की उपज के लिए यूरोपीय मंडियाँ पहले से कहीं अधिक निकट प्रतीत होने लगीं। सुवर्ण आदि धातु, मसाले, हाथीदांत अथवा दासों ही के लिए यूरोपीय शक्तियाँ अब तक इन अव्यवस्थित एवं बर्बर देशों की ओर आकर्षित होती थीं; परंतु उन्नीसवीं शताब्दी के तीसरे चरण में एक तो यूरोपीय जन-संख्या की वृद्धि होने के कारण विविध गवर्नमेंटों विवश हो बाहर से भोज्य पदार्थ मँगाने के लिए चिंतित हो रही थीं, दूसरे उद्योग एवं कला-कौशल में वैज्ञानिक विधि से उन्नति होने के कारण नव प्रकार के कच्चे माल, घृत, तैल, विविध प्रकार की चर्बी तथा रबर आदि ऐसी अन्य वस्तुओं की भी अब उनको अत्यंत आवश्यकता होने लगी जिनको पहले कोई पूछता भी न था। उष्णकटिबंधीय तथा उनसे मिले हुए निचले प्रदेशों (Tropical and Sub-tropical) की उपज पर अत्यंत दृढ़ नियंत्रण रखने के कारण, ग्रेट ब्रिटेन, हॉलैंड और पुर्तगाल का व्यापार-संबंधी लाभ कैसी शीघ्रता से अधिकाधिक बढ़ रहा था, यह भी सबको प्रत्यक्ष था। सन् १८७१ के पश्चात् जर्मनी, फिर फ्रांस और तदुपरांत इटैली भी इन कच्चा माल उत्पन्न करनेवाले असम्मिलित भूभागों (Unannexed) अथवा आधुनिक सभ्यता ग्रहण-योग्य लाभोत्पादक पूर्वोक्त देशों के लिए चिंतित हो उठे।

इस प्रकार राजनैतिक रूप से अरक्षित संसार के समस्त भागों में पुनः छीन-भंग प्रारंभ हो गई। केवल अमेरिका का भूभाग ही बचा रहा, जहाँ 'मुनरो-सिद्धांत' ऐसे साहसी कृत्यों को रोक रहा था।

अल्प संभावनाओं से युक्त अफ्रीका यूरोप के निकट ही स्थित था, परंतु यह महाद्वीप सन् १८५० में भी सांधकार रहस्यमय था। यहाँ के समुद्र-तटस्थ देश तथा निरक्ष ही (उस समय) लोगों को विदित थे। अफ्रीका के इस निविडान्धकार को सर्वप्रथम



करनेवाला कानून (An act for the Better Government of India) नाम के एक नव-विधान द्वारा गवर्नर-जनरल सम्राट का प्रतिनिधि अर्थात् वाइसरॉय हो गया, और लंदनस्थ कंपनी के स्थान में ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी एक भारत-सचिव नियुक्त कर दिया गया। तत्पश्चात् रानी विकटोरिया को भारतवर्ष की सम्राज्ञी घोषित कर लॉर्ड वेकन्सफील्ड ने शेष कार्य भी सन् १८७७ में समाप्त कर दिया।

इस लोकोत्तर रीति से भारत आज इंग्लैंड से संबद्ध है, तथापि वह देश अभी तक 'महान् मुगल-साम्राज्य' की भाँति ही चला जाता है। परंतु महान् मुगल सम्राट का स्थान अब इंग्लैंड के मुकुट-धारी प्रजातंत्र ने ले लिया है। वहाँ की शासन-प्रणाली में अनियंत्रित शासन के समस्त दोषों के साथ ही साथ अपौरुपेय एवं अनुत्तरदायी प्रजासत्तात्मक अधिकारिवर्गीयता भी विद्यमान है। भारतीयों को दुःख निवेदन के लिए कोई सम्राट नहीं है जिसकी वे शरण लें। सुनहरा चिह्न (Golden Symbol) ही उनके लिए सम्राट है। इंग्लैंड में क्षुद्र पत्रिकाएँ वितरित करना और ब्रिटिश हाउस ऑफ कामन्स में प्रश्न कराना ही उनका एकमात्र अवलंब है। ब्रिटिश कार्यों में पार्लियामेंट जितना ही अधिक व्यस्त होगी उतनी ही न्यून आसक्ति उसकी भारत पर रहेगी और उतना ही अधिक भारत क्षुद्र-संख्यक उच्चपदस्थ कर्मचारियों की दया पर अवलंबित रहेगा।

जब तक रेलवे और वाष्पचालित जहाज़ प्रभावोत्पादक विधि से चालित न हुए तब तक भारत को छोड़ किसी अन्य स्थान पर किसी यूरोपीय साम्राज्य का विस्तार न हो सका। स्वयं इंग्लैंड ही के बहुत से राजनीतिज्ञ समुद्र पार के इन अधिकृत देशों को अपने देश के लिए दुर्बलता का कारण समझते थे। ऑस्ट्रेलिया के उपनिवेशों की भी धीरे-धीरे वृद्धि हुई थी। परंतु सन् १८४२ में बहुमूल्य ताँबे की तथा सन् १८५१ में सोने की खानें मिलने पर इन स्थानों को विशेष महत्त्व प्राप्त हो गया। फिर आवागमन-संबंधी साधनों में उन्नति होने पर वहाँ के ऊन की खपत भी यूरोप के बाज़ारों में अधिकाधिक बढ़ती गई। सन् १८४९ तक कैनेडा की उन्नति भी फ्रेंच और अंगरेज़ प्रजा के पारस्परिक विरोध के कारण शिथिल रही। वहाँ कतिपय भयानक विद्रोह (तक) हो गये परंतु सन् १८६७ में नवीन व्यवस्था द्वारा कैनेडा में सांघिक उपनिवेश (Federal) स्थापित होते ही ये गृहकलह शांत हो गये। रेल द्वारा ही कैनेडा का दृष्टिकोण बदला। इसी के कारण वह देश भी संयुक्त राज्यों की भाँति पश्चिम की ओर अग्रसर हुआ और उसने अनाज आदि अपनी अन्य उपज यूरोप की मंडियों को भेजनी प्रारंभ कर दी। इसी कारण तद्देशीय जनता इतने वेग से विस्तृत होने पर भी भाषा, हिताहित-विचार एवं प्रकृति के लिहाज़ से एक समाज सृष्टि बनी रही। और वास्तव में वाष्पचालित जहाज़

और समुद्र के नीचे बिछे हुए विजली के तार समस्त उपनिवेशोन्नति के हेतुओं में परिवर्तन कर रहे हैं।

न्यूजीलैंड में अँगरेज़ी उपनिवेश सन् १४४० से पूर्व ही स्थापित होने लगे थे। और उस द्वीप के संभवनीय लाभ को प्राप्त करने के लिए न्यूजीलैंड-भू-कंपनी नामक एक नवीन संस्था भी बना ली गई थी। सन् १८४० में न्यूजीलैंड ब्रिटिश-मुकुटाधीन उपनिवेशों में सम्मिलित कर लिया गया।

कैनेडा—जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं—ब्रिटेन के अधिकृत देशों में ऐसा प्रथम देश था जिसने आवागमन-संबंधी नये साधनों के कारण उत्पन्न होनेवाली नवीन आर्थिक संभावनाओं को खूब जी खोलकर अपनाया। इसके अनंतर दक्षिण अमेरिका के प्रजातंत्रों को भी ( जिनमें अरजैन्टाइन प्रजातंत्र का नाम विशेषतया उल्लेख योग्य है ) अपने ढोरों के व्यापार और क्रहवा की उपज के लिए यूरोपीय मंडिर्या पहले से कहीं अधिक निकट प्रतीत होने लगीं। सुवर्ण आदि धातु, मसाले, हाथीदांत अथवा दासों ही के लिए यूरोपीय शक्तियाँ अब तक इन अव्यवस्थित एवं बर्बर देशों की ओर आकर्षित होती थीं; परंतु उन्नीसवीं शताब्दी के तीसरे चरण में एक तो यूरोपीय जन-संख्या की वृद्धि होने के कारण विविध गवर्नमेंटों विवश हो बाहर से भोज्य पदार्थ मँगाने के लिए चिंतित हो रही थीं, दूसरे उद्योग एवं कला-कौशल में वैज्ञानिक विधि से उन्नति होने के कारण मय प्रकार के कच्चे माल, घृत, तैल, विविध प्रकार की चर्चों तथा रबर आदि ऐसी अन्य वस्तुओं की भी अब उनके अत्यंत आवश्यकता होने लगी जिनको पहले कोई पृच्छता भी न था। उष्णकटिबंधीय तथा उनसे मिले हुए निचले प्रदेशों ( Tropical and Sub-tropical ) की उपज पर अत्यंत दृढ़ नियंत्रण रखने के कारण, ग्रेट ब्रिटेन, हॉलैंड और पुर्चगाल का व्यापार-संबंधी लाभ कैसी शीघ्रता से अधिकाधिक बढ़ रहा था, यह भी सबको प्रत्यक्ष था। सन् १८७१ के पश्चात् जर्मनी, फिर फ्रांस और तदुपरांत इटली भी इन कच्चा माल उत्पन्न करनेवाले असम्मिलित भूभागों ( Unannexed ) अथवा आधुनिक सभ्यता ग्रहण-योग्य लाभोत्पादक पूर्वीय देशों के लिए चिंतित हो उठे।

इस प्रकार राजनैतिक रूप से अरक्षित संसार के समस्त भागों में पुनः छीन-भंग प्रारंभ हो गई। केवल अमेरिका का भूभाग ही बचा रहा, जहाँ 'मुनरो-सिद्धांत' ऐसे साहसी कृत्यों को रोक रहा था।

अस्पष्ट संभावनाओं से युक्त अफ्रीका यूरोप के निकट ही स्थित था, परंतु यह महाद्वीप सन् १८५० में भी सांघकार रहस्यमय था। यहाँ के समुद्र-तटस्थ देश तथा मिस्र ही ( उस समय ) लोगों को विदित थे। अफ्रीका के इस निविडान्यकार को तर्जप्रथम

भेदन करनेवाले अन्वेषकों और साहसिकों तथा उनका अनुगमन करनेवाले वैज्ञानिकों और अधिवासियों, व्यापारियों और राजनैतिक दूतों अथवा शासकों की अद्भुत रोमहर्षण कथा कहने के लिए यहाँ पर्याप्त स्थान नहीं है। इस नये जगत् में प्रवेश करने पर अद्भुत खर्वाकार मनुष्य-जातियाँ और 'ओकापि' सदृश अद्भुत पशु, आश्चर्यदायक फल-पुष्प तथा कीटादिक और भयंकर रोग, वनों एवं पर्वतमालाओं के विस्मयोत्पादक दृश्य और स्थल-परिवेष्टित समुद्र और भीमकाय नदियाँ तथा जलप्रपात दृष्टिगोचर हुए। यहाँ नहीं, प्रत्युत किसी प्राचीन जाति के दक्षिणोन्मुख उद्यम के द्योतक अनुल्लिखित लुप्त सभ्यता के भग्नावशेष यहाँ के ज़िमबाब्वे नामक स्थान में पाये गये हैं। इस नवीन संसार में प्रवेश करने पर यूरोपियन जातियों ने देखे—राइफल से सुसज्जित दास-व्यापार करने-वाले—अरब और अव्यवस्थित जीवन-चर्यावाले ह्वशी।

सन् १९०० तक अर्थात् पचास वर्षों में ही यूरोपियन शक्तियों ने इस महाद्वीप को खोजकर, मान-चित्र बना, नाप-तौल द्वारा कृतकर आपस में विभाजित कर डाला था और इस लूट-खसोट में आदिम निवासियों के हानि-लाभ—सुख-दुःख—की ओर कुछ भी ध्यान न दिया गया। दास बनानेवाले अरबों का बहिष्कार न कर दमन किया गया। परंतु जंगली पदार्थ खर का वेलजियम काँगो में आदिम निवासियों द्वारा बलात् संचय कराया जाता था; और इस खर-लाभ ने अनुभवहीन यूरोपियन शासकों एवं आदिम निवासियों के बीच संघर्ष उत्पन्न कर और भी अधिक उग्र रूप धारण कर लिया; फलतः जनता के साथ अत्यंत नृशंस व्यवहार किया गया। (और सच्ची बात तो यह है कि) इस संबंध में कोई यूरोपियन जाति सर्वथा निर्दोष नहीं है।

फिर किस प्रकार अँगरेजों ने सन् १८८३ में मिस्र देश को हस्तगत कर लिया और न्यायतः उसके तुर्क-साम्राज्य का अंश होने पर भी वहाँ वे किस प्रकार डटे रहे तथा किस प्रकार इस छीना-भपटी के कारण सन् १८९८ में ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य समराग्नि भभक उठी जब कर्नल मार्चेंड नामक एक व्यक्ति ने फ्राशोदा नामक स्थान पर नील नदी के ऊपरवाले भाग में अधिकार जमाने का प्रयत्न किया—इन सब का सविस्तर वर्णन करना हमारे लिए अशक्य है।

न हम यह वर्णन कर सकते हैं कि किस प्रकार ऑरेंज नदी के ज़िलों और ट्रांसवाल प्रदेश के बोअर अथवा डच अधिवासियों को दक्षिणीय अफ्रीका के भीतरी प्रदेशों में घुसकर स्वतन्त्र प्रजातंत्र स्थापित करने की अनुमति दे वृटिश सरकार ने पीछे पड़ताकर ट्रांसवाल प्रजातंत्र को किस प्रकार सन् १८७७ में साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया और न हम यह बता सकते हैं कि ट्रांसवाल-निवासी बोअर किस प्रकार स्वतंत्रता के लिए युद्ध कर

मजूवा पर्वत की लड़ाई ( १८८१ ) में कृत-कार्य हुए । परंतु प्रेस के निरंतर आक्रमणों ने मजूवा पर्वत की घटना को अँगरेज़ जाति के चित्त से कभी विस्मृत न होने दिया; फलतः सन् १८९९ में इन प्रजातंत्रों से पुनः त्रिवर्षीय युद्ध लड़ गया, जिसमें अँगरेज़ जाति ने प्रचुर धन-राशि व्यय कर प्रजातंत्र को आत्म-समर्पण करने के लिए बाध्य कर दिया ।

प्रजातंत्रों की यह अधीनता क्षणिक थी; इनके विजेता राज-सत्तावादी दल की ( ग्रेट ब्रिटेन में ) सन् १९०७ में पराजय होते ही तद्देशीय उदार दलवालों ने दक्षिणीय अफ्रीका की समस्याएँ हाथ में ले लीं, और यह प्रजातंत्र स्वाधीनता लाभ कर, दक्षिणीय अफ्रीका के सांघिक राज्यों में सम्मिलित हो, केपकालोनी तथा नैटाल के सदृश ब्रिटिश राज-मुकुटाधीन उपनिवेश बन गये ।

संपूर्ण अफ्रीका महाद्वीप का षट्ठवारा पचीस वषों ही में समाप्त हो गया था । केवल तीन छोटे-छोटे महत्त्वहीन देश शेष रह गये । पश्चिमीय तट पर लाइबेरिया, जहाँ नीग्रो जाति के मुक्तदास निवास करते थे, मोराको,\* जहाँ एक मुसलमान सम्राट् का शासन था और अवीसीनिया नामक बर्बर देश, जहाँ अत्यंत प्राचीन एवं प्रकार विशेष का क्रिश्चियन-धर्म फैला हुआ है । इस अंतिम देश ने एडोवा ( Adowa ) के युद्ध में ( १८९६ ) इटैली को परास्त कर अपनी स्वतंत्रता अर्था तक अक्षुण्ण बना रखा है ।

\* मोराको अब स्वतन्त्र देश नहीं है । स्पेन तथा फ्रांस के प्रभाव-क्षेत्रों में उसकी गणना की जाती है और वे धीरे-धीरे उसके अपने अधीन कर रहे हैं ।—अनुवादक ।

† मई सन् १९३६ में इटैली ने इस प्रदेश को जीतकर अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया है ।—अनुवादक ।

## एशिया पर यूरोप का आक्रमण और जापान का अभ्युदय

समूचे अफ्रीका के मानचित्र के यूरोपीय शक्त्याधिकार-सूचक विविध रंगों के चित्रण को बहुसंख्यक जनसमाज ने वास्तव में स्वीकार कर लिया था, यह विश्वास करना कठिन है; परंतु इतिहास-लेखक का तो धर्म यही है कि वह उसके इसी रूप से स्वीकृत होने का उल्लेख करे। उन्नीसवीं शताब्दी के यूरोपीय विद्वानों का ऐतिहासिक आधार ( Historical Background ) अत्यंत न्यून तथा नगण्य था और स्वभावतः वे विवेचना करना भी न जानते थे। यंत्र-शास्त्रीय क्रांति के कारण, शेष संसार की अपेक्षा यूरोपीय जातियों को पश्चिम में ( अस्थायी रूप से ) उत्कर्ष प्राप्त हुआ तो मंगोल-विजय इत्यादिक महान् घटनाओं से नितान्त अनभिज्ञ मनुष्यों की धारणा में वह इस बात का परिचायक था कि मनुष्य-जाति का नेतृत्व सदा अत्र यूरोपीय जातियों के हाथ में रहेगा। विज्ञान और उसके फल स्थानांतरित हो सकते हैं यह बात उनके लिए बुद्धि-गम्य न थी। उनको यह कभी अनुभूत न हुआ कि फ्रांसिसियों और अंगरेजों की भांति चीनी और भारतीय भी वैज्ञानिक गवेषणाओं को वैसी ही बुद्धिमत्ता-पूर्वक संपादित कर सकते हैं। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि पूर्वीयों में कुछ नैसर्गिक आलस्य एवं रूढ़ि-प्रियता है और पश्चिमीयों में कुछ नैसर्गिक कुशाय-बुद्धिमत्ता; और इसी कारण ये ( यूरोपीय ) जातियाँ संसार में निश्चित रूप से सदा सर्वप्रबल रहेंगी।

इस ज्ञान-हीनता के कारण बहुत से यूरोपीय परराष्ट्र-विभागों ने न केवल संसार के बर्बर एवं अनुन्नत भूभागों को हस्तगत करने के लिए अंगरेजों से छीना-भपटी करना प्रारंभ कर दिया, वरन् कच्चे माल की भांति लाभ की सामग्री समस्त एशिया के सम्य एवं जनाकीर्ण भूभागों को भी विभाजित करने की ठान ली। भारतीय ब्रिटिश शासकों का अंतरीय संदिग्ध परंतु बाह्य ( अर्थात् बाहर से देखने में ) भव्य साम्राज्यवाद ( Imperialism ) और 'डच'-अधिकृत पूर्वी द्वीपसमूह के विस्तृत एवं लाभोत्पादक स्थानों को

देख, हृदयस्थ ईर्ष्या के कारण अन्य प्रतिस्पर्धी महान् शक्तियों को भी फ्रांस, जर्जर तुर्क-साम्राज्य, भारतीय चीन (India, China), चीन और जापान में तत्समान पूर्ण समृद्धि के सुख-स्वप्न दीखने लगे ।

सन् १८९८ में जर्मनी ने चीन के कियाऊ-चू नामक स्थान पर कब्ज़ा कर लिया । इसका उत्तर देने के लिए अँगरेज़ों ने वी-हाइ-वी पर अपना अधिकार जा जमाया । फिर एक वर्ष वीतने पर रूसियों ने पोर्ट ( बंदरस्थान ) आर्थर को हस्तगत कर लिया । इन घटनाओं से यूरोपीय जातियों के विरुद्ध समस्त चीन में घृणा की महान् ज्वाला प्रज्वलित हो उठी । बहुत से यूरोपियनों तथा ईसाई-चीनियों का संहार कर दिया गया और सन् १९०० में पैकिन नगरस्थ यूरोपीय राजदूत-वासस्थानों पर आक्रमण कर घेरा डाल दिया गया ( मुआमिला वेहव होते देख ) अब यूरोपीय शक्तियों ने दंड देने के लिए एक सम्मिलित सेना पैकिन को भेजकर राजदूत-वासस्थानों का उद्धार तो किया ही, परंतु साथ ही साथ अनंत एवं बहुमूल्य सामग्री भी चुरा ली । तत्पश्चात् रूसियों ने मंचूरिया पर कब्ज़ा कर लिया और अँगरेज़ों ने तिब्बत पर सन् १९०४ में धावा बोल दिया ।

महान् शक्तियों के इन भगड़ों में जापान की नवीन शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ इतिहास-रूपी नाटक के अभिनय में इस देश ने थोड़ा ही भाग लिया है । और संसार से पृथक् यहाँ की सभ्यता से भी मानव-भाग्य-निर्माण में कुछ यों ही सहायता मिली है; वास्तव में बात तो यह है कि स्वयं बहुत कुछ लाभ उठाकर भी इस देश ने संसार का तनिक सा उपकार नहीं किया । जापान-वासी मंगोल जाति के हैं । इनकी सभ्यता, लेख, साहित्यिक एवं कला-कौशलमय रुढ़ियों का उद्गम चीनवासी हैं । अद्भुत साहसी कार्यों से पूरित यहाँ का इतिहास भी अत्यंत मनोहर है । जागीरदारी-प्रथा एवं शौर्य-काल ( System of Chivalry ) ईसाई संवत् की प्रथम शताब्दियों में यहाँ पर भी विकसित हुए थे । और इस देश के केरिया तथा चीन पर किये आक्रमणों की तुलना उन युद्धों से की जा सकती है जो अँगरेज़ों ने फ्रांस में किये थे । इस देश का यूरोप से सर्वप्रथम सम्पर्क सोलहवीं शताब्दी में हुआ । सन् १५४२ में एक चीनी जल-यान द्वारा, जिसको चीनी भाषा में चं या ज़ं कहते हैं, कुछ पुर्तगाल-निवासी यहाँ आये और १५४९ में फ्रैंसिस ज़ेवियर नामक एक जैसुइट पंथी पादरी ने यहाँ ईसाई धर्म का प्रचार करना प्रारंभ कर दिया । कुछ काल तक तो यहाँवालों ने यूरोपीय जातियों का स्वागत किया और पादरियों ने भी इस बीच बहुतों को अपने धर्म में दीक्षित कर लिया था । इन समय एक व्यक्ति—जिसका नाम विलियम एडम्स था—जापानियों का बड़ा विश्वासी यूरोपीय परामशदाता हो गया है । उसी ने इनको बड़े बड़े जहाज़ बनाना सिखाया था । जापान के

वने हुए इन पोतों में भारत और पेरू तक यात्राएँ हुईं। परंतु फिर डोमिनिकन संप्रदायानुयायी स्पेनिश, जैसुइट पंथानुयायी पोर्तुगीज़ और प्रोटेस्टैंट पंथानुयायी अंगरेज़ एवं डच पादरियों के मध्य घोर कलह उत्पन्न हो जाने के कारण इधर तो प्रत्येक ने एक दूसरे के राजनैतिक संकल्पों से जापानियों को सतर्क कर दिया और उधर उत्कर्ष मद् से मत्त हो जैसुइट सम्प्रदायवालों ने बौद्ध धर्मावलंबियों को घोर रूप से अपमानित एवं पीड़ित करना प्रारंभ कर दिया। फलतः जापानी लोग इन यूरोपीय जातियों को निश्चय-पूर्वक कंटकवत् असह्य समझने लगे और फिलीपाइन्स द्वीप पर अधिकारप्राप्त कैथोलिक सम्प्रदाय तो विशेषतया उनकी दृष्टि में पोप तथा स्पेन के राजाओं के राजनैतिक स्वप्नों का ढोंग मात्र था। वस फिर क्या था, ईसाइयों का पीड़न प्रारंभ हो गया और सन् १६३८ में यहाँ यूरोपियनों के आने की मनाही हो गई। और कोई दो सौ वर्ष से अधिक काल तक जापान का द्वार ईसाइयों के लिए बंद ही रहा। इस समय शेष संसार से जापानियों का, अन्य ग्रह-निवासियों के समान, संबंध-विच्छेद हो गया। तीरवाही नौकाओं के अतिरिक्त बड़े पोतों के बनाने की यहाँ आज्ञा न थी। न तो कोई जापानी विदेश जा सकता था और न किसी यूरोपियन को इनके देश में घुसने की आज्ञा दी जाती थी।

दो शताब्दियों तक जापान इतिहास-धारा से सर्वथा पृथक् रहा। उस समय वहाँ चित्रोपम सौंदर्ययुक्त एक जागीरदारी प्रथा प्रचलित थी, जिसमें सामुराय नामक (क्षत्रिय) योद्धा और विशिष्ट श्रेणी के पुरुष तथा उनके कुटुंबी—जो प्रतिशत जन-संख्या के बीसवें भाग से अधिक न थे—समस्त जन-समाज के प्रति अप्रतिबाधित रूप से अत्यंत कठोरता का व्यवहार करते थे। परंतु शेष बाह्य-संसार उस समय अधिकाधिक विस्तृत कल्पनाओं और शक्तियों की ओर अग्रसर हो रहा था। फिर परदेशी जहाज़ भी जापानी अंतरीपों के निकट होकर अधिकाधिक संख्या में आने-जाने लगे। और इन पोतों के भग्न होने पर कभी-कभी उनके नाविक भी जापान के तट तक आ जाते थे। इसी समय बाह्य-संसार से संबंध स्थापित रखनेवाले एकमात्र शृंखलारूपी डैशिमा द्वीप नामक डच उपनिवेश से सूचना मिली कि पश्चिमीय संसार की भाँति जापान शीघ्रतापूर्वक उन्नति-पथ पर अग्रसर नहीं हो रहा है। फिर जब सुदूर प्रशांत महासागर में बहते हुए जापानी नाविकों की रक्षा कर “तारे और पट्टियों” की पताका से युक्त एक परदेशी जहाज़ सन् १८३७ में यहाँ की खाड़ी में आया तो तोपों के गोलों की वर्षा कर जापानियों ने उसे भगा दिया। तत्पश्चात् ये पताकाएँ अन्य बहुत से जहाज़ों पर दिखाई दीं। जहाज़ टूट जाने के कारण आश्रय-प्राप्त अठारह अमेरिका-निवासी नाविकों को छुड़ाने के लिए एक बैसा ही जहाज़ सन् १८४९ में आया। फिर सन् १८५३ में जब अमेरिका के चार युद्धपोत कौमोडोर पैर्री की

अध्यक्षता में वहाँ पहुँचे तो देश-वासियों के मना करने पर भी वे वहाँ से न हटे; और जापानी समुद्र में—जहाँ परदेशियों के प्रवेश का निषेध था—लंगर डाले पड़े रहे। इस समय तो कप्तान ने वहाँ के दोनों शासकों को—जिनका जापान पर संयुक्त शासन था—सँदेसा भेजा; पर सन् १८५४ में तोपों से सुसज्जित वाष्पचालित दस अद्भुत जहाज़ों सहित पुनः लौटकर उसने व्यापार तथा पारस्परिक संसर्ग के प्रस्ताव उपस्थित किये, जिनकी अवहेलना करने में जापान अशक्य था और संधिपत्र पर हस्ताक्षर कराने के लिए कप्तान पाँच सौ बंग-रक्षकों के साथ तट पर उतरा। इन बाल-संसार-निवासियों को राजपथ पर भ्रमण करते हुए नगर-निवासियों ने सशक टापि से देखा।


रूस, हॉलैंड और ब्रिटेन ने भी अमेरिका का अनुसरण किया। एक विशिष्ट कुलाभिभूत बड़े जागीरदार के, जिसकी ज़मींदारी 'शिमोनोसेकी' नामक जल-श्रीव के तट पर थी, इन विदेशी जहाज़ों पर गोला बरसाने का साहस करते ही ब्रिटिश, फ्रेंच, डच और अमेरिका के युद्ध-पोतों ने गोलों की ऐसी भीषण वर्षा की कि ज़मींदार की तोपें और कृपाणधारी सैनिक दोनों ही विलीन हो गये। अंत में सम्मिलित राज्यों के जहाज़ी वेड़े ने कियोटो नामक स्थान से कुछ दूरी पर सन् १८६५ में लंगर डाला और जापान को संधि स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। इस रीति से जापान का द्वार समस्त संसार के लिए खुल गया।

जापान इन घटनाओं से घुरी तरह मर्माहत हुआ। परंतु आश्चर्यदायक शक्ति और दूरदर्शिता से काम ले इस देश ने अपनी संस्कृति और संगठन सब कुछ ही यूरोपीय शक्तियों के समान बना डाला। जापान ने जिस द्रुत गति से उन्नति की उसका उदाहरण मनुष्यों के इतिहास में नहीं मिलता। जो देश सन् १८६६ में आश्चर्यदायक एवं अत्यंत घोर जागीरदारी के हास्यास्पद चित्रवत् मध्यकालीन जन-समाज की भाँति था, वही सन् १८९९ में पश्चिमीय जातियों के समान हो अत्यंत उन्नत यूरोपीय शक्तियों में गिना जाने लगा। 'निश्चय ही यूरोप की अपेक्षा एशिया असाध्य रूप से मंद है', इस भ्रमात्मक भाव को जापान ने सदा के लिए दूर कर दिया। समस्त यूरोपीय उन्नति की गति को इस देश ने लज्जित कर दिया।

सन् १८९४-९५ के चीन-जापान-युद्ध का विस्तारपूर्वक विवरण हम यहाँ नहीं दे सकते। उसने सिद्ध कर दिया कि इस देश में कितनी अधिक पश्चिमीयता आ गई है। उस समय पाश्चात्य विधि से सुशिक्षित प्रबल सेना और एक कुदुर परंतु बलशाली जहाज़ी वेड़ा इस देश के पास था। केवल ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य (अमेरिका), जो पहले ही से एतद्देशीय पुनरुत्थान के आशय को भली भाँति समझ सके थे, जानाने के



योरप की शक्तियों के समुद्र-पार के राज्य जनवरी १९१४



जिसमें अदन\* भी सम्मिलित है। इस समूचे साम्राज्य पर ब्रिटिश राजमुकुट और इंडिया ऑफिस ने, पार्लियामेंट के नियंत्रण के अधीन, आद्य तुर्क-वंश का स्थान ग्रहण किया है।

इसके पश्चात् स्थान है संदिग्ध रूप से अधिकृत मिक्स का, जो कहने के लिए अब भी तुर्क साम्राज्य का भाग है। यहाँ 'खदीव' उपाधिधारी राजा होते हुए भी वास्तव में अनियंत्रित अंगरेज़ अधिकारियों का ही शासन चलता है।

परंतु इससे भी कहीं अधिक संदिग्ध अधिकार है अंगरेज़ी-मिस्री-सूडान प्रदेश में, जहाँ अंगरेज़ और मिक्स सरकार द्वारा नियंत्रित गवर्नमेंट सम्मिलित रूप से शासन करती है।

इनके अतिरिक्त अर्ध-स्वराज्य-प्राप्त कतिपय समाज हैं जिनमें किसी का उद्गम तो अंगरेज़ जाति से है और किसी का नहीं। और इनमें निर्वाचित धारा-सभा एवं नियोजित कार्यकारिणी सभा विद्यमान हैं; उदाहरणार्थ—माल्टा, जमैका, वहामा आदि।

फिर नंबर आता है सीलोन, त्रिनिदाद, फ्रीजी (जहाँ एक नियुक्त की हुई कौमिल है), जिब्राल्टर और सेंट हैलेना (जहाँ एक गवर्नर है) आदि मुकुटाधीन (Crown) उपनिवेशों का, जहाँ उपनिवेश-विभाग द्वारा ब्रिटिश सरकार का गृह-विभाग अनियंत्रित रूप से शासन करता है।

और सबके अंत में उल्लेख योग्य हैं कच्चा माल उत्पन्न करनेवाले (प्रधानतः) उष्ण कटिबंधीय विस्तृत-भूभाग जहाँ राजनैतिक दृष्टि से दुर्बल और अर्ध-सभ्य जातियाँ निवास करती हैं। कहने को तो ये 'रक्षित' देश हैं; परंतु वास्तव में यहाँ का शासन एक हाई कमिश्नर द्वारा होता है जिसका आधिपत्य या तो देशों राजाओं पर होता है जैसा कि बसुतोलैंड में है या गवर्नमेंट से अनुशासनपत्र-प्राप्त कंपनियों पर होता है जैसे र्होडेशिया में। कहीं परराष्ट्र विभाग, कहीं औपनिवेशिक-विभाग, और कहीं इंडिया ऑफिस (भारतीय विभाग) द्वारा इन अंतिम और अत्यंत अस्पष्ट श्रेणी के स्थानों पर कब्ज़ा होते हुए इसका श्रेय तो अधिकांश में परराष्ट्र विभाग ही का है।

अतः अब यह भली भाँति स्पष्ट हो गया कि समूचा ब्रिटिश-साम्राज्य किसी एक विभाग अथवा मस्तिष्क की उपज नहीं है। अतीत काल में साम्राज्य कदलानेवालों संस्थाओं से वृद्धि एवं एकत्रीकरण का यह सम्मिश्रण सर्वथा भिन्न है। अधिकारिवर्ग के अत्याचारों एवं अनौचित्य, तथा इंग्लैंड के जनसाधारण की उदासीनता के होते हुए, सर्वत्र शांति एवं संरक्षण का प्रतिभू होने के कारण ही अधीन जातियाँ, ब्रिटिश साम्राज्य

---

\* अदन और ब्रह्मदेश, दोनों अब भारतीय नवीन विधान (१९३५) के अनुसार पृथक् कर दिये गये हैं।

के भार को सहन एवं धारण कर रही हैं। ऐथेन्स की भाँति ब्रिटिश-साम्राज्य भी समुद्र-पार का साम्राज्य है। उसका मार्ग समुद्र में होकर है और जल-सेना ही सब (ब्रिटिश साम्राज्य के भागों) की एकमात्र शृंखला है। समस्त साम्राज्यों की भाँति इसकी संसक्ति भी स्वभावतः आवागमन-संबंधी साधनों पर अवलंबित है; सोलहवीं से लेकर उन्नीसवीं शताब्दी तक नाविक-कार्य-कौशल, जहाज़-निर्माण और वाष्प-चालित जहाज़ों की उन्नति ने ही शान्ति (Pax Britannica)—ब्रिटेनिया की सुप्रसिद्ध शांति—को इस प्रकार सुलभ और संभवनीय बना दिया। बहुत संभव है कि भविष्य में नभ अथवा स्थल-संबंधी द्रुत-गामी यानों की नवीन उन्नति होने से यह सब फिर अनुपयुक्त सिद्ध होने लगे।

---

## यूरोप का सज्जीकरण युग और १९१४-१८

### का महान् युद्ध

अमेरिका में वाष्प-चालित जहाज़ों और रेलवे द्वारा प्रजातंत्र को उत्पन्न करने तथा स्टीमपोत द्वारा संदिग्ध ब्रिटिश-साम्राज्य को विस्तार देनेवाली भौतिक विज्ञान की उन्नति, यूरोप महाद्वीप पर घनी बसी हुई अन्य जातियों के लिए नितांत भिन्न प्रभावोत्पादक सिद्ध हुई। इन जातियों ने अब यह अनुभव किया कि वे अब तक मानव-सृष्टि में 'घोड़ों और राजपथों' के युग की निर्धारित सीमा से सीमित हैं, और समुद्र-पार देशों में उनके प्रसार का ग्रेट ब्रिटेन ने पूर्व-निरूपण कर लिया है। केवल रूस, पूर्व की ओर कुछ स्वतंत्रता-पूर्वक अग्रसर हो सकता था; और उसने साइबेरिया प्रदेश में होकर एक वृहत् रेलवे-लाइन भी बना डाली, यहाँ तक कि वह जापान से मुठभेड़ में जा उलझा और तत्पश्चात् उसकी प्रगति दक्षिण-पूर्वीय दिशाओं में—फ़ारिस और भारत की सीमाओं की ओर—सुदृढ़ गई जो अंगरेजों के लिए कटक-रूप थी। यूरोपीय श्रेण शक्तियों की दशा अत्यंत घनीभूत हो रही थी। मानव-जीव-संबंधी नवीन उपकरण की संपूर्ण संभावनाओं का अनुभव करने के लिए स्वेच्छा से अथवा किसी प्रबल शक्ति के दबाव से एकीकरण द्वारा सांसारिक व्यवहारों को कहीं अधिक विशद आधार पर पुनः स्थापन करने की अब अत्यंत आवश्यकता थी। आधुनिक विचार-धाराओं का प्रवाह तो पूर्व पक्ष की ओर था, परंतु प्रबल राजनैतिक रुढ़ियाँ यूरोप को दूसरी दिशा की ओर बहाकर ले गईं।

तृतीय नैपोलियन के साम्राज्य का पतन और नवीन जर्मन साम्राज्य-स्थापना के कारण मनुष्यों के भय और आशाएँ वह इंगित कर रहे थे कि भविष्य में यूरोप जर्मनी का ही आश्रय ले घनीभूत हो जायगा। छत्तीस वर्ष की इस उद्वेगमय शांति में यूरोपीय राजनीति इन संभावनाओं पर ही केन्द्राभूत रही। यूरोपीय प्रभुत्व प्राप्त करने के इच्छुक

फ्रांस ने—जो शार्लमेन द्वारा किये हुए साम्राज्य-विभाग के समय से जर्मनी का घोर प्रतिद्वंद्वी था—अपने दौर्बल्य के रूस की संधि द्वारा दूर करना चाहा तो जर्मनी ने इसके प्रत्युत्तर में ऑस्ट्रियन साम्राज्य से ( क्योंकि पवित्र रोम साम्राज्य का तो प्रथम नैपोलियन के समय में ही अंत हो गया था ) दृढ़तापूर्वक अपना घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लिया । इटैली के नवीन राज्य को भी इस 'गुट्ट' में सम्मिलित करने का जर्मनी ने प्रयत्न किया परंतु इसमें उसको 'सोलह आना' कामयाबी न हुई । ग्रेट ब्रिटेन ने सदा की भाँति महाद्वीप संबंधी इन समस्याओं में पहले तो कुछ यों ही भाग लिया; परंतु फिर जर्मन जहाज़ी वेड़े को प्रथमापकारी के रूप से अग्रसर होते हुए देख, इसके भी विवश होकर अंत में शनैः शनैः रूस और फ्रांस के 'गुट्ट' में सम्मिलित होना पड़ा । और जर्मन सम्राट् द्वितीय विलियम ( १८८८-१९१८ ) की सदर्प वासनाओं के कारण जर्मनी को कुसमय में ही समुद्र पार देशों में दुःसाध्य कार्यों में फँसा दिया, जिसके कारण न केवल ग्रेट ब्रिटेन प्रत्युत जापान और संयुक्त राज्य भी उसके शत्रुदल में जा मिले ।

ये समस्त जातियाँ शस्त्रास्त्रों से सुसजित हो गईं । बंदूक, तोप, लड़ाई का अन्य सामान और युद्ध-गोतों के निर्माण के लिए जातीय आय प्रतिवर्ष अनुपात-क्रम से अधिकाधिक व्यय की जा रही थी और जटिल समस्याओं का 'कंपित तुलादंड' युद्ध की ओर भुक्ता हुआ प्रतीत होता था, परंतु वह ( अर्थात् युद्ध ) किसी न किसी बहाने प्रत्येक वष रुक जाता था । अंत में वह एक दिन छिड़ ही गया । जर्मनी और आस्ट्रिया का फ्रांस, रूस और सर्बिया से संघर्ष हो गया । परंतु जर्मन सैन्य के बेलजियम में होकर निकलते ही अपने मित्र जापान के साथ ब्रिटेन तुरंत ही बेलजियम की ओर से युद्धक्षेत्र में कूद पड़ा । फिर तुर्की शीघ्रतया जर्मनी से जा मिला । तदनंतर सन् १९१६ में रुमानिया और १९१७ में संयुक्त-राज्य और चीन भी जर्मनी के विरुद्ध विवश होकर युद्धक्षेत्र में आ गये । इस महान् आपदा में किसका कितना दोष था यह बात निश्चयपूर्वक बताना हमारे इतिहास की सीमा के बाहर है । यह युद्ध क्यों अथवा किस कारण प्रारंभ हुआ, इससे कहीं अधिक आवश्यक प्रश्न तो यह है कि महायुद्ध का पूर्वज्ञान क्यों न हुआ और उसके निवारण का उपाय क्यों न सोचा गया । मानव-जाति के लिए कहीं अधिक विचारणीय विषय तो यह है कि करोड़ों मनुष्य, देशप्रेमी होकर भी ऐसे मूढ़ अथवा उदासीन हो गये कि वे उदार भावों द्वारा यूरोप में शांति या ऐक्य स्थापित कराकर इस विपत्ति को न टाल सके, न कि यह बात कि गिने-चुने मनुष्य ही इस विपत्ति के लाने में कारण बने ।

रण-संबंधी, दुर्बोध, विस्तृत विवरण देने के लिए हमारे पास पर्याप्त स्थान नहीं है । कला-कौशल-संबंधी विज्ञान की उन्नति के कारण रण-क्रिया में कैसे महान् परिवर्तन हो गये

थे, यह युद्धारम्भ से कुछ मास पश्चात् ही स्पष्ट हो गया। भौतिक विज्ञान से कार्य-क्षमता आती है, अर्थात् इसका प्रयोग इस्पात के उपयोग, दूरी के न्यूनीकरण और रोगों के निवारण आदि क्रियाओं पर हो सकता है। परंतु इसका उपयोग अथवा दुरुपयोग संसार की धार्मिक एवं राजनैतिक बुद्धि के अनुसार होता है। पुरानी ईर्ष्या और संदेह की नीति से प्रेरित हो यूरोपीय शासन-प्रणालियों ने अपने हाथों में अब अनुदाहरणीय संहार और प्रतिबंध की क्षमता पाई। संसार में चारों ओर फैलकर यह विनाशकारी युद्धाग्नि अब विजेता और विजित दोनों ही को विषादमय प्रश्नों की दृष्टि से कहीं अधिक हानि-प्रद सिद्ध हुई। युद्ध के सर्वप्रथम दृश्य में जर्मनी का महावेग से पेरिस की ओर प्रस्थान और रूस का पूर्वीय प्रुशिया पर आक्रमण होता दिखाई दिया, परंतु ये दोनों ही रोककर निष्फल कर दिये गये। आत्मरक्षा की शक्ति का इसके पश्चात् विकास हुआ और खाइयों की दक्षतापूर्वक युद्ध-प्रणाली ने ऐसी शीघ्रतापूर्वक उन्नति की कि कुछ ही दिनों में परस्पर विरोधी सैन्य-दल यूरोप के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक, खाइयाँ खोद-खोदकर एक दूसरे के सामने डट गये। ऐसी दशा में महान् क्षति उठाने विना आगे बढ़ना सर्वथा असंभव हो गया। योद्धाओं की संख्या लाखों थी; और रण-भूमि में भोजन तथा युद्ध-सामग्री जुटाने के लिए समस्त सुव्यवस्थित जन-समाज उनके पृष्ठ पर उपस्थित था। रण-व्यापार के सहायक व्यवसायों के अतिरिक्त और सब प्रकार के व्यवसाय इस समय स्थगित कर दिये गये। यूरोप के समस्त सशक्त युवा पुरुष या तो स्थल अथवा जल सेनाओं में सम्मिलित हो गये या तत्कालीन नूतन-स्थापित युद्ध-सामान जुटानेवाली फ़ैक्टरियों में काम करने जा डटे। उद्योग तथा कला-कौशल के कार्यों में स्त्रियों ने पुरुषों का स्थान अधिक संख्या में ले लिया। अत्यंत विस्मयोत्पादक इस तुमुल युद्ध में भाग लेनेवाले देशों की आधी से अधिक जन-संख्या ने अपना व्यापार सर्वथा त्याग दिया। सामाजिक दृष्टि से इन मनुष्य-रूपी वृक्षों के एक प्रकार से उखाड़कर स्थानांतरित किया जा रहा था। शिक्षा और साधारण वैज्ञानिक गवेषणाएँ भी इस समय या तो परिमित हो गईं या उनसे भी युद्धोपयोगी कार्य लिया जाता था। कहीं तक गिनावें, सामरिक-निबंधन और आन्दोलन-रूपी छलनी में छनने के कारण समाचार भी जव दूषित एवं पंगु होकर निकलने लगे तो फिर शेष क्या रह गया।

सैनिकों की गति जव इस प्रकार अचरद हो गई तो युद्ध में भाग लेनेवाले रणस्थल के पृष्ठवर्ती जनसमाज पर ऐसे आक्रमण प्रारंभ हुए कि उनका सामग्री विध्वंस कर दी गई और वायुयान द्वारा उन पर धावे बोल गये। तोपों के परिमाण एवं बाढ़ में वृद्धि की गई; विपैली वायु-उत्पादक गोले, तथा टैंक नामधारी गतिशील गढ़ इत्यादि विनोद

साधनों द्वारा खाइयों में बैठे हुए योद्धाओं की शत्रु-आक्रमण-प्रतिरोधक शक्ति नष्ट की जा रही थी। परंतु इन सब नये साधनों में वायु द्वारा आक्रमण अत्यंत क्रांतिकारी था। इसी के कारण दो के बजाय अब तीन दिशाओं से युद्ध होने लगा। मनुष्यों के इतिहास में अब तक युद्धप्रवृत्त सैनिकों के मध्य संघर्ष होने पर युद्ध होता था, परंतु अब उसके प्रतिकूल वह सर्वत्र होने लगा। पहले तो झैपलीनों और तत्पश्चात् उड़ाकू मशीनों के युद्ध द्वारा गोला बरसाने का क्षेत्र, रणसैनिकों की सीमा लाँघकर, पौरिय जनसमाज तक विस्तृत होता गया। योद्धाओं और पौरिय जनता का वह प्राचीन भेद-विवेचन—जिसके आज तक समस्त युद्धों में स्वीकृत किया गया था—अब संपूर्णतया लुप्त हो गया। इस समय तो समस्त अनाज उत्पन्न करनेवाले, कपड़ा सीनेवाले, पेड़ काटनेवाले, मकान की मरम्मत करनेवाले, रेलवे-स्टेशन और गोदाम—सभी, विनाश के योग्य सामग्री समझी जाती थीं। जैसे-जैसे युद्ध का समय खिंच रहा था तैसे-तैसे इन हवाई आक्रमणों का क्षेत्र और तज्जनित त्रास अधिक होता जाता था। अंत में यूरोप का एक बहुत बड़ा भाग सेना द्वारा अवरुद्ध जैसा हो गया और वहाँ रात्रि आक्रमण भी होने लगे। लंदन और पेरिस जैसे खुले (अरक्षित) नगरों में तो बंब फटने और उड़ाकू-मशीन-विध्वंसक बंदूकों का असह्य घोर नाद, शून्य एवं अंधकारमय सड़कों पर अग्नि शांत करनेवाले एंजिन तथा घायलों की सेवा-शुश्रूषा करनेवाली गाड़ियों की खड़खड़ाहट के कारण रातों नींद न आती थी। बुद्धों और बालकों के मन और शरीर पर इनका क्लेश एव च्यकारी प्रभाव पड़ता था।

युद्ध की उस चिरानुगामिनी महामारी का आगमन समर-समाप्ति तक न हुआ (१९१८)। इन चार वर्षों तक आयुर्वेद-शास्त्र द्वारा संक्रामक रोगों के सर्वव्यापी होने की रोक-थाम होती रही। परंतु तदुपरांत समस्त संसार में ऐसा भयानक 'इनफ्लुएंजा' फैला कि लाखों मनुष्य कराल काल के गाल में समा गये। इसी प्रकार दुर्भिक्ष भी कुछ काल तक रोक गया। पर सन् १९१८ का प्रारंभ होते न होते यूरोप का बहुत सा भाग उसके चंगुल में फँस गया था, परंतु वह नियमित एवं नियंत्रित दशा में रहा। किसानों के युद्धक्षेत्र में चले जाने के कारण संसार में एक तो अनाज की उपज वैसे ही कम हो गई थी; फिर उस पर "सब-मैरीन" नामक पनडुब्बी जहाज़ों द्वारा उत्पन्न बाधाओं तथा विविध राज्य-सीमाओं के बंद हो जाने और संसार के आवागमन-संबंधी साधनों के अव्यवस्थित हो जाने के कारण जो कुछ अनाज पैदा होता था उसके वितरण करने में और भी अधिक विघ्न उपस्थित होते थे। दिन प्रतिदिन घटनेवाली इस उपज का विविध राज्य अपने-अधिकार में ले, अपनी प्रजा में न्यूनाधिक सफलता से बाँट देते थे। चतुर्थ वर्ष प्रारंभ होते ही समस्त संसार बख्त, वासस्थान और भोजन तथा अन्य जीवन-सामग्रियों की

न्यूनता के कारण कष्ट भोगने लगा। व्यापार और आर्थिक जीवन दोनों ही इस समय बुरी तरह अव्यवस्थित हो गये थे। क्लेश तो प्रत्येक प्राणी का था, परंतु बहुत से मनुष्य इस समय असाधारण कष्टमय जीवन व्यतीत कर रहे थे।

वास्तविक युद्ध का अंत नवंबर सन् १९१८ में हुआ। परंतु सन् १९१८ की वसंत ऋतु में, प्रयत्न करने पर, जर्मन लोग प्रायः पेरिस नगर तक पहुँच गये थे। लेकिन इसके पश्चात् ही मध्य (यूरोपीय) शक्तियों का पतन हो गया। उनकी शक्ति और साधन दोनों ही उस समय सर्वथा मृत हो चुके थे।



## रूस का नवोन शासन-विधान

वैज़रटाइन सम्राटों की संतान कहलानेवाले रूस के अर्धपूर्वाय शासकों का पतन मध्य-(यूरोपीय) शक्तियों के पतन से प्रायः एक वर्ष से कुछ अधिक समय पहले ही हो गया था। ज़ारशाही में, युद्ध से कुछ वर्ष पूर्व ही, घोर निःसत्त्वता के लक्षण उत्पन्न होने लगे थे; वहाँ का राज-दरबार रासपुटिन नामक एक अत्यंत विलक्षण धूर्त धर्मध्वजी के हाथ में कठपुतली के समान नाच रहा था। और मुल्की तथा जंगी दोनों प्रकार की शासन-व्यवस्थाएँ अत्यंत अव्यवस्थित एवं दूषित दशा में थीं। युद्ध आरंभ होते ही रूस में देश-प्रेम और उत्साह के स्रोत उमड़ पड़े। फ़ौज में नाम लिखाना अनिवार्य हो जाने का हुकम निकलते ही सैन्यदल तो बहुत से तैयार हो गये, परंतु उनके लिए पर्याप्त सामरिक सामग्री न थी और न योग्य अफ़सरों की योजना थी। यह बृहत् साधन-हीन सेना असम्यक् रूप से संचालित कर जर्मन एवं आस्ट्रियन सीमाओं की ओर, उसी दशा में, लोष्ठवत् सहसा फेंक दी गई।

इसमें तनिक सन्देह नहीं कि सितंबर १९१४ में रूसी सैन्य के इस प्रकार पूर्वी प्रुशिया में आ जाने के कारण सर्वप्रथम पेरिस विजय प्रस्थान से जर्मन लोगों का ध्यान और शक्ति बँट गई। इन सहस्रों अव्यवस्थित रूसी किसानों की व्यथा और मृत्यु ने ही उस अत्यंत सवेग प्रारंभिक आक्रमण से फ़्रांस को सर्वनाश से बचा लिया और समस्त पश्चिमीय यूरोप को मृत्यु-आलिङ्गन करनेवाली इस महान् जाति का अत्यंत ऋणी बना दिया। परंतु पशुतुल्य पैर फैलाये यह अव्यवस्थित रूस-साम्राज्य युद्ध का बोझ न सँभाल सका। साधारण रूसी सैनिक युद्ध करने के लिए तो भेज दिये गये परंतु उनकी सहायता करने के लिए तोपें न थीं; राइफ़लों के लिए छुरा और गोली-बारूद तक मयस्सर न हुई। जेनरल तथा अफ़सरों ने वैनिकोन्माद-वश, उनको योंही कराल काल के गाल में डाल दिया। कुछ काल तक तो वेचारे रूसी सैनिक पशुवत् चुपचाप कष्ट सहन करते रहे, परंतु ज्ञानहीन पुरुष

की सहन-शक्ति की भी तो एक सीमा है। अंत में, ठगी जाकर, इस भाँति नष्ट हुई सेनाओं के हृदयों में ज़ारशाही के प्रति धीरे-धीरे घृणा के अंकुर प्रस्फुटित होने लगे। सन् १९१५ के अंत तक पश्चिमीय मित्र-राज्य भी रूस की ओर से अधिकाधिक चिंतित होने लगें थे; परंतु यह देश संपूर्ण सन् १९१६ तक शत्रु-आक्रमणों को प्रायः रोकता ही रहा और उसी समय यह अपवाद फैला था कि वह जर्मनी से पृथक् संधि किया चाहता है।

२९ दिसंबर सन् १९१६ को पैट्रोग्रेड में होनेवाले भोज में मठाधिवासी रासपुटिन की हत्या की गई और ज़ारशाही को सुव्यवस्थित करने का प्रयत्न भी उसी समय किया गया, परंतु इसका उपयुक्त समय कभी का बीत चुका था। मार्च होते न होते परिस्थितियाँ अत्यंत वेग से बदल गईं। भोजन-प्राप्ति के लिए किये गये बलवों ने पैट्रोग्रेड में क्रांतिकारी विप्लव का रूप धारण कर लिया। ड्यूमा नामक प्रतिनिधि सभा को दवाने एवं उदार दल के नेताओं को कैद करने के प्रयत्न किये गये। अंत में (१५ मार्च को) राजकुमार ल्वौफ़ (Lvoff) की अध्यक्षता में एक अस्थायी गवर्नमेंट भी स्थापित कर दी गई और ज़ार ने राजसिंहासन त्याग दिया। कुछ काल तक ऐसा प्रतीत होता था कि संभवतया नवीन ज़ार के शासन-काल में यह राज्यक्रांति साधारण एवं नियंत्रित रूप में रहेगी परंतु बहुत शीघ्र ही यह स्पष्ट हो गया कि जनसाधारण का विश्वास सर्वथा उठ जाने के कारण ऐसे सब समाधान अब रूस में असंभव थे। यूरोपीय प्राचीन वस्तु-स्थिति (परिपाटी), ज़ारशाही, युद्ध और महाशक्तियाँ इस समय रूस को काल के सहश दुःखदायी प्रतीत होती थीं। इन दारुण व्यथाओं से वह अब केवल अत्यन्त शीघ्रतया छुटकारा चाहता था। मित्र-राज्यों में रूस की तत्कालीन वास्तविक दशा को समझने की क्षमता न थी। वे (अर्थात् मित्र-राज्य) और उनके राजनीतिज्ञ देश के जनसाधारण ने अनभिज्ञ थे; उनका ध्यान राजकुल की ओर केन्द्रित था, न कि देश की ओर। यही कारण था कि इस नवीन परिस्थिति में वे निरंतर भारी भूलें करते रहे। इसके अतिरिक्त प्रजातन्त्रवाद भी उनकी रुचि के अनुकूल न था, अतएव उन्होंने नवीन रूसी राज्य-शासन में—प्रकाश्य रूप में—यथामंभव रोड़े अटकाना ही अच्छा समझा। इस समय कैरेन्स्की नामक एक विचक्षण और वाग्मी पुरुष रूसी प्रजातन्त्र का सर्वोच्च नेता था। उसने देखा कि देश के भीतर तो एक महान् क्रांति—सामाजिक क्रांति—का आक्रमण हो रहा है और बाहर मित्र-राज्य उदारमनसता का भाव धारण कर रहे हैं। मित्र-राज्य कैरेन्स्की को देश के भीतर तो लालायित किसानों को धरती देने से रोकते थे, और सीमांत-राज्यों के साथ शांति-स्थापना में बाधक थे। फ्रेंच तथा ब्रिटिश प्रेस (Press) अन्वयार इन वेचारे यत्ने हुए मित्र-राज्य को पुनः आक्रमण करने के लिए पाठित करते थे। परन्तु जब जर्मनी ने जल तथा तेल, दोनों

मागों से रीगा पर दृढ़तापूर्वक आक्रमण किया तो बाल्टिक समुद्र में सहायता के लिए कुमक भेजने की संभावना से ही ब्रिटिश नौ-सैन्य विभाग तक का हृदय दहल गया। और नवीन रूसी प्रजातंत्र को, असहायावस्था में ही, विवश हो युद्ध करना पड़ा। यह बात विचारणीय है कि नौ-विभाग में प्रभुत्व होते हुए और ब्रिटिश-नावाध्यक्ष लार्ड क्रिशर ( १८४१-१९२० ) के उपालंभ देने पर भी ब्रिटिश तथा अन्य मित्र राज्यों ने पनडुब्बी जहाजों के कतिपय आक्रमणों के अतिरिक्त बाल्टिक समुद्र को, समस्त युद्ध-काल में, जर्मनी के हाथ में सर्वथा छोड़ दिया था।

रूसी जन-समाज ने, जैसे बने तैसे, लड़ाई का अंत करने का ही दृढ़ निश्चय कर लिया था। इस समय पैट्रोग्रेड में मज़दूरों और साधारण सैनिकों की सोवियट नामक एक प्रतिनिधि-संस्था स्थापित हो गई थी; जो स्टॉकहॉल्म में साम्यवादियों की अंतर राष्ट्रीय कॉन्फ़ेंस करने के लिए आन्दोलन कर रही थी। इस समय बर्लिन में भी रोटी के लिए बलबे हो रहे थे। जर्मनी और ऑस्ट्रिया दोनों ही देश अब युद्ध से थक गये थे। पश्चात्-कालीन घटनाओं से पता चलता है कि इस कॉन्फ़ेंस के होते ही जर्मनी में भी शीघ्रतया, सन् १९१७ में, क्रांति तथा प्रजापञ्चानुकूल संधि हो सकती थी। परन्तु कैरेन्स्की के अत्यन्त अनुनय-विनय करने एव जुद्ध-संख्यक ब्रिटिश मज़दूर-दल की सहानुभूति होते हुए भी—समस्त संसार में साम्यवाद और प्रजासत्तात्मक राज्य फैल जाने के भय से—पश्चिमीय मित्र-राज्यों ने अपना हठ न छोड़ा और कॉन्फ़ेंस न होने दी। मित्र-राज्यों से वास्तविक अथवा नैतिक सहायता न मिलने पर भी उदार दल के मन्दभाग्य रूसी प्रजा-सत्तात्मकवादी शत्रुओं का सामना करते रहे और जुलाई मास में उन्होंने एक अंतिम घोर आक्रमण भी कर डाला। प्रारंभिक विजय प्राप्त होने के अनंतर यह असफल हो गया, और एक बार फिर रूसियों का घोर रूप से संहार हुआ।

रूसियों की सहनशीलता की चरम सीमा आ चुकी थी। अब वहाँ स्थान-स्थान पर, और विशेषतया उत्तरीय रणक्षेत्र में, विद्रोह प्रारंभ हो गये। अंत में ७ नवम्बर सन् १९१७ को 'सोवियट्स' ने कैरेन्स्की का शासन-विधान सर्वथा पलट दिया और समस्त राज्य-शक्ति तथा अधिकार स्वयं अग्रहरण कर लिये। सोवियट (संस्था) में, लेनिन नामक व्यक्ति के नेतृत्व में, बोलशेविक पंथानुयायी साम्यवादियों का प्रभुत्व था और इन्होंने पश्चिमीय राज्यों की तनिक भी परवा न कर शांति-स्थापन का दृढ़ निश्चय कर लिया। तदनंतर २ मार्च सन् १९१८ को, ब्रेस्ट-लिटोवस्क ( Brest-Litovsk ) नामक स्थान में, रूस और जर्मनी की पृथक् संधि भी हो गई।

ये बोलशेविक साम्यवादी वाग्मी वैधवादिगे तथा कैरेन्स्की के अनुयायी क्रांति-कारियों से किस प्रकार सर्वथा भिन्न थे, यह भी शीघ्रतया प्रत्यक्ष हो गया। ये उन्मत्त समष्टिवादी (Communists) मार्क्स के कट्टर अनुयायी थे। इनकी यह धारणा थी कि रूस में इस प्रकार का शक्ति-लाभ संसारव्यापी सामाजिक क्रांति का श्रीगणेश है। इन सर्वथा अनुभवहीन पुरुषों ने, पूर्ण विश्वास के साथ, रूस की सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में सर्वोच्च परिवर्तन प्रारंभ कर दिया। पश्चिमीय एवं अमेरिकन गवर्नमेंटों को इस असाधारण प्रयोग का मिथ्या ज्ञान था और वे पथ प्रदर्शन एवं सहायता प्रदान करने में सर्वथा अयोग्य थीं। प्रेस ने इन राज्यापहारियों पर दूषण लगा तद्देशीय शासक-वर्गों को इस प्रकार उकसाना प्रारंभ किया कि वे, अपनी श्रधवा रूस की कितनी ही हानि होने पर भी, जैसे बने तैसे उनका सत्यानाश कर दें। संसार के समाचारपत्रों ने स्वच्छन्दता-पूर्वक मनगढ़न्त घृणित एवं दूषित वार्ताएँ इनके विरुद्ध लिखनी प्रारंभ कर दीं और बोलशेविक नेताओं को ऐसा अविश्वसनीय दानव, रुधिर का प्यासा, लुटेरा और कामुक प्रदर्शित किया कि उनके सामने रासपुटिन के समय की ज़ार-कुलीय चास्तविक वार्ताएँ तक पवित्र प्रतीत होने लगीं। बोलशेविक शासन से डरे हुए शत्रुओं की दशा ऐसी हो गई थी कि इन शिथिल देश के विरुद्ध आक्रमण-सैन्य भेजी गई, बलवाइयों और लुटेरों को उकसाया तथा शस्त्रास्त्र से सुसज्जित किया गया और धन की सहायता भी दी गई। कोई गृहित या अमानुषीय कृत्य ऐसा न था, जिसका बोलशेविक शासन से डरे हुए शत्रुओं ने उपयोग न किया हो।

पाँच वर्ष तक घोर युद्ध करने के कारण शिथिल हुए देश पर शासन करनेवाली रूसी बोलशेविक गवर्नमेंट सन् १९१९ में ब्रिटिश सैन्य से आरचेगल में, जापानी आक्रमण-कारियों से पूर्वीय साइबेरिया में, फ्रेंच और ग्रीक सैन्यसंयुक्त रूमानिया के निवासियों से दक्षिण में और पुरानी रूसी सरकार के नावाध्यक्ष कोलचक से साइबेरिया में तथा फ्रेंच जहाज़ी बेड़े द्वारा सहायता प्राप्त करनेवाले जनरल एनकिन से क्रीमिया में युद्ध कर रही थी। इसी वर्ष जुलाई मास में इस्थोनिया की सेना लेकर जनरल यूडेनिच भी प्रायः पीटर्स-वर्ग तक पहुँच गये। अंत में फ्रांसिसियों द्वारा उकसाये जाने पर पोलैंड-बानियों ने भी सन् १९२० में रूस पर एक नया आक्रमण कर दिया और जनरल एनकिन के समान प्रति-घात की इच्छा रखनेवाले जनरल रैंगल नामक एक नवीन आक्रमणकारी ने अपने ही देश को उजाड़ा। मार्च सन् १९२१ में क्रौनस्टैट्ट (Cronstadt) नामक स्थान के नाविकों ने भी विद्रोह कर दिया। परंतु इन समस्त विविध आक्रमणों को सहन करने के उद्योग भी सभापति लेनिन की अघ्यक्षता में रूसी शासन-सत्ता जीती रही। यह उन्मत्त अघ्य

दृढ़ता थी और रूस के जन-साधारण ने इन कठिनाइयों को ऐसी हीन दशा होते हुए भी अविचल भाव से सहन कर लिया। सन् १९२१ के अंत में इटैली और इंग्लैंड ने कम्यूनिस्ट शासन-सत्ता को एक प्रकार से स्वीकार कर लिया था।

यद्यपि बोलशेविक गवर्नमेंट को विदेशी बाधकों के निवारण और स्वदेश में विद्रोहियों के दमन करने में कम कठिनाई नहीं हुई तो भी, कम्यूनिस्ट विचारों के आधार पर, रूस में नवीन सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयत्न उससे कहीं अधिक दुस्तर सिद्ध हुआ। रूस का किसान धरती का भूखा छोटा सा ज़मींदार है। उसके मस्तिष्क और कार्यप्रणाली में कम्यूनिस्ट भावों का अस्तित्व, हल मछली की उड़न-शक्ति के सदृश, असंभव है। क्रांति ने बड़े-बड़े ज़मींदारों की धरती तो उनको दिला दी परंतु विनिमय-शील मुद्रा (Negotiable money) के बिना खेतों में अनाज कैसे उत्पन्न होता; क्योंकि क्रांति के अन्य प्रभावों के साथ एक यह बात भी हुई कि मुद्रा का मूल्य बहुत कम हो गया था। युद्ध-भार के कारण रेल-पथों का विनाश हो जाने पर एक तो अनाज की उपज में वैसे ही अव्यवस्था हो रही थी, परंतु अब उसकी सीमा इतनी संकुचित हो गई कि वह केवल किसानों के भोजन मात्र के लिए पर्याप्त था। फल यह हुआ कि नगर भूखों मरने लगे। कम्यूनिस्ट सिद्धांतों के आधार पर किये हुए, यंत्रों द्वारा अधिक उत्पादन के—व्यवस्था एवं विचार से शून्य—प्रयत्न भी सर्वथा असफल रहे। सन् १९२० के वीतते न वीतते रूस में आधुनिक सभ्यता के सर्वथा अधःपतन का भी अपूर्व दृश्य दृष्टिगोचर हुआ। उस समय वहाँ रेल-पथों पर उनके व्यवहार न किये जाने के कारण जंग लग रहा था; नगर उजाड़ थे और मृत्यु-संख्या सर्वत्र अत्यन्त अधिक थी, परंतु तो भी यह देश द्वार पर खड़े हुए शत्रुओं से भिड़ रहा था। सन् १९२१ में युद्ध द्वारा विनष्ट हुए दक्षिण-पूर्वीय प्रान्तों के किसान सूखे—अनावृष्टि—के कारण अकाल-दुर्भिक्ष के चंगुल में फँस गये और फलतः वहाँ लाखों मनुष्य भूखों मर गये।

ऐसी कठिन परिस्थिति में पुनर्निर्माण की गति धीमी करनी निश्चित की गई तथा एक नवीन आर्थिक नीति को अंगीकार किया गया, और वैयक्तिक अधिकार (Ownership) सम्बंधी स्वतंत्रता एवं उद्योग का बहुत अंशों में पुनः प्रतिपादन किया गया। इस प्रकार, उत्पादक उद्योगों में उन्नति होने लगी। रूस, उस समय निर्माणक साम्यवाद (Constructive Socialism) के प्रवाह से पृथक् हुआ सा प्रतीत होता था और वहाँ की परिस्थिति भी वैसी ही हो रही थी जैसी कि अमेरिका के संयुक्त-राज्यों की, एक शताब्दी पहले, थी। अमेरिका के लुद्ध क्षेत्रपतियों के सदृश रूस में भी 'कुलक' कहे जानेवाले सम्पन्न रूपकों का एक नवीन वर्ग उत्पन्न हो गया। छोटे स्वतंत्र व्यवसायियों की संख्या बढ़

गई। परन्तु समष्टिवादीय वर्ग ( Communists ) अपने ध्येय से इस प्रकार विचलित हो रूस को १०० वर्ष पहले के अमेरिका का पथानुगामी बनाना न चाहता था। समष्टिवादीय उन्नति के पथ पर देश को फिर लौटाकर लाने का, सन् १९२८ में, वहाँ अत्यंत प्रबल उद्योग प्रारंभ हुआ। राज्य-चालित व्यवसायों ( State Industrialism ) और विशेषकर जनता के प्रधान खाद्य पदार्थों का उत्पादन करने के लिए एक पंचवर्षीय योजना बनाई गई, परन्तु इस बात पर विशेष ध्यान रखा गया कि कृषकों के वैयक्तिक उत्पादन के स्थान में सांघिक रूप से ( Collectively ) बड़े पैमाने पर यह खेती का काम संपादन किया जाय। इस योजना के कार्यरूप में परिणत करते समय असंख्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। निरक्षरता, जनसाधारण की पिल्डूरी दशा, व्यवसाय-विशेषज्ञों तथा मुख्य कार्यकर्त्ताओं का अभाव और पाश्चात्य जनता के सहयोग का न केवल अभाव बरन् विद्वेष—मुख्य अड़चनें थीं। परन्तु इतने पर भी औद्योगिक क्षेत्र में उनके काफ़ी सफलता प्राप्त हुई; अपव्यय और अनुपात-हीनता के होते हुए भी यह नहीं कहा जा सकता कि वास्तव में उनके कार्य की सिद्धि नहीं हुई। हाँ, कृषि-संबंधी उत्पादक क्रियाओं पर इन शीघ्र एवं साहसिक परिवर्तनों का वैसा सफल प्रभाव न हुआ, और सन् १९३३-३४ के जाड़ों में रूस में फिर खाद्य पदार्थों की बड़ी कमी पड़ गई।

शेष संसार ने, जो इस समय भी वैयक्तिक लाभ-संबंधी पूँजीवाद के परीक्षकों के फेर में पड़ा हुआ था, रूस के इन प्रयोगों पर अविश्वास एवं सम्मान-मिश्रित कौतूहल से दृष्टिपात किया। प्राचीन पद्धति ठीक काम नहीं दे रही थी; उसने क्रय-शक्ति को जनसंख्या के अर्ध भाग तक ही सीमित कर दिया था और इसी कारण उसके आनुक्रमिक वेग का क्षय होता जा रहा था। फलतः उसमें आत्म-संतोष का अभाव था। 'योजना' का भाव अब समस्त संसार में फैल गया; जैसे-जैसे आर्थिक कठिनाइयाँ—जिनका हम अगले अध्याय में वर्णन करेंगे—बढ़ती गईं, तैसे-तैसे योजनाओं की भी वृद्धि होने लगी। और सन् १९३३ के बीतते न बीतते कोई भी ऐसा स्वाभिमानी राजनीतिज्ञ न था जिसकी अपनी योजना न हो। कम से कम इतनी भक्ति तो संसार ने रूस के प्रति प्रदर्शित की।

## राजनैतिक और सामाजिक संसार का पुनर्निर्माण

इस सीमित इतिहास के लिखने में जो हमारा उद्देश्य था उसके अनुसार हम संधि-विषयक कट्टा एवं दुरूह वाद-विवादों और मुख्यतया महायुद्ध के अंत में होनेवाली 'वर्साई' की संधि का वर्णन करने में अशक्य हैं। हम अब यह समझने लगे हैं कि इस महाभयंकर युद्ध द्वारा भी न तो किसी ( कठिनाई ) का अंत हुआ, न किसी लाभदायक वस्तु का प्रादुर्भाव और न कोई समस्या ही सुलभ सकी। वरन् लाखों मनुष्यों का संहार हो गया और संसार प्रायः शक्तिहीन एवं नष्ट-भ्रष्ट हो गया। रूस तो चकनाचूर ही हो गया। सहानुभूति-रहित भयावह संसार में बिना किसी व्यवस्था एवं पद्धति के पड़ी हुई मूर्ख मानव-जाति के लिए युद्ध ने, कम से कम, तीव्र एवं उद्वेगजनक चेतावनी का काम दिया। वरबस मानव-समाज में दुःखान्त नाटक रचानेवाले असंस्कृत आत्मभिमान एवं जातीय तथा राष्ट्रीय लिप्साएँ, युद्ध के पश्चात्, थोड़ी सी भी शिथिल न हुईं—जैसी की तैसी बनी हैं—और युद्ध की थकावट एवं क्षति पूर्ण होते ही इनके कारण अन्य ऐसी ही आपदाओं का आना भी बहुत संभव है। युद्ध और विप्लव वास्तव में व्यर्थ ही सिद्ध होते हैं। मानव-समाज के लिए इनका अधिक से अधिक उपकार यही है कि ये शिथिल एवं बाधक वस्तु-स्थितियों का अत्यन्त बर्बर एवं कष्टप्रद रीति से विनाश कर देते हैं। इस महायुद्ध द्वारा यूरोप से कैसरशाही का भय सदा के लिए चला गया, रूसी ज़ारशाही खंड-खंड हो विनष्ट हो गई तथा और भी अन्य बहुत से अनियंत्रित राज्यों का अंत हो गया। परन्तु इससे क्या होता है ? यूरोप में अब भी बहुत सी राज-पताकाएँ फहरा रही हैं; क्रोधो-दीपक राज-सीमाएँ वैसी ही बनी हुई हैं और बड़ी-बड़ी सेनाएँ भी पूर्ववत् शीघ्रता से युद्ध-सामग्री एकत्र करने में तत्पर हैं।

'वर्साई' की संधि-कान्फ़ेस का जमाव महायुद्ध-जनित विरोध एवं पराजय को तार्किक पराकाशा तक पहुँचाने के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य के लिए सर्वथा अयुक्त था।

जर्मनी, आस्ट्रिया, तुर्की और बल्गेरिया के निवासियों को इसमें विचार-विमर्श करने का अधिकार नहीं दिया गया; कॉन्फ़ेस के आदेशों को रद्दीकार करना ही उनका कर्तव्य था। मानव-जाति के कल्याण की दृष्टि से संधि-कॉन्फ़ेस का स्थान तो विशेषतया अशुभ था। यह वही वर्साई नगर था जहाँ सन् १८७१ में, प्रत्येक असभ्य प्रदर्शन द्वारा, नवीन जर्मन-साम्राज्य की विजय-घोषणा की गई थी। उसी शीशमहल में अब पूर्व दृश्य के परावर्तित अभिनय के पुनः प्रदर्शन करने का प्रस्ताव अत्यंत ही ग्लानिजनक था।

महायुद्ध के प्रारंभ में जो थोड़ी बहुत उदारता दिखाई देती थी वह भी कभी की निःशेष हो चुकी थी। विजयी देशों की जनता को तो केवल अपनी ही कष्ट-कथा और हानि का दुःस्मरण था; उनके ध्यान में यह कभी न आया कि विजित देशों की दशा भी उन्हीं के समान थी। जातीयता की प्रतिस्पर्धा का अस्तित्व और उनका सामञ्जस्य करनेवाली सांघिक व्यवस्था के सर्वथा अभाव के कारण यह युद्ध तो यूरोप में नैसर्गिकतया अवश्य-म्भावी था। बहुत छोटे भू-भागों पर शासन करनेवाली, अत्यन्त प्रबल सैन्य-सम्पन्न स्वतन्त्र जातियों के अस्तित्व का नैसर्गिक परिणाम है—युद्ध। और यह महायुद्ध यदि इस रूप से न भी छिड़ता तो किसी अन्य ऐसे ही रूप से अवश्य ही हो जाता और, भविष्य में, किसी राजनैतिक ऐक्य द्वारा यदि इसके पहले से न रोका गया तो बीस अथवा तीस वर्ष उपरांत यह और भी अधिक भीषण एवं संहारक रूप में प्रकट होगा। युद्ध के लिए सुसज्जित देशों का लड़ाई में भाग लेना ऐसा ही स्वाभाविक है जैसा सुर्गियों के लिए अंडे देना। परन्तु व्यथित एवं श्रांत देशों ने इसको सर्वथा हृदय से सुला दिया, और विजित जातियों के साथ ऐसा वर्ताव किया गया, मानों विजेताओं को समस्त क्षतियों के नैतिक एवं भौतिक रूप से वे ही जिम्मेदार हैं। युद्ध का परिणाम भिन्न होने पर ये विजित जातियाँ भी इन विजेताओं के साथ ऐसा ही वर्ताव करतीं। फ्रांसीसियों और अंगरेजों के विचार में जर्मन दोषी थे; और जर्मनी की दृष्टि में रूसी, फ्रेंच तथा ब्रिटिश दोषी थे। परन्तु यह बात तो केवल अल्पसंख्यक बुद्धिमानों के विचार में थी कि इन समस्त दोषों की जिम्मेदार थी यूरोपीय खंड-राज्य-व्यवस्था। प्रतीकार-परायणता का आदर्श स्थापित करना ही वर्साई-संधि का उद्देश्य था। इसके द्वारा विजितों के घोर रूप से दंडित किया गया; घायल एवं व्यथित विजेताओं ने विजित जातियों पर—जिनकी दशा उस समय दिवालियों के समान हो रही थी—भयंकर शृण का भार लाद दिया।

युद्ध रोकने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करने के प्रयत्न जाति-बंध (League of Nations) द्वारा किये गये वे प्रकाश्य रूप से सर्वथा असरान्वित एवं कृत्रिम थे।



जहाँ तक यूरोप का संबंध था वहाँ तक तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवहारों में स्थायी शांति स्थापित करने के प्रश्नों का उठना भी संशय से खाली न था। अंतर्राष्ट्रीय संघ स्थापित करने का प्रस्ताव व्यावहारिक राजनीति की सीमा में अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र के सभापति विल्सन के कारण आया था और उसी देश में इसका मुख्य समर्थन भी था। परंतु इस संयुक्त राष्ट्र में, जिसका कुछ काल पूर्व ही निर्माण हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार-विषयक अन्य धारणाएँ तनिक भी परिपक्व न हुई थीं। वहाँ तो केवल एक मुनरो-सिद्धांत ही की सृष्टि हुई थी जिसके द्वारा नवीन संसार यूरोपीय हस्तक्षेप से बच गया। ऐसी कच्ची दशा में वृहत् सामयिक समस्याओं के सुलभाने एवं उनमें मानसिक योग देने का भार भी सहसा उस पर आ पड़ा और वहाँ इसके उपयुक्त कुछ भी सामग्री न थी। अमेरिका-निवासियों की प्रवृत्तियाँ स्वभावतः संसार में स्थायी शांति स्थापित करने की ओर थीं परंतु इसके साथ ही साथ प्राचीन संसार की राजनीति और वहाँ के भूगड़े-दंटों से पृथक् रहने की प्रबल भावनाएँ भी—परंपरागत अविश्वास के कारण—उनके हृदयों में भरी हुई थीं। सांसारिक समस्याओं के सुलभाने का उपाय अमेरिका अभी सोच ही रहा था कि जर्मन पनडुब्बियों के आक्रमणों के कारण उसको जर्मन-विरोधी मित्र-राष्ट्रों के गुट में, विवश हो, सम्मिलित होना पड़ा। सभापति विल्सन की अंतर्राष्ट्रीय-संघ-स्थापना की व्यवस्था भी वास्तव में एक प्रयत्न था, जो अमेरिका के दृष्टिकोण से तैयार किया गया था और जिस पर विचार करने के लिए भी बहुत थोड़ा समय मिला था। यह व्यवस्था अपर्याप्त, अपूर्ण एवं आपत्तिजनक थी, परंतु यूरोप-निवासी इसको अमेरिका का परिपक्व मत समझ बैठे। सन् १९१८-१९ में, युद्ध द्वारा घोर रूप से क्लान्त हुई, प्रायः समस्त मानव-जाति तो भविष्य में युद्ध की रोक करने के लिए असीम त्याग करने के लिए उतारू थी; परंतु प्राचीन संसार की एक भी शासन-सत्ता इस ध्येय की प्राप्ति के लिए, अपनी राज-स्वतंत्रता के अणुमात्र भी न्यून करना न चाहती थी। अखिल सांसारिक अंतर्राष्ट्रीय-संघ-व्यवस्था-संबंधी, सभापति के सार्वजनिक भाषण कुछ काल तक तो शासन-सत्ताओं की अवहेलना कर समस्त जातियों के हृदयों में पहुँचते रहे। और अमेरिका के परिपक्व विचार अनुमान कर लोगों ने उनसे पूर्ण सहानुभूति भी प्रकट की। परंतु दुर्भाग्यवश सभापति को काम तो पड़ा शासकों से, न कि शासितों से। दूर दृष्टि रखनेवाला यह महापुरुष व्यवहार-क्षेत्र की कसौटी पर कसने पर वड़ा ही संकीर्ण-हृदयी एवं अभिमानी सिद्ध हुआ और इसकी आन्दोलित की हुई यह उच्छुंग आवेश-तरंग यों ही व्यर्थ विलीन हो गई।

डा० हिलन अपनी पीस कॉन्फ़ेंस नामक पुस्तक में लिखते हैं कि सभापति विल्सन के समुद्र-तट पर पदार्पण करते समय यूरोप की दशा कुम्भकार के हाथ में रखी हुई मिट्टी

के सदृश थी। निर्दिष्ट स्थान की ओर ले जानेवाले हज़रत मूसा के समान पथ-प्रदर्शकों का अनुसरण करने के लिए भी मानव-जाति कभी ऐसी उत्सुक न थी जैसी कि इस समय युद्ध-विवर्जित एवं परिवेष्टन-शून्य जगत् की ओर ले जानेवाले सभापति विल्सन के पीछे चलने के लिए उत्साह से तैयार थी। जन-समाज की धारणा भी यही थी कि वे इस कार्य के लिए अत्यन्त उपयुक्त एवं महान् नेता थे। फ्रांस की जनता, प्रेम और आदर के भावों से श्रोतप्रोत हो, उनके सम्मुख नत-मस्तक हो गई। पेरिस नगरी के मज़दूर नेताओं ने मुझसे कहा कि सभापति महोदय के सम्मुख हर्पातिरेक से “हमारी अश्रुधाराएँ बह चली थीं और उनकी श्रेष्ठ योजनाओं की पूर्ति के लिए ‘हमारे’ अनुयायी आग में कूदने और पानी में घँसने के लिए भी तैयार थे। इटैली के मज़दूरों के लिए उनका नाम स्वर्गीय नाद के सदृश था जिसकी ध्वनि पृथ्वी को पुनर्जीवित करने में समर्थ थी। जर्मन देशवासी भी इनको और इनके सिद्धान्तों को अपने जीवन का एकमात्र आधार मानते थे। निर्भीक हर म्यूहलोन का कथन है कि सभापति विल्सन यदि जर्मनों को सम्मुख कर अपने मुखारविन्द से उनको कठिन दंडाज्ञा भी सुना देते तो उसका भी, बिना उज़्र किये हुए, अधीनता से स्वीकार कर पालन किया जाता। जर्मन-आस्ट्रिया में उनकी कीर्ति उद्धारक के समान थी, और उनका नामोच्चार ही दीन-दुखियों के लिए संताप-विदारक और शोक-निवारक था।.....”

सभापति के प्रति लोगों को ऐसी अतिक्रमणकारी आशाएँ लगी हुई थीं। फिर किन्त प्रकार उन्होंने लोगों को सर्वथा निराश किया और उनका स्थापित किया हुआ राष्ट्रीय संघ कैसा निरर्थक और निर्बल सिद्ध हुआ, इस लंबी एवं दुःखद कथा का वर्णन हम यहाँ नहीं कर सकते। स्वयं सभापति महोदय में मानव-समाज की स्वाभाविक दुःखांत कथा अत्यंत वर्धित रूप में चित्रित थी। उनके विचार-स्वप्न तो विशद थे, परंतु उनके अनुरूप कार्यक्षमता उनमें न थी। अपने प्रेसीडेंट की कृति—जातीय संघ—की, जिसे समस्त यूरोप ने ग्रहण कर लिया, स्वयं अमेरिका ने अचहेलना की। अमेरिका-वासियों को धीरे-धीरे यह अनुभव हुआ कि जिसके लिए वे कतई तैयार न थे वही उनके स्तिर बरबत मड़ा जा रहा था। इसी प्रकार यूरोपवालों ने भी यह अनुभव किया कि उस आपत्ति के लिए अमेरिका के पास कुछ सामग्री न थी। अकाल में जन्म लेने और जन्म लेते ही इस प्रकार पंगु हो जाने से यह जातीय संघ घोर प्रयत्नों द्वारा बनाये हुए अपने अव्यवहार्य सिद्धांतों और प्रकाश्य रूप से परिमित बल के कारण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सकलतापूर्वक संगठन की राह में अत्यंत वास्तविक बाधा रूप हो रहा है। यदि यह संघ स्थापित न हुआ होता तो समत्वाएँ अधिक स्पष्ट होतीं। इस प्रस्ताव का शुभागमन करनेवाला अग्नि बाला के समान वह समस्त

संसार-व्यापी उत्साह और समस्त संसार की शासन-सत्ताओं का नहीं वरन् मनुष्य-समाज का युद्धों को रोकने के लिए उतारू होना एक ऐसी बात है जो इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने योग्य है। मानव-व्यवहारों को विभाजित कर उनमें अव्यवस्था उत्पन्न करने-वाले इन अदूरदर्शी शासनों के साथ ही साथ समस्त संसार को ऐक्य-सूत्र में ग्रथित करने-वाली एक वास्तविक महान् शक्ति भी विद्यमान है, दिन-प्रतिदिन बालचन्द्र के समान वृद्धि को प्राप्त हो रही यह शक्ति अभी तक सफल प्रयोग की राह ढूँढ़ रही है। वर्षाई की संधि केवल राजनैतिक संधि थी और 'लीग ऑफ नेशन्स' एक राजनैतिक संस्था जिसको मानव-व्यवहारों की गाँठ-गूड़ करनेवाला प्रयत्न मात्र कहना ठीक होगा। परंतु इस योजना में वर्तमान शासनों एवं राष्ट्र-कल्पनाओं को अविकल्प रूप से स्वीकार कर लिया गया था और यही एक भारी भूल थी जो धीरे-धीरे मानव-जाति पर प्रकट हो रही है। शासन और राष्ट्र तो अस्थायी वस्तु हैं जो मानव-आवश्यकताओं की वृद्धि एवं उनके बदलने पर परिवर्तित हो सकते हैं; और यही होना भी चाहिए, क्योंकि इन राष्ट्र एवं शासन-सत्ताओं की अपेक्षा ये आर्थिक शक्तियाँ कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। ये शक्तियाँ मानव-जगत् की स्वत्व-कल्पना (Ideas of Property) एवं चेष्टाओं पर अवलंबित हैं स्वयं जिनका प्रादुर्भाव शिक्षा द्वारा होता है। मानव-व्यापारों का रूप जनसाधारण के मस्तिष्कगत विचारक्रमों के अनुसार ही होता है; अतएव इन विचारक्रमों के अशुद्ध निरूपण एवं अर्थार्थ बोध को जड़ से उखाड़ देना ही सामाजिक एवं आर्थिक कष्टों के दूर करने का जीता-जागता इलाज है। सन् १९१८ से १९३३ तक संसार ने मानव-व्यापारों के पुनः व्यवस्थित करने के लिए मंद एवं भदे प्रयत्नों के "कॉन्फ़ेस-युग" में पदार्पण किया। इन वाद-विवादों में, इतिहास के विद्यार्थियों को केवल राजनैतिक एवं जातीय भाव, अधिक विस्तृत एवं स्पष्ट मानव-समाज के आर्थिक एवं नैतिक सारभूत ऐक्य की ओर निश्चल रूप से उन्नति करते हुए प्रतीत होते हैं। प्रजागण, राजनैतिक तथा प्रेस (Press) एक तो वैसे ही धीरे-धीरे अनिच्छापूर्वक (वस्तु-स्थिति) समझते हैं फिर यहाँ तो इस बीच (सांसारिक) नैतिक जीवन में ऐसी क्रमहीनता, बेकारी एवं दारिद्र्य आया है कि जैसा पहले सौ वर्षों में नहीं देखा गया था। जाति की जीवन-शक्ति में शैथिल्य आ गया है, सर्वसाधारण की जीवन-रक्षा में प्रत्यावर्तन हो गया है। अपराधों की संख्या बढ़ गई है और राजनैतिक जीवन असाधारण रूप से अस्थिर हो गया है। इन दुर्गतियों का विस्तार-पूर्वक वर्णन हम यहाँ नहीं करेंगे।

ये सभ्यता के भावी संहार की सूचक हों या न हों, परन्तु इतना तो अवश्य कहा जा सकता है कि उसके संहार के चिह्न अभी तक नहीं दीखते। और अभी तक यह

अनुमान करना भी संभव नहीं है कि हमारी जाति में उस क्रमशः उन्नतिशील नैतिक श्रेय एवं नेतृत्व के उत्पादन की क्षमता है या नहीं जिसने मानवेतिहास में उन्नीसवीं शताब्दी जैसा आह्लाद-जनक अध्याय लिखा था।

वर्तमान समय में मनुष्यों पर जो अननुभूतपूर्व भय, घबराहट और दुःखों की घटा छाई हुई दीखती है उसका कारण यह है कि विज्ञान ने मानव-समाज को ऐसी अपूर्व शक्तियाँ प्रदान की हैं जिनका पहले समय में उसके आभास तक न था। परन्तु निश्चयक विचारों, साद्यन्त स्पष्ट कथन-विधि तथा सर्वाङ्गपूर्ण सुसमीक्षित कल्पनाओं की उसी वैज्ञानिक विधि से, जिसने उसके ऐसी अद्यापि दुर्धर्ष शक्तियाँ प्रदान की हैं, इन शक्तियों के दमन करने की आशा होती है। मनुष्य ने तो अर्थात् युवावस्था में ही पदार्पण किया है। उसकी यातनाएँ क्षीणता एवं जर्जरता-जनित नहीं हैं, अपितु अनियंत्रित एवं वर्धनशील शक्ति की द्योतक हैं। यदि हम समस्त इतिहास को एक शृङ्खलावद्ध पद्धति अनुमान कर लें, जैसा हम इस पुस्तक में कर रहे हैं, तो हमको उत्तरोत्तर उन्नतिशील विशद दृष्टि एवं नियंत्रण के जीवन-सुद्ध को मनन करने पर वर्तमानकालीन भय और आशंका का ठीक परिमाण दृष्टिगोचर होगा। मानव-समाज के ऐश्वर्य-रूपी दिवन की अर्थात् अरुणाई की भलक भी भले प्रकार नहीं दिखाई देती। परन्तु फूलों की सुन्दरता और सूर्यास्त, तरुण पशुओं की सविलास एवं अन्यून चेष्टाएँ और सहस्रों प्राकृतिक दृश्यों की साहाय्य शोभा में इसका आभास मिलता है कि मानव-जीवन हमारे लिए क्या कुछ कर सकता है और कदाचित् आकार तथा चित्रमय कौशल में, अल्प-संख्यक महान् संगीत में और कुछ एक भव्य प्रासादों एवं आनन्द-दायक उपवनों से हम यह अनुमान कर सकते हैं कि भौतिक संभावनाओं के होते हुए मानव संकल्प में कैसे-कैसे कार्य करने की क्षमता है। हम स्वप्न देखते हैं, हमारी शक्ति वर्तमान काल में अनियंत्रित होते हुए भी उत्तरोत्तर बढ़ रही है। क्या इसमें संदेह किया जा सकता है कि मानव समाज की अतिशयोक्ति-पूर्ण मानसिक कल्पनाएँ भी सहसा बहुत शीघ्र ही कार्य रूप में परिणत होंगी? मंनार में ऐक्य और शांति का चिरस्थायी राम-राज्य होगा और हमारे रुधिर एवं आत्मा ने उन्पन्न संतानें भी चिरंजीव रहेंगी—उत्तरोत्तर विस्तृत चेष्टाओं एवं पराक्रमों के क्षेत्रों में क्षमता प्राप्त करते हुए एक ऐसे संसार में, जो हमारे किसी परिचित प्रासाद अथवा उपवन से कहीं अधिक भव्य एवं रमणीक होगा। मानव-जाति से जो कुछ भी आज तक हो सका है वह उनकी वर्तमान अवस्था की लुप्त विजय ही है और जो कुछ हमने इस इतिहास में वर्णन किया है वह मानव-जाति के भावी कर्तव्यों की केवल प्रस्तावना मात्र है।